



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23—अप्रैल 29, 2005 (वैशाख 3, 1927)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23—APRIL 29, 2005 (VAISAKHA 3, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
विश्व व्यापार केन्द्र, सेंटर-1

मुम्बई-400005, दिनांक 13 अप्रैल 2005

बैंपवि सं. बीपी.बीसी.+1638/21.04.152/2004-05--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से निम्नलिखित बैंक को निकालने का निदेश देता है :-

“आईडीबीआई बैंक लिमिटेड”

उषा धोरात
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, उड़ीसा

भुवनेश्वर-22, दिनांक 31 मार्च 2005

सं. 44-बी-34/12/18/82-हित.--यह एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियमावली, 1950 के विनियम 10-क के अन्तर्गत जिला गंजाम में बरहमपुर क्षेत्र की स्थानीय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी :-

- | | |
|---|---------|
| 1. विनियम 10-क(1)(क) के अन्तर्गत
उप जिलाधिकारी, बरहमपुर | अध्यक्ष |
| 2. विनियम 10-क(1)(ख) के अन्तर्गत
जिला श्रम अधिकारी, बरहमपुर | सदस्य |
| 3. विनियम 10-क(1)(ग) के अन्तर्गत
प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी
क. रा. बी. औषधालय, बरहमपुर | सदस्य |

4. विनियम 10-क(1)(घ) के अन्तर्गत
(नियोजक प्रतिनिधि)

(i) श्री टी. बाहाजी सराफ, स्वत्वधारी, सदस्य
मैसर्स आउरो फिलिंग स्टेशन,
एन.एच. 5, बाई पास रोड,
बरहमपुर, गंजाम

(ii) श्री टी. आदिनारायण सदस्य
(वरिष्ठ प्रबंधक),
मैसर्स उकल ऑटोमोबाइल्स लि.
टाटा बेन्ज चौक,
पोस्ट-बरहमपुर, जिला गंजाम

5. विनियम 10-क(1)(ड) के अन्तर्गत
(कर्मचारी प्रतिनिधि)

(i) श्री लिंगराज बेहेरा, वितरण लिपिक, सदस्य
मैसर्स आउरो फिलिंग स्टेशन,
एन.एच. 5, बाई पास रोड,
बरहमपुर, गंजाम

(ii) श्री एस. एन. मुर्ति, सदस्य
(कर्मशाला लिपिक),
मैसर्स उकल ऑटोमोबाइल्स लि.
टाटा बेन्ज चौक,
पोस्ट-बरहमपुर, जिला गंजाम

6. विनियम 10-क(1)(च) के अन्तर्गत सदस्य एवं पदेन
प्रबन्धक, शाखा कार्यालय, सचिव
क. रा. बी. निगम, बरहमपुर

सी. आर. नाइया
क्षेत्रीय निदेशक

1 मई, 2005 से एक वर्ष की अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबन्धनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

डॉ. अशोक हल्दिया
सचिव

सं. 29-सी.ए./लॉ/डी.-113/2005--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संदर्भ संख्या 1/2001 में दिनांक 11 जनवरी, 2005 को यह आदेश किया है कि श्री वाई. एम. मंसूरी, एफ.सी.ए., चार्टर्ड एकाउंटेंट, 301, सर्वोदय कामर्शियल सेंटर, निकट जी.पी.ओ., सालापोज रोड, अहमदाबाद-380001 (सदस्यता सं. 31335) को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-1 के खण्ड (5), (6) और (7) के अर्थात्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से छह माह की अवधि के लिए हटा दिया जाए। तदनुसार, एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री वाई. एम. मंसूरी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से दिनांक 1 मई, 2005 से छह माह की अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान वह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के उक्त आदेश के निबन्धनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

डॉ. अशोक हल्दिया
सचिव

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 अप्रैल 2005

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सी.ए./लॉ/डी.-143/2005--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संदर्भ संख्या 1/2004 में दिनांक 14 फरवरी, 2005 को यह आदेश किया है कि श्री मिलिंद कांतिलाल शाह, एफ.सी.ए., चार्टर्ड एकाउंटेंट, 616, आनन्द मंगल-3, निकट कोर हाउस, राजनगर क्लब लाइन, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-380006 (सदस्यता सं. 36482) को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 22 के साथ पठित उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-1 के खण्ड (5), (6) और (7) के अर्थात्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण उनका नाम सदस्यों के रजिस्टर से एक वर्ष की अवधि के लिए हटा दिया जाए। तदनुसार, एतद्वारा, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री मिलिंद कांतिलाल शाह का नाम सदस्यों के रजिस्टर से दिनांक

कोलकाता-700071, दिनांक 1 अप्रैल 2005

सं. 3-ईसीए/4/2/2004-2005--चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से त्रिमल्लिखित सदस्य का नाम उसकी प्रार्थना पर उसके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है :-

क्रम सं.	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	056442	मि. परीक सतीश, एडी-160, सेक्टर-1, साल्ट लेक, कोलकाता-700064	23.10.2002

डॉ. अशोक हल्दिया
सचिव

न. 3 ईसीए/8/1/2004-2005 चार्टर्ड प्राव लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (i) एण्ड तीन के अनुसारण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों की जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गयी तिथियों से सदस् कर दिये गये है क्योंकि ये अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को रखने को इच्छुक नहीं है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	002514	मि: दत्ता बलाई चन्द्रा एफसी.ए. ७३/१०, गल्फ क्लब रोड कोलकत्ता- ७०० ०३३	01/04/2004
2.	002887	मि: नागपाल बुय दास एफसी.ए. १ बि लाल कमल २७ बेकर रोड कोलकत्ता- ७०० ०२७	01/04/2004
3.	004184	मि: राय हरि संकर एफसी.ए. ३७ ए पंचाननतला लेन कोलकत्ता- ७०० ०३४	01/04/2004
4.	005284	मि: झाउर रामा संकर एफसी.ए. मेकलियड रासल (ईन्डिया) लिमिटेड ४ मांग लेन, ७ तल्ला शूरेन्द्र मोहन घोष सरनि कोलकत्ता- ७०० ००१	01/04/2004
5.	005630	मि: सेन गुप्ता कनक कुमार एफसी.ए. २८/बि लेक रोड कोलकत्ता- ७०० ०२९	01/04/2004
6.	010876	मि: मित्रा शयमल कुमार एफसी.ए. २७ रिजेन्ट स्टेट कोलकत्ता- ७०० ०९२	27/07/2004
7.	014942	मि: नाग सन्तोश चन्द्रा एफसी.ए. ५२ टालिंगन्ज सारकुलार रोड कोलकत्ता- ७०० ०५३	09/02/2004
8.	015845	मि: मुखोपाध्याय रघुबीर एफसी.ए. ७३-बि, हरिश मुखार्जी रोड कोलकत्ता- ७०० ०२५	01/04/2004
9.	050126	मि: सेठ वोद्य राज एफसी.ए. ६ ओटारलु स्ट्रीट सुईट न० ५०३ ५ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०६९	01/04/2004

10.	050154	मि: दे असोक कुमार एफसी.ए. जी/११ दिगन्तीक ब्लाक-ए एडच सल्ट लेक कोलकत्ता- ७०० ०९१	25/08/2004
11.	051222	मि: खूराना निर्मल कुमार एफसी.ए. सुर्यदय एपारमन्ट फाल्ट १ सि १७१ एस पि मुखार्जी रोड कोलकत्ता- ७०० ०२६	01/04/2004
12.	051487	मि: चौधुरी चीत्तरनजन एफसी.ए. रुम न० ३०२ एण्ड ३०३ १३ ब्रुक्लेड लेन कोलकत्ता- ७०० ०६९	24/05/2004
13.	051591	मि: सिंघानिया हरिश कुमार एफसी.ए. शुभम १ सरजिनी नाइडु सरनी ७ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०१७	01/04/2004
14.	051821	मि: विश्वास अशोक ए.सी.ए. १७१/२० राय बाहादुर रोड वेहाला कोलकत्ता- ७०० ०३४	01/07/2004
15.	051924	मि: राथी मनक चन्द एफसी.ए. ८ बी आर बी बासु रोड (केनी स्ट्रीट.) ३ तल्ला, रुम न०-१० कोलकत्ता- ७०० ००१	22/07/2004
16.	053507	मि: राय कीशोर चन्द्रा एफसी.ए. ५२ टालिंगन्ज सारकुलार रोड कोलकत्ता- ७०० ०५३	09/02/2004
17.	053610	मि: सील सुदीता ए.सी.ए. १/एफ राजेशय बस्क बगला लेन कोलकत्ता- ७०० ००२	25/03/2004
18.	053767	मि: मदप्पा पनदनदा करिप्पा एफसी.ए. १० बी ली रोड कोलकत्ता- ७०० ०२०	01/04/2004
19.	054025	मि: शाहा अशोक एफसी.ए. एफ/एफ १ हातियारा रोड जंग्रा कोलकत्ता- ७०० ०५९	01/04/2004

20.	054347	मि: चक्रवर्ती सैकत ए.सी.ए. 16/08/2004 १०२ साउथार्न एमिनिउ सरवर फ्लाट ७ म ई कोलकत्ता- ७०० ०२९	31.	058400	मि: दागा मनीश एफसी.ए. 01/08/2004 फ्लाट - ४-डि, राजकमल १२८, राशविहारी एमिनिउ कोलकत्ता- ७०० ०२९
21.	054674	मि: सरकर अन्निदया कन्ती एफसी.ए. 01/04/2004 सि ए १६९ सेक्टर I सल्ट लेक सिटि कोलकत्ता- ७०० ०६४	32.	058602	मिस: सुरेका विनु एफसी.ए. 01/04/2004 ५४/२ मोतिलाल नेहैरु रोड कोलकत्ता- ७०० ०२९
22.	056104	मि: पानडे महेन्द्र कुमार ए.सी.ए. 01/04/2004 २२८ रबीन्द्र सरनि कोलकत्ता- ७०० ००७	33.	058764	मि: साह रामा संकर प्रसाद ए.सी.ए. 01/04/2004 पी-५१ राय बाहादुर राय रेड वेहाला कोलकत्ता- ७०० ०३४
23.	056419	मि: रायचौधुरी पिनांक ए.सी.ए. 09/08/2004 मार्फत वाहराह ट्रेडि कमपानि स्ट्रीट न० २२ ए एल राइ पोष्ठ वस्क ५८६९ साफत १३०५९ साफत -० कुयैत	34.	058809	मि: झुनझुनयाला सन्दीप एफसी.ए. 30/03/2004 डूके गॉडेन क्राउन ३ए एण्ड ई रघुनाथपुर भी आइ पि रोड कोलकत्ता- ७०० ०५९
24.	056856	मिस: झुनझुनयाला प्रिदुला एफसी.ए. 01/04/2004 झुनझुनयाला हाउस ७ जदुलाल मल्लिक रोड कोलकत्ता- ७०० ००६	35.	058886	मि: पौल मधुसूदन एफसी.ए. 01/07/2004 फ्लट न०. एन-३/९; आइ आर सी भीलेज नयापल्ली भुबनेश्वर - ७५१०१५
25.	056935	मि: खैतान ललीत कुमार एफसी.ए. 01/04/2004 १३५ लेक टाउन ब्लाक बि कोलकत्ता- ७०० ०८९	36.	059040	मि: कुमार तन्मय ए.सी.ए. 31/03/2004 सि/१०५ वैसनबघाटा पाटुलि टाउनसीप कोलकत्ता- ७०० ०९४
26.	056936	मि: मोहता मनोज कुमार एफसी.ए. 01/04/2004 ४०/२ श्री हरि राम गोयेका स्ट्रीट कोलकत्ता- ७०० ००७	37.	059138	मि: गोयकां अजय कुमार एफसी.ए. 30/04/2004 मार्फत आनन्द राथी सिक्यूरिटी प्राइमेट लिमिटेड सीगाल हाउस प्रथम तल्ला सिबाजी कोलोनी अन्दोरि कुरला रोड चाकला मुम्बई - ४०००९९
27.	057940	मि: कैला दीपिका ए.सी.ए. 01.04.2004 डबलु बि एडिच ई सि टि पि पेस - 'फ' फ्लाट ए-९/१ हेपी नूक को-उप सोसाइटी कोलकत्ता- ७०० १०७	38.	059182	मिस: बासु देवप्रिया ए.सी.ए. 04/06/2004 बीके- १०६, सल्ट लेक, सेक्टर-11, कोलकत्ता- ७०० ०९१
28.	058244	मि: सराफ मनोज कुमार ए.सी.ए. 20/07/2004 १४/२ उल्ड चीना बाजार स्ट्रीट भीकांचन्द मारवेट ४ तल्ला रुम न० ४१७ कोलकत्ता- ७०० ००१	39.	059278	मिस: सेठ नमराता ए.सी.ए. 01/04/2004 नन्दनीक एपारमेन्ट फ्लाट न० बी आइ - २१४ १९ए देवदर स्ट्रीट कोलकत्ता- ७०० ०१९
29.	058249	मि: अग्रवाल सांनल कुमार एफसी.ए. 01/04/2004 २५ नगेन्द्र नाथ रोड सतगची (सरची) ग्राडेन) आनन्द बीहार ब्लाक ए फाल्ट ५०५ कोलकत्ता- ७०० ०२८	40.	059290	मिस: नाग मोनालिसा ए.सी.ए. 29/07/2004 ७९७/७०८ बिल्डींग न. ६ए वीसपेरीग पाल्मस लोखान्दयला कोमप्लेक्स आर्कुलो रोड कान्दीबालि (ई) मुम्बई - ४००१०१
30.	058292	मि: अग्रवाल लोकेश एफसी.ए. 01/04/2004 ५१ बि कालि टेम्पेल रोड सूर्या टेम्पेल एपारमेन्ट फाल्ट न० ३ डी कोलकत्ता- ७०० ०२६	41.	059325	मि: भूत श्री कान्त एफसी.ए. 20/04/2004 ६०, पि. एन. मालीया रोड डीस्ट वर्टमान रानीगन्ज - ७१३ ३४७

42.	059352	मि: अग्रवाल ललीत ए.सी.ए. मार्फत आर एल अग्रवाल ३४३ नगेन्द्र नाथ रोड नतुन पल्ली ३ तह्ला कोलकत्ता- ७०० ०२८	01/04/2004	53.	060529	मिस: सुरेका प्रीति ए.सी.ए. ४३ कैलाश बोस स्ट्रीट ब्लाक बी फ्लाट नं० जी ८ कोलकत्ता- ७०० ००६	02/08/2004
43.	059385	मि: अग्रवाल विष्णु एफ.सी.ए. २०७ मर्हशी देवेन्द्र रोड ५ तह्ला रुम नं० १६ कोलकत्ता- ७०० ००७	01/04/2004	54.	060540	मि: सिंहानिया दीपककुमार ए.सी.ए. मार्फत एस के भारतीया एण्ड एसोसियेट्स ३९ स्टैन्ड रोड प्रथम तह्ला, रुम नं०-७५ कोलकत्ता- ७०० ००९	30/06/2004
44.	059567	मि: अग्रवाल सन्दीप एफ.सी.ए. एबी १० सल्ट लेक सिटि नीयर पी. एन. बी. कोलकत्ता- ७०० ०६४	01/07/2004	55.	060693	मि: खैरुल्ला खोजाईमा ए.सी.ए. ३० रीपन स्ट्रीट ३ तह्ला कोलकत्ता- ७०० ०९६	21/06/2004
45.	059769	मि: शर्मा राजीव ए.सी.ए. अश्विवाद एपारमेन्ट ३ तह्ला ११६/१/बी गिरिश घोष रोड विवेकानन्द नगर हाबड़ा लिलुया - ७११ २०४	14/05/2004	56.	060779	मि: सूर देवासीस ए.सी.ए. पि उ एण्ड भिलेज वन्दीपुर २४-परगनास (नर्थ) भाया टिटागढ़ कोलकत्ता- ७०० ११९	07/04/2004
46.	059783	मि: मजुमदार सन्जीव ए.सी.ए. ३५/ए साउथार्न एमिनिज कोलकत्ता- ७०० ०२९	24/05/2004	57.	060889	मि: चौरासिया लाल बाबु ए.सी.ए. ६/ए, तारा चन्द दत्त स्ट्रीट ४ तह्ला कोलकत्ता- ७०० ०७३	30/07/2004
47.	059834	मि: स्वैन अजीत कुमार ए.सी.ए. क्वार्टर्स नं० एम एम ६ टिआरएल टाउनशीप डीस्ट : झारसुगूड़ा बेलपाहार - ७६८ २१८	12/05/2004	58.	060933	मिस: मेहरा नीतु ए.सी.ए. २९/९ वालिंग्गनज पार्क कोलकत्ता- ७०० ०१९	01/04/2004
48.	059888	मि: सीहा शक्ती बिश्वास ए.सी.ए. कृष्णा निवास एटि : रोभास स्ट्रीट पि उ : बक्सी बाजार कटक - ७५३ ००९	01/08/2004	59.	061017	मि: कुठारी राधे श्याम ए.सी.ए. ३५/आर नेताजी सुभास रोड डीस्ट : हुगली रीसड़ा - ७१२ २४८	17/09/2004
49.	060038	मि: सुरेका राजेश ए.सी.ए. १२/३ सिद्धेश्वरी तला लेन हाबड़ा - ७११ १०१	07/06/2004	60.	061105	मि: जयसवाल अरविन्द ए.सी.ए. १३ डा: एईच के चेटार्जी लेन बेलुर मठ हाबड़ा - ७११ २०२	01/04/2004
50.	060168	मि: मुखोपाध्याय सदा नन्द ए.सी.ए. मार्फत मिसेस छन्दा वेनार्जी २ नं० महिशीला केलोनि कृ सेन्ट पार्क आसानसोल - ७१३ ३०३	01/06/2004	61.	061392	मि: अग्रवाल सुमित ए.सी.ए. अग्रवाल नीकेट ७३ए डायमण्ड हारवार रोड कोलकत्ता- ७०० ०२३	01/04/2004
51.	060232	मि: अग्रवाल मोहेश कुमार ए.सी.ए. एटि : कुवैबुडी पि उ : राइरांपुर मयुर भन्ज - ७५७ ०४३	25/04/2004	62.	061448	मि: गुप्ता नीतिन गुड्डु ए.सी.ए. १५ प्री स्कूल स्ट्रीट फ्लाट नं० ४ ग्राउन्ड तह्ला कोलकत्ता- ७०० ०१६	01/04/2004
52.	060297	मि: चक्रवर्ती अशोक कुमार ए.सी.ए. प्लट नं० बीडि २९९ सल्ट लेक कोलकत्ता- ७०० ०६४	15/06/2004	63.	061480	मि: सराफ नमीन ए.सी.ए. डि २७/७ नीसको हाउसिंग स्टेट पि उ : सापुईपारा बाली हाबड़ा - ७११ २२७	01/04/2004

64.	061575	मि: बाहेती सन्दीप ए.सी.ए. ६०६ ७ तल्ला मेन १७ ए ब्रोस ईन्दिरा नगर सेकेंड ट्रेज वांगालोर- ५६० ०३८	01/04/2004	75.	062394	मिस: कोठरी रोहिणी ए.सी.ए. २४ बन वीहारि बोस रोड सन्दी वाजार ५ तल्ला हाबड़ा - ७१११०१	08/09/2004
65.	061732	मिस: अग्रवाल रितु ए.सी.ए. ट्रेनि अफिसार (एफ एण्ड ए) एन आईच पि सि लिमिटेड विद्युत नगर सेटलाईट टाउनसीप जलपाईगुडि - ७३४ २१८	07/06/2004	76.	062413	मि: बासु दीपायन ए.सी.ए. २२० मिशन पारा रोड राहारा कोलकत्ता- ७०० ११८	24/08/2004
66.	061832	मिस: भालोतिया पायेल ए.सी.ए. २१९ चीत्तरनजन एभिनिउ कोलकत्ता- ७०० ००६	01/04/2004	77.	062584	मि: साहु मदन मोहन ए.सी.ए. मार्फत एस एम टि माया जौधुरि ७२ डा: ए के पाल रोड देहाला कोलकत्ता- ७०० ०३४	01/09/2004
67.	061836	मि: लोहिया कैलाश कुमार ए.सी.ए. मार्फत मि: महेश कुमार लोहिया पि उ : बीरपारा जलपाईगुडि - ७३५ २०४	01/06/2004	78.	062630	मि: उम कुमार ए.सी.ए. १ योदिसा इन्डिया स्टीट रुम न० ६०५ कोलकत्ता- ७०० ०६९	01/06/2004
68.	061935	मिस: अग्रवाल नीधि ए.सी.ए. क्लस्टर १एस्क-ई-१० पुरवाचल हाउसिंग एस्टेट सेक्टर - ३ सल्ट लेक कोलकत्ता- ७०० ०९७	01/04/2004	79.	062753	मि: अग्रवाल विकास ए.सी.ए. एस डि टावर ब्लॉक लि फ्लॉट न० ३ नवे २ तल्ला पि उ : प्रफुल्ल कानन केन्दोपुर कोलकत्ता- ७०० १०१	01/06/2004
69.	061982	मि: अग्रवाल कीशान ए.सी.ए. २६६ डि जी टि रोड आई पि एपारमेन्ट्स २ तल्ला लिलुया- ७११ २०४	01/04/2004	80.	062768	मिस: अग्रवाल लीना ए.सी.ए. ४०१ मनीता एपारमेन्ट्स चैनबोली वानडार रोड मालाड (परियम) मुम्बई - ४०० ०६४	01/04/2004
70.	062078	मि: भानसाली पावन कुमार ए.सी.ए. मार्फत मि: ईउ डागा फाल्ट ३-जी ५३/बी बेलेघाटा मेन रोड कोलकत्ता- ७०० ०१०	14/09/2004	81.	062837	मिस: सरफ अर्चना ए.सी.ए. पुरवाचल हाउसिंग एस्टेट क्लस्टर II (एफ/८) कोलकत्ता- ७०० ०९७	01/04/2004
71.	062163	मि: पानि सिद्धेश्वर ए.सी.ए. एटि १/१०३ आजाद गड़ रिजेन्ट पार्क कोलकत्ता- ७०० ०४०	18/05/2004	82.	062850	मि: मद्योगरिया सतीश ए.सी.ए. सूभासरीया कमप्लेस्क (२ तल्ला) स्टेशन रोड डिस्ट बर्धमान वराकर- ७१३ ३२४	30/06/2004
72.	062187	मि: अग्रवाल प्रकाश ए.सी.ए. एस डि टावर ब्लॉक - डि फ्लॉट न० ३ पि २ तल्ला पि उ : प्रफुल्ल कानन केन्दोपुर कोलकत्ता- ७०० १०१	03/08/2004	83.	062876	मि: गोयंका मनीश ए.सी.ए. १ जयशी को-उप हाउसिंग सोसाईटि रिसड़ा - ७१२ २४९	01/04/2004
73.	062369	मि: जेन सुद्यानशू ए.सी.ए. बि ७०१ वेलेनतीनि एपारमेन्ट (बी-३) पीम्पलिपाडा गोरिगांव मुसुन्द लीक रोड मुम्बई - ४०००९७	01/04/2004	84.	062923	मि: झा सन्जय प्रसाद ए.सी.ए. राजेन्द्र छात्र भवन रुम न० २९ ३४-ए रातु सरकार लेन कोलकत्ता- ७०० ०७३	19/07/2004
74.	062386	मि: जेन मनीश ए.सी.ए. ८४ दवरीक जंगल रोड पानकुया ताला; हुगली भद्रकाली - ७१२२३२	11/08/2004				

85.	062983	मि: चन्द्र दिव्येन्दु ए.सी.ए. मार्फत चैतन्य चन्द. चन्द्रा, कलेज रोड, प्रताप बागान, पिउ एण्ड डिस्ट. वाकुरा वाकुरा- ७२२ १०१	01/04/2004	88.	500963	मि: बैद सुनिल ए.सी.ए. मार्फत आई सि आई सि आई वेन्क लिमिटेड आर ए पि जि - उपासेसनस ३ तल्ला शान्तिनिकेतन विल्डि मेन रोड बीसदुपुर जामशेदपुर- ८३१ ००१	01/08/2004
86.	063134	मि: बालडेवा अभीशेक ए.सी.ए. ४२ बि निउ सृजाना हाउसि सीत-उप सोसाईटि पल्ट न० २८ जुहु तारा रोड ४ तल्ला रुम न० ४२ सन्ताक्रुज (डब्लू) मुम्बई - ४०० ०४२	09/08/2004	89.	502446	मि: अग्रवाला सोभेस कुमार ए.सी.ए. मार्फत गनेश स्टील कं लक्मी बाजार छोनकनल- ७५१ ००१	15/07/2004
87.	077153	मि: बरूह सिद्धार्थ संकर भूषण ए.सी.ए. नीयार के पि एम हल ए टि रोड सिबसागर- ७८५६४०	25/05/2004	90.	502834	मि: गोयेल अमित ए.सी.ए. मार्फत मि: राम कुमार गोयेल चक्रवर्ती रोड डिस्ट: वर्धमान नोयामतपुर - ७१३ ३५९	16/08/2004

अशोक हलदिया

अशोक हलदिया

सचिव

न. 3 ईसीए/5/1/2004-05 : इस संस्थान की अधिसूचना न. 4 ईसीए/11/79-80 दिनांक 15.03.1980, 3 ईसीए/4/6/89-90 दिनांक 02.11.89, 3 ईसीए/4/4/93-94 दिनांक 01.02.94, 3 ईसीए/4/3/98-99, दिनांक 12.05.99, 3 ईसीए/4/2/1999-2000 दिनांक 11.04.2000, 3 ईसीए/4/3/2000-01 दिनांक 22.02.01, 3 ईसीए/4/3/2001-02 दिनांक 12.08.2002, 3 ईसीए/4/2/2003-04 दिनांक 08.09.2004, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी हुई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	005296	मि: पाल श्याम सुन्दर एफ सी. ए. 17/05/2004 खोसेवागान एस. आई. आर एस बि घोष रोड वर्धमान - ७१३ १०१	
2.	007820	मि: बासु मानस कमल एफ सी. ए. 12/05/2004 सरदार संकर रोड गाउन्ड तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०२९	
3.	008698	मि: शर्मा अंकर नाथ एफ सी. ए. 14/07/2004 १३ए लेक रोड गाउन्ड तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०२९	
4.	010596	मि: बासु मलय कुमार ए. सी. ए. 02/04/2004 २१/२ डोभार रोड कोलकत्ता- ७०० ०१९	
5.	011353	मि: दत्त गुप्ता अमलेन्दू एफ सी. ए. 12/04/2004 न० १६ प्रथम क्रश ५ मेन डमलूर २ स्ट्रेट बंगलौर - ५६० ०७१	
6.	014691	मि: राय सीतानशु कुमार ए. सी. ए. 26/04/2004 २ दे मौचाक ३३३/१ जोसर रोड कोलकत्ता- ७०० ०८९	

7.	014390	मि: प्रसाद मधुसूदन एफ.सी.ए. ४ राजा उडमन्ट स्ट्रीट ४ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ००१	01/04/2004
8.	025106	मि: शाहा राज कुमार ए. सी. ए. श्री श्याम लेक ग्राडेन फ्लाट न० ४१५-सी ४ तल्ला ब्लॉक - एस २०२ जोसर रोड कोलकत्ता- ७०० ०८९	07/04/2004
9.	050115	मि: घोष मीनार्थ एफ.सी.ए. ५ केमब्रीज सीटि. मेडफोर्ड एन जे ०८०५५ ईउ एस ए ०	01/04/2004
10.	050320	मि: चक्रवर्ती समरीनिवाता ए. सी. ए. 05/04/2004 ४५ थाना रोड नीयार पेरागन गाउन्ड पी ओ : बी डि सोपान खरदह - ७४३ १२१	
11.	050857	मि: दास दुलाल ए. सी. ए. 22/04/2004 ८०३-३५९० कनीफ क्रीसेन्ट अन एल ५ ए ३×३ कनाडा	
12.	051095	मि: घोष सुरजित कुमार ए.सी.ए. 15/04/2004 जेनारेल मेनेजार - फाइनान्स इन्डियान एलूमिनियम कं एल टी डि १ मिडल्टन स्ट्रीट कोलकत्ता- ७०० ०७१	
13.	052121	मि: बेनार्जी सोमसुर ए. सी. ए. 15/07/2004 ६८/३ए पुरना दास रोड फाल्ट ३ बी टालिगंज कोलकत्ता- ७०० ०२९	
14.	052334	मि: प्रवीन चन्द ए.सी.ए. 22/12/2003 सी सी -१११ चान्दी कमप्लेस्क १ तल्ला पानपोश राओरक तल्ला- ७६९ ००४	

15.	052684	मि: बासु सुहास चन्द्रा एफ.सी.ए. डि-१५१ सारिता बिहार निउ दिल्ली- ११० ०४४	07/06/2004	25.	055685	मि: आनन्द एस ए.सी.ए. ग्लोबल सफ्टओयार (१) प्राईमेट लिमिटेड ९९ राधाकृन्ना सालाई चेन्नाई- ०	23/04/2004
16.	052771	मि: सिंघवी अनील एफ.सी.ए. पि १६/४ पूर्णा दास रोड कोलकत्ता- ७०० ०२९	28/06/2004	26.	055770	मि: दागा देभेन्द्र कुमार एफ.सी.ए. रीजिनाल मेनेजार् रीलेन्स केपिटाल स्ट्रेट मेजेजमेन्ट आईच एम प्लाजा बिसनेस सेंटार ८ ए जि सि बोस रोड कोलकत्ता- ७०० ०१७	10/06/2004
17.	052917	मि: बूचा सम्पत लाल ए.सी.ए. मार्फत. ए सि पुगालिया एण्ड क ४६ स्टेन्ड रोड प्रथम तल्ला कोलकत्ता- ७०० ००७	18/08/2004	27.	055877	मि: अग्रवाल मनोज कुमार ए.सी.ए. चीफ फीनन्सीयल कोन्टोलार् मार्फत जीयब्रीड मेजेजमेन्ट मिडल फास्ट पि ओ बस्क न० ५००३४७ दुबाई (ईउ. ए. ई.) ० ईउ ए ई	09/08/2004
18.	053262	मि: ईपारी कृष्ण मोहन ए.सी.ए. सेडको फरेस्क ईन्टारनाशानाल डिलिं आई एन सि सपेकटा प्रथम तल्ला हाई स्ट्रीट पूयाई मुम्बई- 400076	19/05/2004	28.	056944	मि: महाराना प्रतीबा रन्जन एफ.सी.ए. पल्ट न० ३ एनी एनकेल्फ एगीनीय खान्दागीरि भुवनेश्वर- ०	13/09/2004
19.	053948	मि: अग्रवाल साजन कुमार ए.सी.ए. टि-२३ हुदको प्लेस अन्दरेयस गंन्ज निउ दिल्ली- ११० ०४९	06/09/2004	29.	057012	मि: गुप्ता सन्जय कुमार ए.सी.ए. ३८ मोट लेन कोलकत्ता- ७०० ०१३	22/12/2003
20.	053992	मि: नन्द प्रसान्त कु मार एफ.सी.ए. पी-११ हल टाउनसीप सुनाबेदा कोरापुत- ७६३ ००२	30/04/2004	30.	057077	मि: मुखोपाध्याय प्रभाकर ए.सी.ए. चम्पा कुटीर ६३ एन सि गोष सरनी डिस्ट हूगली सेओडाफुली- ७१२ २२३	20/05/2004
21.	054919	मि: सिनभी अशोक कुमार एफ.सी.ए. १०४/२/१ सतयेन रायरोड बेहाला कोलकत्ता- ७०० ०३४	17/06/2004	31.	057078	मि: खान सावह ए.सी.ए. २०५ ए जि सि बोस रोड कोलकत्ता- ७०० ०१७	30/07/2004
22.	055154	मि: चर्मा रोहित ए.सी.ए. १५ सेयल्लस रोड ए पी टि ५०८ एम आई बी ३ ईउ ७ टोरानटो ० कानाडा	28/04/2004	32.	057193	मि: चौधूरी बीकाश ए.सी.ए. पिटि. ईन्द - रामा सिन्थेटिक टि बि के केमवंग क्लीग ईउबिआरईउजि जटीलूकर पूरयकरका ईन्दनेशिया ० ईन्दनेशिया	18/05/2004
23.	055267	मि: मुखोपाध्याय प्रवीर ए.सी.ए. मेनेजार् एकाउन्टि एण्ड कन्टलस ईलेकट्रनिक ग्रुप ईउसुफ ए अलघानीम एण्ड सन्स डवलु.एल.एल. पी ओ बक्स २२३ साफ्त १३००३ कुर्याईट ० कुर्याईट	22/07/2004	33.	057217	मि: सीघानीया राजेश कुमार एफ.सी.ए. १२ए, एन एस रोड रुम न० १८ ५ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ००१	17/09/2004
24.	055559	मि: महापात्र बिषू प्रशान्त ए.सी.ए. हेड (अडीट एण्ड क्साटि) आई डि सि अफओडिशा लिमिटेड पी बी न० ७८ ईडकरु हाउस अशोक नगर भुवनेश्वर- ७५१००१	08/06/2004	34.	057270	मि: पदिहारी सीद्धार्थ ए.सी.ए. रीजियनल क मार्सियाल मेनेजार् एम/एस ब्लो प्लास्ट लिमिटेड डि जि पि हाउस ८८सि उल्ल प्रभादेयी रोड मुम्बई- ७०० ०१९	23/06/2004

35.	57371	मि: मीरा संजीव ए.सी.ए. ४२९९ सटीभेनशुन बी एल मि डि एपारमेन्ट न० ३७ प्रीमन्ट सिए ९४५३८ के लिफर्निया ० ईउ एस ए	10/08/2004	41.	060392	मि: पारेख अमित ए.सी.ए. ४४/१ जि टि रोड हाबड़ा- ७९९ ९०९	02/04/2004
36.	058588	मि: गुप्ता पाभेल ए.सी.ए. पि ओ वक्स ९२६७ ईओ ए ई दुवाई (ईओ. ए. ई) ०	16/09/2004	42.	060574	मि: दाश हीमांशू सेखर ए.सी.ए. हाउस-अफ एम एस नन्द आर्मसंग रोड पूरी - ०	22/12/2003
37.	058982	मि: पददार महावीर ए.सी.ए. ओयाई/९५ सिभिल टाउनशीप राउरकेल्ला- ७६९ ००४	08/07/2004	43.	061061	मि: गुप्ता अरून ए.सी.ए. मार्फत प्रमद गुप्ता ४०८बी पद्ममनी बिल्डि नारायन नगर रोड भायेनदार (उयेस्ट) थाने-४०९ ९०९	08/07/2004
38.	059409	मि: मिताल भीकराम ए.सी.ए. २०/१/मि मतिलाल बशाक लेन कांकुरगाछि ३ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०५४	12/07/2004	44.	091194	मि: जेन बिबोद एफ.सी.ए. नारायन प्रसाद वादू लेन दुसरा तल्ला रुम न० ९८ कोलकत्ता- ७०० ००९	31/05/2004
39.	059651	मि: पान्डा प्रेमानन्द ए.सी.ए. एट : गौरमठ लेन प ओ : झारूया पाड़ा सम्बलपुर- ७६८ ००९	14/06/2004	45.	212511	मि: दीपाटी गनेश्वर ए.सी.ए. मार्फत मि: नरहरी दीपाटी फ्लट न०. एम आई जि-९९ ७/३ हाउजिंग बोर्ड कलनि चन्द्रशेखर पुर भुवनेश्वर- ७५९ ०९६	22/07/2004
40.	059709	मि: अग्रवाल संजय कुमार ए.सी.ए. १०१ उल्ड चीना बाजार ट्रीट ३ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ००९	01/08/2004				


अशोक हलदिया
सचिव

सं. 3 ईसीए/4/1/2004-2005.-: चार्टर्ड पास लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड पास लेखाकार अधिनियम 1949 को धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड पास लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम उसके मृत्यु के कारण उसके आगे दी गयी तिथि से हटा दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	000927	मि: कुमार कमल चन्द्रा ९/१५ प्रीन रोड प्रथम तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०१९	24/08/2004
2.	001160	मि: सुतरबाला जामनादास वि फ्लट नं २०३ १४ सादर्न एमिनिउ कोलकत्ता- ७०० ०२६	17/11/2003
3.	001249	मि: दत्ता घरनी घर ४२ तारा संकर सरनि वेलगाछिया कोलकत्ता- ७०० ०३७	28/12/2003
4.	001544	मि: दत्ता मनोरनजन ३४ बि सुरेन सरकर रोड वेलघाटा कोलकत्ता- ७०० ०१०	16/07/2004
5.	001913	मि: बासु प्रसान्त कुमार १२ चौरगी स्कवायर कोलकत्ता- ७०० ०६९	23/06/2004
6.	002189	मि: वेनार्जी सुभास कुमार १, रामहारी राय लेन जी टि रोड उत्तरपारा - ७१२२३८	१०/०१/२००४
7.	002334	मि: मित्रा सुनिल चन्द्रा झीरंगम बी एफ- ३५ सल्ट लेक सीटि कोलकत्ता- ७०० ०६४	20/04/2004

8.	002855	मि: राय रनेन्द्रा नाथ १० उल्ल पोष्ठ उपीस सीट ४ तल्ला कोलकत्ता- ७०० ००१	09/03/2004
9.	003229	मि: सामन्त प्रोमद रनजन १८ आर एन मुखार्जी रोड कोलकत्ता- ७०० ००१	07/04/2004
10.	003256	मि: चतुराज संकर मोहन ५२१ मारसाल हाउस ३३/१ एन एस रोड कोलकत्ता- ७०० ००१	08/04/2004
11.	004002	मि: गुह देवाशीस १ चौरगी स्कवायर कोलकत्ता- ७०० ०६९	31/03/2004
12.	004052	मि: दत्ता प्रनव कुमार सि के- २६९ सेक्टर - II सल्ट लेक सीटि कोलकत्ता- ७०० ०९१	31/05/2004
13.	007004	मि: बागारिया दंशीधर आसाम खिवरूगय - ७८६००१	09/09/2003
14.	008275	मि: सेन वैद नाथ ८/२, कीरन संकर राय रोड २ तल्ला, रुम नं ९ कोलकत्ता- ७०० ००१	02/09/2004
15.	009147	मि: दासगुप्ता दिपक कुमार २६/१ बि शशी भुसन दे स्टीट फ्लट नं १५ कोलकत्ता- ७०० ०१२	07/04/2004
16.	012859	मि: बासु नीरेज कुमार ओयाइ १५७ - बि लेनीन सरनि कोलकत्ता- ७०० ०१३	22/08/2004
17.	015853	मि: साहा अदीर चन्द्रा ३ जडुनाथ डो रोड ग्राउन्ड तल्ला कोलकत्ता- ७०० ०१२	06/04/2004

18.	017382	मि: मुखोपाध्याय भासकर शारदा भवन फ्लैट नं० 303 (3. तल्ला) 99 लेनीन सरनि सीरामपुर - 792203	08/03/2003	19.	051306	मि: मजुमदार सनजित कुमार 6/26 सील एस गार्डन लेन कोलकत्ता- 700 002	28/07/2003
-----	--------	--	------------	-----	--------	--	------------


 अशोक हलदिया
 सचिव

मुम्बई-400 005, दिनांक 31 मार्च 2005

सं. 3 डब्ल्यूसीए(5)/1/2003-2004--भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स काउंसिल इस इंस्टीट्यूट की अधिसूचना सं. 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/2000-2001 ता. 15 जन. 2001, 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/2001-2002 ता. 7 जन. 2002, 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/2002-2003 ता. 10 फरवरी 2003, 3 डब्ल्यूसीए(4) 3/2003-2004 ता. 20 अप्रैल 2004 के अनुसार यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसार विनियम 19 के नियम के अंतर्गत प्रत्येक नाम के समक्ष दी हुई तारीख से उनके नाम पुनः स्थापित करती है।

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
1.	002991	श्री खरे गोपाल पारशराम एसीए जी पी खरे एन्ड कं. ब्लाक नं.-24 जागृति सो. 101-एल जमशेदजी रोड, महिला मुम्बई-400016	22/12/2003	8.	006377	श्री महावीर प्रसाद मुकुल शर्मा एफसीए पारेख मार्किट बेसमेंट 11, 39 केनेडी ब्रिज, मुम्बई 400004	22/12/2003
2.	003546	श्री पारंजपे गोविंद केसव एफसीए ए-7 पुनरवसु को. ओप. हाऊसिंग सो. पंडित दीनदयाल मार्ग, विष्णु नगर, डेम्बोली 421002	22/12/2003	9.	008457	श्री डी सुजा लुथियन एलोएसिअस एफसीए बैंडरटैंड वी थिलिङ्ग, फ्लैट नं. 43, 4 फ्लोर, केन रोड, बांद्रा, मुम्बई-400050	22/12/2003
3.	004219	श्री फुलादो क्लेमेंस एन्थनी एसीए 5 माविस, सेंट नेथं, रिदे एनएसडब्ल्यू 2113, अस्ट्रेलिया	22/12/2003	10.	008594	श्री देसाई रोहित रविन्द्रलाल एफसीए ए-2 रघुचूल पार्क अपो. सी पी, चैम्बर्स नियर नवरंग हाई स्कूल 6, अहमदाबाद 380014	22/12/2003
4.	004243	श्री बॉएस बोमी जमशेद एफसीए कसरो बॉग ब्लाक एस-3 I फ्लोर, कोलाबा कॉजवे, मुम्बई 400003	22/12/2003	11.	008872	श्री सम्पत विठ्ठलदास पुरुषोत्तमदास एफसीए मेघदीप, फ्लैट नं. 3, 47, स्मारिका सो. एन. एम. रोड, जे वी पी डी स्कीम, विले पार्ले (वेस्ट), मुम्बई 400056	22/12/2003
5.	005933	श्री जे वैकटपेया एफसीए सी-6-103, चीना सागर को.ओप. हाऊसिंग सो. लि., एल बी एस मार्ग, मुरुंद वैस्ट, मुम्बई-400080	22/12/2003	12.	009357	श्री सांववी एम पी एफसीए 504 रोज अपार्टमेंट्स 5 फ्लोर एनआर जूह बस स्टेशन जूह चर्च रोड, मुम्बई 400049	22/12/2003
6.	006224	श्री छापरार बहराम होमी एसीए फ्लैट नं. 1 जी ब्लाक, रिपिकेश को. ओप. हाऊसिंग सो. एवरशॉन नगर, मालव वेस्ट, मुम्बई-400064	22/12/2003	13.	010485	श्री अग्रवाल मदनलाल एफसीए 41 अशोका शॉपिंग सेंटर, II फ्लोर, एल टी मार्ग, मुम्बई 400001	22/12/2003
7.	006226	श्री अग्रवाल श्री भागवान एफसीए 1005 रहेजा सेंटर, नरिम्न पॉइंट, मुम्बई 400021	22/12/2003	14.	010560	श्री पटेल हरनारायण जयरामदास एफसीए 204 सराप नव जीवन प्रैस लेन, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380014	22/12/2003
				15.	010688	श्री हीरजीबदीन फारोख नवरोजी एसीए 135 एक्जीक्यूटिव ब्रुइव, मन्हास्सेत हिल्स, न्यू यार्क 11040-1052, यूएसए	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
16.	011126	श्री नहर विजय कुमार एफसीए 1 राजश्री पैलेस खीमजी लेन, बिहाइंड देना बैंक एम जी रोड, घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई-400077	22/12/2003	27.	016608	श्री शाह प्रवीन छत्रभुज एफसीए 7/बी वात्सल्य अपार्टमेंट, 63 वसंत कुंज नियर शारदा मंदिर रोड, पाल्दी, अहमदाबाद 380007	22/12/2003
17.	011664	श्री राजाध्याया सतीश जगन्नाथ एफसीए 201 नित्यानंद सदन, भारद्वाजी एक्स लेंड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई 400058	22/12/2003	28.	016907	श्री असरानी प्रकाश रामचंद्र एसीए डी/607 करन, ऑफ यारी रोड, वसोया, मुम्बई 400066	22/12/2003
18.	012404	श्री पारिख ज्योतिन्द्रा छावलाल एफसीए के पारिख एन्ड कं., 102 अपसरा अपार्टमेंट्स दान्दिया बाजार वडोदरा 390001	22/12/2003	29.	020317	श्री सुब्रमन्यम एस एफसीए फाइनेंसियल एडवाइजर, कंप्यूटिड पार्स इन्ड. एलएलसी, पी ओ बॉक्स 495, हामरिया 131, अरुण हामरिया 0, सरुतनत ऑफ ओमन	01/10/2002
19.	012858	श्री प्रहलाद गुरुनाथ मननूर एफसीए एफ-11 कार्तारिकर कमर्शियल गॅरकेड, फर्स्ट फ्लोर, पोंड्य गेआ 403401	22/12/2003	30.	021637	श्री मणि धाकोक के एफसीए 3 कल्लार्ड्स राईज, साऊथ क्रॉसडन, सर्गे सीआर2 7जेटी, यूके	22/12/2003
20.	012952	श्री मर्चेट भागीरथ बाबूपार्थ एफसीए गोवर्धन भवन 4 फ्लोर, जयहिंद लो., एन एस रोड नं. 12-ए, जे बी पी डी स्कीम, मुम्बई-400049	08/12/2000	31.	022356	श्री उराला के श्रीपति एसीए 2-ए सिंधी सां., सियन ट्रायबे मार्ग, छेन्बूर, मुम्बई-400071	22/12/2003
21.	014141	श्री कपडिय कमलकान्त सुमनलाल एसीए 65 ब्रुकवु क्रोसैट, सैंट जॉन, एन. बी. ई2एम 4के9, कनाडा	01/10/2002	32.	023261	श्री रंगनाथ आर एसीए भारत पेट्रोलियम को. लि., हंगकांग हाउस, 31, बी बी डी बॉग, कोरलकाटा 700001	01/10/1998
22.	014379	श्री कपडिया प्रफुल्लकान्त गुरुबचंद एसीए बी-144 आनंद, 17 जुहू लेन अंधेरी-वेस्ट, मुम्बई-400058	22/12/2003	33.	026098	श्री रंगराज एस एसीए प्रोजेक्ट एकाउंटेंट, बीसीएल लि., पी ओ बॉक्स 3 सेलेबी पिकवे, बोटसधाना 0, अमरीका	22/12/2003
23.	014588	श्री रोड किरनकुमार रतिलाल एफसीए फ्लैट 201/202 पूर्णिमा सौरभ, सेक्टर 29, वाशी, नवी मुम्बई 400703	22/12/2003	34.	028150	श्री हरि आर एसीए वाइस प्रेजिडेंट, ग्लोबल बैंकिंग डिवीजन, टयूटर्सचे बैंक ए जी मुम्बई, हजारीमल सेमानी मार्ग फोर्ट मुम्बई 400001	22/12/2003
24.	014748	श्री गानु अनिल भास्कर एसीए भास्कर, 3 महंत रोड, विले पार्ले ईस्ट, मुम्बई 400057	22/12/2003	35.	029188	श्री एम हरिहरन एफसीए "विश्व लक्ष्मी" प्लॉट नं. 175, लेन 'ए', सेक्टर-8, वाशी, नवी मुम्बई 400703	22/12/2003
25.	015351	श्री यशवंतराय सुन्दरजीभाई मेहता एफसीए विश्व मोहिनी 198/5442, पंत नगर घाटकोपर-ईस्ट-मुम्बई 400075	01/10/2002	36.	029936	मिस शालिनी वैरियर एसीए हैड-सेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एन्ड सर्विस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, 23-25 एम जी रोड, मुम्बई 400001	22/12/2003
26.	015785	श्री श्रीरमन त्यागराजन एसीए 64/503 कचनार, वसंत विहार, पोखरान रोड नं. 2, थाने वेस्ट, थाने 400610	22/12/2003				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
37.	030217	श्री वाशी महेंद्रकुमार गुलाबचाई एफसीए 80A-ए सनफर्लैंड, गुन्डचस वैली ऑफ हेवनर्स, ठाकुर विलेज, कांडीवाली ईस्ट, मुम्बई 400001	22/12/2003	47.	031795	श्री प्रकाशचन्द्रा शांतिलाल पंचोली एफसीए 103 नीलाकंठ, 98, मैरबन ब्रुकव, मुम्बई 400002	22/12/2003
38.	030585	श्री कारवाल्लो फ्रांसिस्को कज़ैबियर एसीए 10A7 बीचनट रोड, ओकविलेज, ऑन्टेरिओ एल्लेजे 7 पी4 कनाडा	22/12/2003	48.	031938	श्री साह प्रकाश नयनीत राय मार्केटिंग सर्विसिज, एसीए फरीजत 443, लक्ष्मी एनएच, लक्ष्मी इन्डस्ट्रियल स्टेट न्यू लिंक रोड, अंधेरी (वैस्ट), मुम्बई 400053	22/12/2003
39.	031020	श्री छेत्रिया सुभाषचन्द्रा नाथमा एफसीए लावेट पार्क II फ्लोर, अपो. पेथे हाई स्कूल, रविवार करंजा, नासिक 422001	22/12/2003	49.	032155	श्री देवार्ह नलीप रतिलाल एफसीए 804, राजआनंद शॉपिंग सेंटर, शाही बाग रोड, अहमदाबाद 380004	22/12/2003
40.	031158	श्री काजी मुवीसुधीन घायसुधीन एफसीए 160 एस्प्लेनेड हाई स्कूल बिल्डिंग, 1 फ्लोर डी एन रोड फोर्ट, मुम्बई 400001	22/12/2003	50.	032246	श्री भास्करनाथन एस एफसीए 1401 रैडफर्न डीआर, पिट्सबर्ग पोए 15241, यूएसए	22/12/2003
41.	031240	श्री बलवंतराय बबुराय राजे एफसीए पारंग अपार्टमेंट, एबोय नगर जन. स्टोर्स, सम्राट नगर, अपो.एम्बे डिस्ट्रिक्ट कालोनी, कोल्हापुर 416008	22/12/2003	51.	032347	श्री पठान शाहिरखान असगरखान एफसीए 20/5 पारसकुंज, नियर जे पी चौक, खानपुर, अहमदाबाद 380001	22/12/2003
42.	031321	श्री विपिचन्द्रा कतिलाल ठाकर एफसीए केसर ऑफ 203, सैन्टूर काम्प्लेक्स, निबर विजय चार रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009	22/12/2003	52.	032528	श्री अकबर शाहबुद्दीन शिवानी एसीए 147 अर्बिगॉर्ड ब्रैस एन ई, कल्लोरी, अलाबार्ता टीएडएकएफ, कनाडा	22/12/2003
43.	031352	श्री शेखीवाल उरवकस कोरसी एफसीए 8/49-2011-ए स्ट्रीट, लैंगले, बी.सी., बी एम 2एलड, कनाडा 0, कनाडा	22/12/2003	53.	032660	श्री शंकरनकुट्टी जगदीश एफसीए शंकरालयम, 915-ई टैम्पल रोड, त्रिन्कावारा, कोच्ची 682021	01/10/2002
44.	031502	श्री कवानी रमेशचन्द्र नरनदास एफसीए 11/1 गोरुड मोहूर 1 फ्लोर, 174 डिस्ट्रिक्ट सेंट, मुम्बई 400002	22/12/2003	54.	032859	श्री श्रीधरन राजगोपालन एसीए फ्लैट नं. 4 गीता को. ओ. हाउसिंग सो. रामबाग, लेन नं. 4, डिस्ट. थाने, कल्याण 0	22/12/2003
45.	031537	श्री अम्बेकर वैकटेश वामन एफसीए बी डबल्यू अम्बेकर एच.ई.ई., आनंदविता रोड, मंगल, नागपुर 440002	22/12/2003	55.	032988	श्री हारदीकर अनिल श्रीपद एफसीए 602, मनोज, शंकर बानेकर मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई 400025	22/12/2003
46.	031766	श्री वैष्णव निलेशा चन्द्राकांत एफसीए मनु मैशन, 16/18 सावित्री भागसिंह रोड, अपो. ओल्ड कस्टम हाउस, फोर्ट, मुम्बई 400023	22/12/2003	56.	033323	श्री हिमानी किरन हरसुखलाल एफसीए 5/6, गीता बिल्डिंग, शिवराम सेक्टर, देवीदयाल रोड, मुकुंद (वैस्ट) मुम्बई 400080	22/12/2003
				57.	033326	श्री कोठारी वीसुनाल एक एसीए 503/504, 5 फ्लोर, राजगीर, ओल्ड नगरदास रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400059	01/10/2002

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
58.	033514 श्री बदानी धीरेन्द्र प्राणलाल एसीए ब्लॉक नं. 6 जमनादास उमरसी, ट्रस्ट बिल्डिंग 32/ए खोखानी लेन, घाटकोपर-ईस्ट, मुम्बई 400077	22/12/2003	68.	034813 श्री नेरुरकर शांताराम गोविंद एसीए 22 सी शिवप्रभा, अपो. विन्नो फर्मा, सैक्टर 1 चारकोप विलेज रोड, कांडीवली वैस्ट, मुम्बई 400067	22/12/2003
59.	033758 श्री शाह रश्मिकुमार दिनेशकुमार एफसीए 9 उमा हाईवे, 831/ए बीएमसीसी रोड, पूने 411004	22/12/2003	69.	035025 श्री बोहरा सुभाष कुमार एसीए ए-303 गौतम नगर, दत्त मंदिर रोड मलाड-ईस्ट, मुम्बई 400097	22/12/2003
60.	033864 श्री शाह जयेश रतिलाल एफसीए बी-2 स्वागत, सिबा सोसाइटी, अमृत नगर, घाटकोपर वैस्ट, मुम्बई 400086	22/12/2003	70.	035065 श्री जेबी शिरीष लक्ष्मण एफसीए दिलसा 1002/8 राजेन्द्र नगर, पूने 411030	22/12/2003
61.	033919 श्री हुडा करीम शेखली एसीए 3/46, जीवन सुभा, जूहू लेन, अंबेरी (वैस्ट), मुम्बई 400058	22/12/2003	71.	035145 श्री पटवर्धन संतोष धामनराय एसीए 45 पद्मादर्शन सो., पूने सतारा रोड, पूने 411009	22/12/2003
62.	033984 श्री पटेल जय महेन्द्रभाई एफसीए 1849, ऑरबल लेन, युनियन न्यू जर्सी 07083 न्यू जर्सी 0. यू.एस.ए.	22/12/2003	72.	035225 श्री पारिख जय प्रकाश रसिकलाल एसीए 6520 लिमिटिक कोर्ट, बर्लिंगहिल्ले, मेरीलैंड एमडी 21029, यू. एस. ए.	22/12/2003
63.	034002 श्री पाटिल सुभाष कृष्णात एफसीए 501-बी बोरपडे पेथ, सिवाजी रोड, 208 पन्ना चैम्बर्स, पूने 411042	22/12/2003	73.	035505 श्री बागडडे अश्विन प्रभाकर 3602 फिशर्स हिल कोर्ट, फेयरफैक्स वीए 22033 यूएसए	22/12/2003
64.	034076 श्री सावंत सुधीर शांताराम एसीए केंथर ऑफ पैन्थेल्स कोर्ट पी ओ वाक्स 13094, पुर्ब 0 पूरब	22/12/2003	74.	035530 श्री दवे कमलेश चन्द्रसेखर एफसीए सी-16, 1 फ्लोर, 315/सी, एस.एम.एस. बिल्डिंग, न्यू बार्नी रोड, मुम्बई 400004	22/12/2003
65.	034114 श्री देसाई बबल सुमंतराव एफसीए 405 गायत्री अपो. प्रताप सो., जे पी रोड, अंबेरी-वैस्ट, मुम्बई 400058	22/12/2003	75.	035878 श्री परदेसी मनोहरसिंग किसानसिंग एसीए 29/2 सेंबरपेथ, शांतिकुंज सोसाइटी, पूने 411011	22/12/2003
66.	034386 श्री नागोरी रमेशचन्द्र दीपचंद एसीए सिनीयर मैनेजमेंट केंद्र, रिलाईंस इन्फोकॉम लि., फोसबरी रोड (नियर एफसीआई बॉटल), ऑफ रे रोड स्ट्रीट (ई), मुम्बई 400033	22/12/2003	76.	035879 श्री सोनार दीलीप गणपतराव एफसीए 10 अमेसबरी कोर्ट, माउंट बेयरली, वीआईसी-3149, माउंट बेयरली 00 ऑस्ट्रेलिया	08/12/2000
67.	034418 श्री मल्होत्रे राजीव गोविंद एसीए 18, रिचार्ज वैलेस, लंदन एसडब्ल्यू 2एलए, लंदन 00 यू. के.	01/10/2002	77.	036028 श्री शर्मा गगन एसीए 14 अशोक, गीर्वाण मार्ग, जूहू, मुम्बई 400049	22/12/2003
			78.	036133 श्री भिडे मोहन प्रभाकर एसीए बिल्डिंग नं. 7, फ्लैट नं. 83, विष्णु प्रसाद को. ओप. हाऊसिंग सो. लि. महंत रोड, विले-पार्ले ईस्ट, मुम्बई 400057	22/12/2003

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
79. 036259 श्री अयाले हरीशकुमार यशवंतरे एसीए 23/7 कैली फोरस्ट वे, ओकविले, एल6एय6डब्ल्यू, ओन्टारिओ 0, कनाडा	22/12/2003	89. 037845 श्री सरदार राजु प्रभुदेव एफसीए आर. पी. सरदार एन्ड कं. 302 ब्यूना विस्ता, होली क्रॉस, रोड, आई सी कॉलोनी, बोरीवली-वैस्ट, मुम्बई 400103	22/12/2003
80. 036308 श्री मुरलीधरन बी एसीए पी. ओ. बाक्स 3072, कम्पला 00 यूएय	01/10/2002	90. 038142 श्री मोदी मुकेश नवनीभाई एसीए 9/439, ब्रह्मा निवास, 5 फ्लोर, 14 रोड, खार, मुम्बई 400052	22/12/2003
81. 036410 श्री नागेश्वरन कोमासामुदराम पी एसीए 58, पत्रकार, नियर काला नगर, बॉम्बे-ईस्ट-मुम्बई 400051	22/12/2003	91. 038287 श्री भावगत झूमर लाल एफसीए पाएंट साऊथ पैसिफिक विस्कोस, देसा सिकादास, पो. ओ बाक्स-11 पीडब्ल्यूके, वैस्ट जावा, पुरवाकर्ता 41101, इंडोनेशिया	22/12/2003
82. 036497 श्री पाटिल बाधु लक्ष्मण एसीए ज्युडिटर टैक्सट्राइल मिल्स क्वार्टर्स, 1 फ्लोर मेन गेट, बी एम रोड, एलिफन्सटोन, मुम्बई 400013	22/12/2003	92. 038379 मिस मेहता चेतना प्रतीक एफसीए लक्ष्मीनारायण निवास, बापूभाई वासी रोड, विले-पार्ले (वैस्ट) मुम्बई 400056	22/12/2003
83. 036698 श्री मुनीष खन्ना एफसीए मैनेजिंग डायरेक्टर, एन एम रोफ्टवॉर्ल्ड एन्ड सन्स (इंडिया) प्रा. लि. 52 मेकर चैम्बर्स VI, 5 फ्लोर, नरिमन पाएंट, मुम्बई 400021	22/12/2003	93. 038536 श्री रामामूर्ति वैकटेश्वरन के एसीए कंयर ऑफ अल्बा, सेसी 11, पी ओ बाक्स 570, मनामा, बहरैन 0, बहरैन	22/12/2003
84. 037098 श्री मेहता प्रतीक विमिनभाई एफसीए लक्ष्मीनारायण निवास, बापूभाई वासी रोड, विले पार्ले वैस्ट, मुम्बई 400056	22/12/2003	94. 038921 श्री शाह निषिद बाबूलाल एसीए 6-डी धन रत्ना अपार्टमेंट्स, ऑफ जयप्रकाश रोड, भारद्वाजी, अंबेरी वैस्ट, मुम्बई 400069	22/12/2003
85. 037158 श्री शास्त्री अभय अनन्त एफसीए 302 बी नारायण चैम्बर्स, नारायण पेथ, पुणे 411030	22/12/2003	95. 039036 श्री तुवार भूपतलाल शरदा एसीए सी/7, पटेल सोसाएटी, नेहरू रोड, विले पार्ले (ईस्ट), मुम्बई 400057	22/12/2003
86. 037182 मिस धिन्ना रामकृष्णा एफसीए नैट हाऊस, 601 सिक्सथ फ्लोर, कॉलेज गुल्ली ऑफ एस के बोले रोड, दादर, मुम्बई 400028	22/12/2003	96. 039222 श्री कुलकर्णी बलवंत केशव एफसीए डायरेक्टर (एकेडेमिक्स), दि इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई हाऊस, 22 इंस्टीट्यूशनल एरिया लोदी रोड, न्यू दिल्ली 110003	22/12/2003
87. 037412 श्री शाह असोक शतिलाल एसीए 357 नागिनदास बिल्डिंग, एस बी रोड, फर्स्ट फ्लोर, ब्लाक नं. 1, मुम्बई 400004	01/10/1993	97. 039405 श्री गोस्वामी योगेश रघुनाथलाल एसीए 2 मनु भवन, भगत सिंह रोड, विले पार्ले वैस्ट, मुम्बई 400056	22/12/2003
88. 037737 श्री घोखारे सुनील संकरराव एफसीए 25 तिलक नगर, नागपुर 440010	22/12/2003		

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
98.	039474 मिस गर्ग प्रीति एफसीए 6/108 जूहू तरंग न्यू डी एन नगर, अंधेरी (वैस्ट), मुम्बई 400053	22/12/2003	109.	041613 श्री जैन नवरतन भल एफसीए 34, विजय बिल्डिंग, विसाईस अँके सिक्क मिल्स, अंधेरी-कुर्ला रोड, साकी नाका, मुम्बई 400072	22/12/2003
99.	039810 श्री हेजमदी विनोद संकर एसीए ए 202 सिल्वर कलाउड, सुंदर नगर, कलिंगा, मुम्बई 400098	22/12/2003	110.	041741 श्री सलगाअँकर राजेन्द्रा दत्ताराम एसीए 401, रचना, नियर लक्ष्मी टेम्पल, एकसार रोड एक्सटेंशन, बोरीवली (वैस्ट), मुम्बई 400092	22/12/2003
100.	040725 श्री अफयंकर राजा शेखर सदसी एसीए लेन नं. 7 ब्लाक नं. 7, मैरीगोल्ड अपार्ट. बानुकर कॉलोनी, कोठारुड, पूने 411029	01/10/1998	111.	041797 श्री अहिर सिखाजी मोतीराम एफसीए 611/4 प्रियदर्शनी नगर, नियर एस टी कॉलोनी सांगवी, पूने 411027	22/12/2003
101.	040739 श्री गलोटि अनंत माकति एसीए बी-7 शांति को. ओप. हाऊसिंग सो., मोगुल लेन, महिम, मुम्बई 400016	22/12/2003	112.	042180 श्री श्रीयान वेदप्रकाश एम एफसीए एम एस वेदप्रकाश एन्ड कं., 601 कारनेशन, "बी", ऑफ : चारी रोड, वसोवा अंधेरी (ई), मुम्बई 0	22/12/2003
102.	040748 श्री गजोकर धनरुखर माकति एसीए 4/1 विनयानंद सो., लिफिंग रोड एक्स., सेंट्राल (वैस्ट), मुम्बई 400054	22/12/2003	113.	042312 श्री शाह मनीष चंद्राला एसीए करोल 27 रोड, अपो. रिवाइवल आईसीसीयू. नर्सिंग होम, बंक्रा वैस्ट, मुम्बई 400050	22/12/2003
103.	040894 श्री चौहान कवीरत निरुतनचंद एसीए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, पी. ओ. बाक्स-999, मुम्बई 400000	22/12/2003	114.	042327 श्री महाजन मकरंद हरिभाउ एसीए मैसर्स मकरंद एन्ड एसोसिएट्स, फ्लैट नं. 7, 3 फ्लोर, व्यास अपार्ट ओमानपुरा, गजानन नगर औरंगाबाद 431005	22/12/2003
104.	040919 श्री जोशी प्रद्युम्न मोहनचंद एसीए 5, गणेश निवास, प्रभात कॉलोनी, नियर बी एस डी एन, सेंट्राल, मुम्बई 400055	22/12/2003	115.	042494 श्री पंचाल जितेन्द्रा कल्याणजी एसीए रीटा-बी 206, हर्षा पार्क चंद्रावर्कर 203 बोरीवली वैस्ट, मुम्बई 400003	22/12/2003
105.	041245 मिस जावब सुप्रिया दिनेश एसीए सी/43, परिजात सीएचएस लि. गुणसागर नगर, स्टेशन रोड, कलवा (वैस्ट), कलवा 400605	01/10/2002	116.	042707 श्री गोकुल गांधी राजेश किशोर एसीए 206, अपनावर, सेम्पुल स्ट्रीट, बादगोदी, मुम्बई 400097	22/12/2003
106.	041514 श्री मिश्री केतन हरकण्डस एफसीए 115 चक्रीट चैम्बर्स, 5 न्यू मैदान लॉन्स, मुम्बई 400020	22/12/2003	117.	042820 श्री हमीरबासिया जगदीश बिरबाम्बर एफसीए बी/5, मोहमादी अपार्टमेंट्स, रानी सती मार्ग, माल्टा (ईस्ट), मुम्बई 400097	22/12/2003
107.	041538 श्री मकरंद श्रीधर चौी एफसीए प्लॉट नं. 13, दिओ नगर, खामला रोड, नागपुर 440015	22/12/2003	118.	042838 श्री गोरादिया नितीन कुमार रसिकलाल एफसीए ए/604 चन्द्रा अपार्टमेंट्स, मनदीपेश्वर रोड बोरीवली वैस्ट, मुम्बई 400103	22/12/2003
108.	041587 श्री जैन अक्षय राजेन्द्र एसीए 143, बी सिंग, मिजल टॉवर, नरिमन प्वाइंट, मुम्बई 400021	22/12/2003			

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
119.	042938	श्री वीरा खुशाल चंद ठोसो एसीए 3308, नॉउलसुड लेन, होमवुड, इलीनोइस III 60430, यू.एस.	01/10/2002	129.	044379	श्री अश्वलक्ष्मीत मिश्र एसीए मेसर्स इंटरनेशनल होमटेक्स लिमिटेड, 401 सुमेर कॉम्प्लेक्स, पॉइन्ट बुधकर मार्ग, वर्ली मुम्बई 400018	22/12/2003
120.	042960	श्री पुरोहित धीरेन्द्र कुमार एसीए 15 जैफ मॉडेल, 39 सॉम सेब स्ट्रीट, जर्बेरी बाजार, मुम्बई 400002	22/12/2003	130.	044394	मिस्त्रि कमल पंडित एसीए बी-87 मीरा दर्शन, एमटीएनएल रोड, मीरा रोड (ईस्ट), मीरा रोड 0	08/12/2000
121.	043000	श्री हेमडे गणपति शिवायाम एसीए गणपति हेम एन्ड कं., एस-2/302 सुंदर नगर, एस वी रोड, मालद (वेस्ट) मुम्बई 400064	22/12/2003	131.	044357	श्री साहू भारत किशोर एसीए केयर अफेयर प्रोडक्ट्स प्रोप्राइटीज, 12/14, चम्पागली, न्युयार एम.जे. मार्किट, मुम्बई 400002	22/12/2003
122.	043041	मिस डेरवानी मीना विहारीलाल एसीए एफ-302 समीर को. ऑ. सोल्डरटी, 7 मंगलेश धासवानी मार्ग, जर्बेरी (वेस्ट) मुम्बई 400058	08/12/2000	132.	044394	श्री प्रियादीपकर कुंभार एसीए फ्लाट नं. 37 सेकंड फ्लोर, सेक्टर-10, ए.एस.टी. मार्ग मुम्बई 400703	22/12/2003
123.	043239	श्री मयूर नागरदास शाह एसीए 57/2-3 कोमल बिल्डिंग # 5, 3, 5, सुसुमवीत सोल 12, काकोबा 10110, पार्श्व	22/12/2003	133.	044620	श्री एल्लोसि मिश्र एसीए सी - हिल ट्रेन, डी.मेन्टी पार्क रोड, मंडा-वेस्ट, मुम्बई 400050	22/12/2003
124.	043855	श्री शाह आशीष मंगीलाल एसीए 217 वर्धमान चैम्बर्स II फ्लोर, 17 कवासजी पटेल स्ट्रीट फर्स्ट, मुम्बई 400001	22/12/2003	134.	044647	श्री रंजन बलवंत कुमार एसीए ए 1/101 योगी पैलेस, योगी नगर एनएच रोड, बोरीवली वेस्ट, मुम्बई 400091	22/12/2003
125.	043884	श्री कोठारी अक्षय जयंत एसीए जय भद्रा बिल्डिंग, एस वी पी रोड, बोरीवली (वेस्ट), मुम्बई 400092	22/12/2003	135.	044683	श्री भरगवा मुण्डी एसीए पी2/ए-45, सिद्धार्थ नगर, बोरीवली (ई), मुम्बई 400066	22/12/2003
126.	043949	श्री द्रुंगी तेज प्रकाश एसीए 3-बी कामगार नगर, एस जी बर्वे मार्ग, कुर्ली ईस्ट, मुम्बई 400 070	22/12/2003	136.	044848	श्री अक्षय कुमार परमेश्वर एसीए 1/बी/88, पीएमएल नगर, एस.वी. रोड, बोरीवली वेस्ट, मुम्बई 400062	22/12/2003
127.	044035	मिस महारुख मीनू करमचरिया एसीए ए-18, राधाकुण्डा, 4 फ्लोर, स्वास्तिक पार्क, चैम्बर, मुम्बई 400 070	22/12/2003	137.	045081	श्री जयंतलाल दंडी एसीए ए/14 प्रार्थना विरिंध, राजाजी, कामगार नगर, जेसल पार्क, चयंदर (ईस्ट), चयंदर 401 105	22/12/2003
128.	044209	श्री अर्जुन गिदवानी एसीए गिदवानी एन्ड कं., 56एफ, मेकर टावर्स, 5 फ्लोर, कफेपरेड, मुम्बई 400005	22/12/2003	138.	045083	श्री श्रीधर स्वामी एसीए 4, बसंत गार्डन, नैकसट द अमृत चर्च, यू.एन. पूव मार्ग, चैम्बर, मुम्बई 400071	01/10/2002
				139.	045096	श्री एन्थनी पोल केरील एसीए एनसीबी 5 फ्लोर पी ओ बक्स 3555, जेवाह 21481, समुद्री अरेबिया	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
140.	045361	मिस ज्योति बबनेश्वरी एसीए एन 089 विंसेन्स कोर्ट, बीरलएफ, फेज IV, गुड्रॉय 400057	08/12/1997
141.	045392	श्री सेनाए गणेश एसीए ए/12, डिवाइन लैंड, जेसल पार्क, भयंदर ईस्ट, भयंदर 401105	22/12/2003
142.	045609	श्री मुन्ना चवन कुमार गणिकचंद एफसीए डी-608 उच्च नगर, बिलेन रोड, भंडुप (वेस्ट), मुम्बई 400078	22/12/2003
143.	045682	श्री मेहता चेतन कुमार एफसीए ए/201 रवेगा ब्रीज, रवेगा स्टेट्स, कूलुपवादी, बोरीवला (ई), मुम्बई 400066	22/12/2003
144.	045689	श्री कैफटगिरी कासुदेन एसीए 45/5, अनुप सम्बन्ध रोड, सेंट्रल एस्ट, मुम्बई 400054	22/12/2003
145.	045734	श्री नैयर सुरेश्वर चण्णन एसीए 2/19 डी एन नगर, अंबेरी वेस्ट, मुम्बई 400058	22/12/2003
146.	045863	श्री अश्विक संतोष रामचंद्र एसीए नं. 68 बेसोर रोड, # 08-06 कोसरा वेल सोल, सिंगापोर 469986, सिंगापूर	22/12/2003
147.	045879	श्री जगन्मयी वैजयंती चण्णन एसीए फ्लैट नं. 908, विन्डू रेजीडेंसी सो चण्णन स्ट्रीट नं. 11, गंधी नगर, हैदराबाद 50	22/12/2003
148.	045946	श्री जयकाश भारतकुमार मेरिचिंडी एसीए 12/ए सी.जी. अफटेमिस्ट, निजर प्रेमचंद नगर, बिल्डिंग सैटलमेंट, सपकाड जयपुरी, अहमदाबाद 380015	22/12/2003
149.	045994	श्री गुप्ता संगम सुरेश प्रसाद एफसीए फ्लैट नं. 106 एन एच टी सबऊच सिटी, बिलेनवाली, अहमदाबाद रोड, बंगलौर 560076	22/12/2003
150.	046016	श्री अजुल मनुका चण्णन एसीए 2/सेन्ना, सेन्ना रोड, पुरे पूने 411016	22/12/2003
151.	046384	श्री गोटलसेठ आदेल फारुख एसीए 9 एड्रेस कोर्ट, जे टाटा रोड, चर्च गेट, मुम्बई 400020	22/12/2003
152.	046779	श्री साह संजय एम एसीए ए-12 समर नगर, राणा पार्क, घाटलोदिया, अहमदाबाद 380061	22/12/2003
153.	046791	मिस शुभदा अरविन्द गांधी एसीए केयर ऑफ पी एस बैंक टचलम, कोल्हाट-पामोलिम (पीएनजी) लि. कोको पार्क सोलु स्ट्रीट, पी ओ बाबस-981 मोरोन प्रोविन्स, ले 0, पुपुआ न्यू ग्युनिआ	22/12/2003
154.	046846	मिस चंद्रा आदीश रमा एसीए 4 एड्रेस गंगा, 1 फ्लोर पालिनाका, पंजा, मुम्बई 400050	22/12/2003
155.	046911	श्री श्रेणि रावेलचन्द्रा कैण्व एसीए 6/1 विन्नाम मार्क सोसाइटी, अणे. आर.सी.मटेल हाई स्कूल, वासना, अहमदाबाद 380007	01/10/2003
156.	047023	मिस एड्रेस मनीषा जस्टीन एसीए ए/15 यशो वन सो., 5 रोड, जे पी नगर, गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई 400065	22/12/2003
157.	047045	श्री सिंघल राजकुमार एसीए ए/401 स्टर्लिंग कोर्ट, मोहवरी नगर, मारोल्न मिडल रोड, अंबेरी ईस्ट, मुम्बई 400093	22/12/2003
158.	047069	मिस लैख रेखा प्रदीप एसीए 19, स्ना सागर, पी 3 हनुमार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई 400025	22/12/2003
159.	047316	मिस मिसाबा नवीला अहमद एसीए कपाडिया मैसन, 4 फ्लोर, आ. ए नगर रोड, मुम्बई 400011	22/12/2003
160.	047544	श्री सुने चण्णन राजदीश एफसीए शॉप नं. 6, बिल्डिंग ब्रे-5 सैक्टर-2, शक्ति नगर मीरा रोड (ईस्ट), मीरा रोड 401107	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	रिमूवल ता.
161.	047571	मिस बाबनी हिन्दू दयाल एसीए हाऊस नं. 316, एरिया 643, न्यूदेवरा, बहरीन	01/10/1998	172.	049033	श्री सराफ दीनेश बनवारीलाल एसीए 402 बी ब्लॉक, रोज गार्डन अपार्ट., सिन्धी विनायक नगर, मीरा-रोड (ई) थाने 401104	22/12/2003
162.	047806	श्री गांधी मयूर नरेशभाई एसीए ए-601 कौस्तुभ पार्क सीएचएस लि., एस बी रोड, नैक्सट टू भगवती हॉस्पिटल, बोरीवली (वैस्ट), मुम्बई 400103	22/12/2003	173.	049204	श्री जैन प्रदीप कुमार एसीए 107, इन्डो वर्ल्ड कम्प्लैक्स, नियर पुरुषोत्तम अपार्टमेंट्स, बिहाइड कारीवाला स्कूल, सिविल चार रास्ता, सूरत 0	22/12/2003
163.	047847	श्री अग्रवाल अनिल गोविन्द एसीए बी-1, प्रीनलैंड अपार्टमेंट्स, फ्लैट नं. 603/604, जे बी नगर, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई 400059	22/12/2003	174.	049270	श्री इनराईट जोसेफ डी सेल्स एसीए केपीएमजी, 1 हरबौरमास्टर प्लेस, आइएफएससी, टुक्लीन 1, आयरलैंड	01/10/2002
164.	048303	श्री कृष्णन पी पी आर एसीए 7, मेरीलैंड, 14 रोड, प्लॉट नं. 98, बान्द्रा-वैस्ट, मुम्बई 400050	22/12/2003	175.	049293	मिस पिकारडो सोनिया रोज एसीए केपीएमजी एलएलबी, वॉंग कोरपोरेट सेंटर 4100 यॉर्ग स्ट्रीट एसटीई 200, टोरोन्टो एम2पी2एम3, कनाडा	22/12/2003
165.	048452	श्री जैन चंद केशरीमल एसीए 155/24 पंजरापोल रोड, अपो. सूर्यनारी वादी, मुम्बई 400004	22/12/2003	176.	049302	मिस हीरा समीरा हातिम एसीए सिटीग्रुम सैन्ट्रल, बीकेसी, 5 फ्लोर, बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई 400051	22/12/2003
166.	048742	श्री कूलकर्णी शंकर गजानन एसीए ए/4 पुष्पराज क्रॉस लेन-6, पांडुरंग वादी गौरीगौव (ई), मुम्बई 400063	22/12/2003	177.	049380	श्री मेहता केतन प्रभाकर एसीए ई/7 मॉडल हाऊस, प्रोक्टर रोड, मुम्बई 400004	22/12/2003
167.	048792	श्री राजे नितीन नंदकुमार एसीए 16/बी, दादरकर बिल्डिंग, चितले पथ, दादर, मुम्बई 400028	22/12/2003	178.	049384	श्री अडवानो राबेन साधु एसीए बी/2 सिंधी नगर, नियर वली बस डिपो, वली, मुम्बई 400025	22/12/2003
168.	048845	श्री देसाई कुश सिद्धार्थ भाई एसीए 98 राम कृष्ण, अप्पा रोड, कॉक्स टाऊन, कालीर 560005	22/12/2003	179.	049541	मिस वाजे सुमेधा रमेश एसीए कंयर ऑफ एस एच कंसलर एन्ड कं. लि. एल बी एस मार्ग, मुल्तुनद वैस्ट, मुम्बई 400080	22/12/2003
169.	048869	श्री शानभाग गंगाधर रघुवीर एसीए मुल्ता बिल्डिंग, 1 फ्लोर, अपो. सिने आईशा, पोंडा गोडा 403401	22/12/2003	180.	049578	श्री सैलियन राजेश कृष्णप्पा एसीए फ्लैट नं. 9 निरव वाकोला सीएचएस लि., अशोक नगर रोड, वाकोला ब्रिज, सैटाक्रुज (ईस्ट), मुम्बई 400055	01/10/2002
170.	048884	श्री वैक्टा कामेश्वर राव अधिकारि एसीए 301 ताज अपार्टमेंट्स, आज़ाद लेन, आफ एस बी रोड, अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई 400058	22/12/2003	181.	049773	श्री बनवारी गिरीश पामन एसीए 202 ए पल अपार्टमेंट्स, 3 क्रॉस लेन, लोखान्डवाला कम्प्लैक्स, अंधेरी वैस्ट, मुम्बई 400053	22/12/2003
171.	049011	श्री गालमुलराज चंद्रलाल एसीए 801 गोपाल सदन, जामे जमशेद रोड, मत्तुंगा, मुम्बई 400019	22/12/2003				

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
182.	049826	श्री कन्नू विवेक जगदीश एसीए 43 अधिषा, 43 पाली हिल, बांद्रा, मुम्बई 400050	22/12/2003	192.	058274	श्री बारासिया नारायण एसीए 51बी/14 कुंदावन सेसाएटी, थाने (वैस्ट) थाने 400001	22/12/2003
183.	049875	श्री गदरे सैलेब विश्वास एसीए निकोलस पीरामल इंडिया लि., एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मोरारजी मिल्स कम्पाउंड, पारेल, मुम्बई 400012	22/12/2003	193.	071812	श्री सुंदर सन्मुखानी एफसीए 19/16डी फोर्ट सेशन, ऑफ ब्रिटिश होटल लैन बॉम्बे समाचार मार्ग, फोर्ट, मुम्बई 400023	22/12/2003
184.	049888	श्री अमित रसिकलाल शाह एसीए 42, लक्ष्मी निवास, एम जी रोड, मुल्तुनद वैस्ट, मुम्बई 400080	01/10/2001	194.	075019	श्री तोषनीवाल रामावतार एफसीए जोएमके चैम्बर्स, 108 हीरा प्लाजा, नियर टेलीफोन एक्स., सी ए रोड, नागपुर 440008	22/12/2003
185.	049910	श्री सोनी प्रमोद ज्ञानचंद एसीए बैंक ऑफ अमेरिका, एक्स्प्रेस टॉक्स, नरिमन पार्क, मुम्बई 400021	22/12/2003	195.	077141	श्री अनिल कुमार बाजपेयी एसीए सी-3 सूर्यरथ कम्पलैक्स, पानाचवटी, अहमदाबाद 380015	22/12/2003
186.	050294	श्री आशीम कुमार दे बौमिक एफसीए 161 युगधर्मा, अपो. सब-कुच सुपरमार्केट, न्यू लिंक रोड, गोरेगोव (वैस्ट), मुम्बई 400062	22/12/2003	196.	078721	श्री कुम्भट अनुज एसीए 301 सुंदरम, 5 बी रहेजा कम्पलैक्स, नियर टाईम्स ऑफ इंडिया, मलाड पू., मुम्बई 400097	22/12/2003
187.	050712	श्री कोरानी योगेश चन्द्रा एसीए 6 माधव कुंज, देवसर लेन, घाटकोपर (ईस्ट), मुम्बई 400057	22/12/2003	197.	081591	श्री ओम प्रकाश एफसीए ए-203 मोटा महल, लोखन्डवाला कम्पलैक्स अंधेरी वैस्ट, मुम्बई 400053	22/12/2003
188.	052001	श्री जतानिया नितिन चन्द्रा एफसीए फ्लैट नं. 9 धानु कुंज, 5 तेजपाल रोड, विले पारेल (ईस्ट), मुम्बई 400057	22/12/2003	198.	090867	श्री प्रोवर अमर दीप सिंह एसीए सी-6/7, एलआई सी कॉलोनी एस बी रोड, सैदाफ्रुज (वैस्ट), मुम्बई 400054	22/12/2003
189.	055885	श्री सुवाक्ता गुहाटाकुर्ता एसीए आईडीबीआई बैंक, कोरपोरेट ऑफिस, ट्रेडव्यू ओएसिस कम्पलैक्स, पी बी मार्ग लोअर पार्क (वैस्ट), मुम्बई 400013	22/12/2003	199.	091080	श्री गुप्ता नीरज एसीए एसार टेलीहेल्थ्स, एसार हाउस, महालक्ष्मी, मुम्बई 400034	22/12/2003
190.	056465	श्री प्रमोद नायर एसीए डी-8 2 फ्लोर एनबेयोर सेसाएटी, 90 फीट रोड, मुल्तुनद (ईस्ट), मुम्बई 400081	22/12/2003	200.	094136	श्री राजीव लोचन पटनायक एसीए एटी/पीओ सैकुल, डिस्ट. किओआर, उड्डेसा 758043	01/10/2002
191.	057234	श्री कुबाले घोष एसीए एच 331 सैक्टर II, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700091	01/10/1999	201.	100042	मिस जनस्वामी वाणी रवि कुमार एसीए फ्लैट नं. 508 विष्णु रैजीडेंसी ब्लॉक, स्ट्रीट नं. 11, गांधी नगर, हैदराबाद 500080	22/12/2003
				202.	100085	श्री राजेन्द्रा देवीदास पुराणिक एफसीए 17/बी-32 आंकार एसोएच लि., शिवधाम, फिल्म सिटी रोड, मालद (ई). मुम्बई 400097	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
203.	100165	श्री वैकटेश परमेश्वरन एसीए बी/12 सिव आशीप, कोलकर पाथ, रामनगर, डेम्बीवाली (ई) डिस्ट. थाने डेम्बीवाली 421201	22/12/2003	214.	101705	मिसिज़ तरुणा मोनेष भोजवानी एसीए 201 धूप चौन सोसाएटी, 4 फ्लोर फ्लैट 8, टीपीएस III बांद्रा, मुम्बई 400050	22/12/2003
204.	100195	श्री अभिजीत माधव करनदीकर एफसीए केयर ऑफ मैसर्स अल-हब्बत मोटर्स को. एलएलसी, पी ओ बाक्स - 19879, दुबई 0, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स	22/12/2003	215.	101814	श्री आमोष घनेश गागलानी एसीए 403 श्री निवी अपार्टमेंट्स, काम्पा लेन, घाटकोपर (वैस्ट) मुम्बई 400086	22/12/2003
205.	100439	श्री गांगुली अरुण विष्णु एसीए 404 ओम प्लाजा फ्लैट नं. 96, सेक्टर 2 कोपरखराने, नवी मुम्बई 400709	22/12/2003	216.	101856	श्री दाइद आकाश रमेशचन्द्रा एसीए 3 वीनी अपार्टमेंट, 2093 सदाशिव पेय, पूने 411030	01/10/2002
206.	100957	श्री भूतवाला दर्शन जयवदन एसीए 401 विंडसर प्लाजा, आर सी दत्त रोड, चांदेदरा 390007	22/12/2003	217.	101865	मिसिज़ शमीम तनवीर एसीए फ्लैट नं. 203 ए.विंग, अस्मिता ऑफिस 1, नया नगर, नियर एन.एच. इंग्लिश एकेडेमी मीरा रोड (ईस्ट), मीरा रोड 401107	22/12/2003
207.	101013	श्री अश्ववाल कन्हैयालाल क्रिजकिशोर एसीए एलीमेंट्री बिल्डिंग नं. 6/27, गौशाला लेन, मालद ईस्ट, मुम्बई 400097	08/12/2000	218.	102004	श्री प्रतीक जैन एफसीए ब्रउनन बी-504, वस्तु पारवल, ऑफ वेस्टन एक्सप्रेस हाईवे, बोरीवली (वैस्ट), मुम्बई 400066	22/12/2003
208.	101060	श्री योगेश संतोष पाटकी एसीए 311 चर्चीट चैम्बर्स, न्यू मेराइन लाईन्स, मुम्बई 400020	22/12/2003	219.	102076	श्री अयाते विवेकानंद विष्णु एसीए डी-283 वासी प्लाजा, सेक्टर 17, वासी, नवी मुम्बई 400703	22/12/2003
209.	101092	श्री कोठारी निलेश प्रवीणचन्द्रा एसीए 7/125, महावीर कॉटेज, गोरोदिया नगर, घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई 400077	22/12/2003	220.	102192	श्री कुन्नाल प्रवीण शाह एसीए 12 सनबीम चैम्बर्स, III फ्लोर, 7-सी न्यू मेराइन लाईन्स, मुम्बई 400020	22/12/2003
210.	101372	मिस गोटला कमलरुख आदिल एसीए 9 लोटस कोर्ट, जे टाटा रोड, चर्चीट, मुम्बई 400020	22/12/2003	221.	102224	श्री विठ्ठे आनंद श्रीहरि एसीए पी ओ बाक्स - 12416, दारे एस सल्लाम 0, तनजानिया	22/12/2003
211.	101417	श्री यूसुफ स्लेहभाई सिंगापोरेवाला एसीए 79 माइमैदी हाउस, 1 फ्लोर आर नं 16/17 मोहामेदाली रोड, मुम्बई 400003	22/12/2003	222.	102348	मिस हजूरबाजार अश्विनी गिरीश एसीए बी/8 भग्योदया को. ओप. सो., टीपीएस 6 लिंक रोड एक्स, प्लाट नं. 9/10, सैन्टाक्रुज (वैस्ट), मुम्बई 400054	22/12/2003
212.	101456	श्री जाजोदिया आलोक कुमार रामावतार एसीए 17032 सत्यम टावर्स 17 फ्लोर, 90 फिट रोड ठाकूर कम्प्लैक्स, कांडीवली (ई), मुम्बई 400101	22/12/2003	223.	102504	श्री काबरा अशुल क्रिजमहन एसीए डी/43, मानव मंदिर, 17 रोड, सिद्धार्थ नगर, गोरेगांव-वैस्ट, मुम्बई 400062	22/12/2003
213.	101601	मिस शर्मा अंजु एसीए केयर ऑफ सुनील गुला ए/609 सुयोग सीएचएस, टीपीएस III अपो डेनबॉस्को, बोरीवली वैस्ट, मुम्बई 400092	22/12/2003				

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
224.	102554 मिस अश्वर अरुण श्रीनिवासन एसीए 501/14 कुमुद, वसंत विहार, बाने (वैस्ट), बाने 400601	22/12/2003
225.	102738 श्री शंकर वैकटसुब्रमन्यम एसीए 12 बर्मा शास्त्र, 25-ए, जे.पी.रोड, अंबेरी (वैस्ट), मुम्बई 400058	22/12/2003
226.	102809 श्री अग्रवाल हेमन्त दीनदयाल एसीए ए/404 वसंत सागर गंगा सीएचएस लि. ठाकुर क्लिजे, कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई 400101	22/12/2003
227.	102826 श्री गुला कमलेश कुमार कोटेलाल एसीए बी/506 बिल्डिंग नं. 1, कोलकाता सीएचएस लि. परसीबाद स्मर रोड, अंबेरी (ई), मुम्बई 400099	22/12/2003
228.	102913 मिसिजनकुमिता श्रीरंग बाल एसीए 7/14 स्वप्ना, ओसवाल पार्क, पोखरान रोड नं. 2, बाने 400601	22/12/2003
229.	103001 श्री के.सी. राजेश माधवन एसीए 512/सी राहुल अन्वलेख, साईबाबा नगर, नैक्सट टू म्यूजिसियन गार्डन, बोरीवली (वैस्ट), मुम्बई 400092	22/12/2003
230.	103039 श्री नरुला गुरदेव सिंह मंगीत सिंह एसीए बी/501, एक्सप्रेस अपार्टमेंट्स, यारी रोड, वसोबा, मुम्बई 400061	22/12/2003
231.	103133 श्री शाह अमित हेमन्त एसीए 77/19 मैदान क्रिकेट रोड, पतन जैन मंडल बिल्डिंग नं. 2, 3 फ्लोर, मुम्बई 400020	22/12/2003
232.	103225 श्री मोदी निखिल वसंतराव एसीए 22 सी/704 बीबीएस नगर, एम एच ए बी ए, नियर एस.ए.पी. बौद्ध, डबल्यू डबल्यू से गेरोलीव (वैस्ट), मुम्बई 400065	22/12/2003
233.	103313 श्री नरकार यशिन अन्त एसीए 4, देवदया हनयतीग्रोह, पदमबाई ठाकर रोड, सिवाजी पार्क, ददर, मुम्बई 400028	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
234.	103380 श्री रानावत मिलेन्द्र हीराचंद एसीए बी-303 राजसीमा, इस्मीबादी, आर. डी. नं.3, कांडीवली (वैस्ट), मुम्बई 400067	22/12/2003
235.	103415 श्री अश्विन मित्तल एसीए 17 फ्लोर मित्तल टॉवर बी बिंग, 210 नरिमान पार्क, मुम्बई 400021	22/12/2003
236.	103442 मिस राठी पूजा आनंद एसीए 502 ज्योति, रंगता स्लेन, नैपियन सी रोड, मुम्बई 400006	22/12/2003
237.	103467 मिस गीता शशी मेहरा एफसीए 4बी/704, 7 फ्लोर, प्रीनमीडोज, लोडांडवाला कॉम्प्लेक्स, आनंदली रोड कांडीवली (ई), मुम्बई 400101	22/12/2003
238.	103476 मिस वर्षा नवनीतलाल शाह एफसीए 143/4298 कन्नामवास नगर 2, बिखरोली, मुम्बई 400083	22/12/2003
239.	103499 मिस राव सैलाजा अधिकारी एसीए 301 ताज अपार्टमेंट्स आज़ाद स्लेन, ऑफ एस वी रोड, अंबेरी (वैस्ट), मुम्बई 400058	22/12/2003
240.	103535 श्री जयंत भास्कर सिन्धे एफसीए बी/2 राजश्री टॉवर, नियर प्रताप सिन्हाक, कोल्हाबाद, बाने वैस्ट, बाने 400601	22/12/2003
241.	103619 मिस अश्वर सुभाषी नीलकण्ठन एसीए ए/504 वेस्ट काम्प्लेक्स, अयो. फोरस फक्टरी, वारतक नगर, बाने 400606	22/12/2003
242.	103835 श्री मुकेश कुमार बोहरा एसीए केयर अफ सुरेश बोहरा, जब श्री बाग सीएएस, आर-7/6, बानूर नगर, मोरेगौव (वैस्ट) मुम्बई 400090	22/12/2003
243.	103901 श्री प्रीतम शशीकान्त अठवले एफसीए फ्लैट नं-301, श्री विद्यानंद बिल्डिंग, नियर ओल्ड क्रेटर रोड, थोडे कॉलोनी एरान्डवाने, पुणे 411004	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
244.	103988 मिस चिनमाई ए. शाह एसीए 141 बी ऐश्वर्या, गौशाला रोड, अपो. म्युनिसिपैलिटी स्कूल, मुमुन्द (वेस्ट), मुम्बई 400080	22/12/2003	254.	104974 श्री राकेश महाशंकर जोशी एफसीए 117, बीना बीना शांति सेंटर, गुरू नानक रोड, अपो. बांद्रा स्टेशन, बांद्रा वेस्ट, मुम्बई 400050	22/12/2003
245.	104007 श्री मोहम्मद हनीफ लतीफ सर्वे एसीए मैमर्स अकीली ट्रेडिंग एलएलसी, पो.ओ बाक्स # 1496, दुबई 0, यूनाईटेड अरब एमिरेट्स	22/12/2003	255.	105060 श्री नीशित नरेन्द्रानाथ चतुर्वेदी एसीए 4/2, नवयुग निवेशन, 185, बालकेश्वर रोड, सीन कती, मालाबार हिल्स, मुम्बई 400006	01/10/2002
246.	104254 मिसिज ममता कश्यप गानत्रा एसीए 1/ ऑफिसर बॉलोनी 1 आर एल, जुनागढ़ वीरावल रोड, डिस्ट. जुनागढ़, वीरावल 0	22/12/2003	256.	105273 श्री हिमांशु भारतभाई देसाई एसीए जीवन सुधा, बी/36, 6 फ्लोर, जूहू लेन, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई 400058	22/12/2003
247.	104339 श्री विश्वकर्मा कमलेशकुमार सुरेश एसीए पी/20 बी एम सी बिल्डिंग, मैक फैक्टरी लेन, कुर्गा (वेस्ट) मुम्बई 400070	22/12/2003	257.	105288 श्री सौरभ प्रकाश पाठक एसीए सी/5 सागर दर्शन, 308 कार्टर रोड, खार वेस्ट, मुम्बई 400052	22/12/2003
248.	104395 श्री नरेश कंवर यादव एसीए 13 न्यू नवयुग हाऊस सोसाएटी, 14 ओल्ड हनुमान लेन, कालाबोदेवी, मुम्बई 400002	22/12/2003	258.	105448 श्री दीपेश प्रमोद कुमार मोदी एसीए एफ-3/3:3 पंचदीप सीएचएस., सेक्टर 29, वाशी, नवी मुम्बई 400703	22/12/2003
249.	104440 श्री जैन अनुप बिमलकुमार एसीए डी-111 उपवन, अपर गोविंद नगर, मालाद (ई), मुम्बई 400097	22/12/2003	259.	105566 मिस मीरा हर्षद वासा एसीए 5 उदय दर्शन, 103 नेहरू रोड, सेन्ट्रल जेन इस्ट, मुम्बई 400055	01/10/2002
250.	104492 श्री गणेश र. गोव रेड्डी एसीए बी 04 श्री सिद्धीविनायक टॉवर्स टैंक रोड, ऑरलेम, मालाद वेस्ट, मुम्बई 400064	22/12/2003	260.	105577 श्री नायडू श्रीनिवास पोन्नूस्वामी एसीए ए/20 शांत निकेतन, डोंगरे पार्क्स सीएचएस, नियर एर सी एफ हॉस्पिटल, चैम्बर, मुम्बई 400074	22/12/2003
251.	104565 श्री सम्पत बारासिंह उचिल एसीए बी 7/24 महीन्द्रा नगर, मालाद ईस्ट, मुम्बई 400097	22/12/2003	261.	105586 मिस खुशनाम पेशोतन मोगल एसीए सी एम बानाजी बिल्डिंग, फ्लैट नं. 1, गोवालिया टैंक, फॉरजेट ब्रॉस लेन, मुम्बई 400036	22/12/2003
252.	104712 श्री शिवेक कुमार गंगवाल एसीए 302 मैराथन हाइट्स, पांडुरंग कुबकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400013	22/12/2003	262.	105597 मिस मनीषा रमेश भागवत एसीए 55 गुडविल एशुरेंस बिल्डिंग, मनमाला टैंक रोड, महीम, मुम्बई 400016	22/12/2003
253.	104716 श्री अल्पेश महेशकुमार दलाल एसीए 602-बी, न्यू पार्क एवेन्यू कोओप. -एफएससीजी सो. लि. धानुकरवादी, एम जी रोड, कांडीवली (वेस्ट), मुम्बई 400067	22/12/2003	263.	105625 मिस अशिला श्रीराम एसीए केयर ऑफ श्री के आई कृष्णास्वामी, 13/2 संजीवनी बिल्डिंग, के ए एस रोड, मत्तुंगा, मुम्बई 400019	01/10/1999
			264.	105786 मिसिज गोपा मिहीर गोर एसीए 57 लवेट वे, नोसडैन, लंदन एनडबल्यू 10 यू एन यूनाईटेड किंगडम	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
265.	105788	श्री फेतन हर्षदराय मेहता एसीए 14, परेष सदन, 353/बी-26, सी बी लेन, घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई 400077	22/12/2003	275.	106834	श्री राजेश कृष्ण शर्मा एसीए 4/9, भगवती अपार्टमेंट, एस वी रोड, मालाद वेस्ट, मुम्बई 400064	22/12/2003
266.	105840	मिसिज अश्विनी आनंद सखे एसीए ए-401 दीपरत्ना एसीएचएस., जू-वर्सेवा लिंक रोड, बी/एच एचडीएफसी बैंक, अंबेरी वेस्ट, मुम्बई 400053	22/12/2003	276.	106861	श्री राकेश किशोर भानुशाली एसीए 3/13 शेवांती छाया, उमेशनगर, देम्बीवली 421202	01/10/2002
267.	105921	श्री भावीनकुमार मफतलाल जावेरी एसीए 1 बालगणपति अपार्टमेंट्स, एड्डलजी रोड, नियर पवार इन्डल एस, घराई, थाने 400601	22/12/2003	277.	106969	श्री प्रमोद प्रभाकर जोषी एसीए 1/2, मौली अपार्टमेंट्स, अपो. गौंदेवी मंदिर, मनपाडा रोड, देम्बीवली 421201	22/12/2003
268.	105964	श्री युसूफ नेमत अलि सईद एसीए केयर अँक अर्नस्ट एन्ड यंग, पी ओ बाक्स 2732, रियास 11461, साउदी अरेबिया	22/12/2003	278.	107041	मिस स्निग्धा अशोक गोडले एसीए यूनिट III, इलेक्ट्रॉनिक सदन III, एमआईडीसी, भूतारी, पुणे 411010	01/10/2002
269.	106025	श्री सिंह अरविन्द बंसराज एसीए सी-203, रिजवी पार्क, एस वी रोड, सेटाक्रुज-वेस्ट, मुम्बई 400054	22/12/2003	279.	107049	श्री कल्लभ निलेश एसीए 401 पुजा अपार्टमेंट्स, तीन स्टार को. आ. हा. सो., एकसार रोड, अपो. योगी नगर, बोरीवली-वेस्ट, मुम्बई 400092	22/12/2003
270.	106262	श्री किशोर गणेशभाई नागर एसीए 1 फ्लोर, नरबादे सिद्धी विनायक कमलैक्स अपो. मामलातदार ऑफिस, दीसा 0	22/12/2003	280.	107073	श्री राजेन्द्र कुमार जैन एसीए 9/ए मौलीपाई भीखापाई कॉलोनी, नारनपुरा, अहमदाबाद 380014	22/12/2003
271.	106470	मिस अभिलाषा बसंत पंत एसीए 3 बरतोर बौग, एल बी एस मार्ग, पांडुर (वेस्ट), मुम्बई 400078	22/12/2003	281.	107389	श्री नीलेश मनोहर लूने एसीए 246, शंकर नगर, नागपुर 440010	01/10/2002
272.	106579	श्री रविन्द्रा एम विजयवर्मा एसीए बी 13 गोपुरम को. ओप. हाउसिंग सो. सोमनीग्राम, राम मंदिर रोड, गोरगांव वेस्ट, मुम्बई 400104	01/10/2002	282.	107462	मिस पतिआथ लीना लक्ष्मण चालतन एसीए 601 परिजात 2, वसंत विहार, थाने 400601	01/10/2002
273.	106710	श्री साधू प्रेम प्रकाश एसीए 183 वर्षा सेसाएटी, अण्वा रोड, वदोरा 390019	22/12/2003	283.	107463	श्री संदीप कैलाश सितानी एसीए 303 हिंगलाज सीएचएस लि., विनायक मंदिर रोड, डिस्ट. थाने, भयंदर वेस्ट, भयंदर 0	22/12/2003
274.	106793	श्री विश्वास यशवंत बेडेकर एसीए 1/302, एसीसी-फिन्स सीएचएस लि., मैटल हॉस्पिटल रोड, अपो. सखना सावना कॉलेज, थाने 400604	22/12/2003	284.	107516	श्री संजय महादिओ भात्रे एसीए बिल्डिंग नं. 57 रूम नं. 1468, कन्नामवर नगर नं. 1, विखरोली (ई) मुम्बई 400083	22/12/2003
				285.	107624	श्री मनोज कुमार सुशील कुमार अग्रवाल एसीए 301 श्री अरपन को. ओ. हा. लि. लेपोरा स्ट्रीट, 60 फीट क्रॉस रोड, भयंदर 401101	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
286.	107756	मिस भटनागर प्रीति एसीए 501 सिस्ली अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. 60/61 सेक्टर 16ए, नेहरू, नवी मुम्बई 400709	22/12/2003	296.	108224	श्री निखिल सतीश राजाध्या एसीए 99/5 एरेन्डवाने, बी एल पाई पथ, ऑफ प्रभात रोड, पुणे 411004	22/12/2003
287.	107773	श्री स्टेश सिंह एसीए 141, अडेनवाला बिल्डिंग, गोलाजी हिल रोड, पारेल, मुम्बई 400012	22/12/2003	297.	108236	श्री आनंद विनय शाह एसीए 18 फ्लैट एक्सप्रेस टॉवर, नरिमान पार्क, मुम्बई 400020	01/10/2003
288.	107890	श्री समीर प्रमोद दोषी एसीए बी-602 पंचशील गार्डन्स, महावीर नगर, पहलूर बादी, कांडीवली (वैस्ट) मुम्बई 400067	22/12/2003	298.	108406	श्री अमित कुमार अशोक तुलशियन एसीए 1101 पंचशील टॉवर, गोविलधाम, गोरेगांव (ई), मुम्बई 400063	22/12/2003
289.	107963	मिसिज रेश्मा राजेश शाह एसीए 21 टिम्बर मार्बिट, चम्पा केसर बिल्डिंग, पुणे 411042	22/12/2003	299.	108444	श्री बबलु पंचारीनाथ पाटिल एसीए डी-14/ई-3, न्यू हाईवे पार्क, ठाकुर कम्प्लेक्स, कांडीवली ईस्ट, मुम्बई 400101	22/12/2003
290.	107976	श्री सुब्रमन्यन बालकृष्णन एसीए 101 नीलमिरी अपार्टमेंट, नीलकंठ विहार, शहोद भगत कंवर राम मार्ग, विद्याविहार (ई), मुम्बई 400077	22/12/2003	300.	108525	श्री शिवेश सी जेबनपुरा एसीए बी/20, साईधाम, आर. पी. क्रॉस रोड, नियर ग्युनिस्विल हॉस्पिटल, मुलुन्द (वैस्ट) मुम्बई 400080	22/12/2003
291.	107978	श्री निर्तान नरेशकांत गडनी एसीए 76/115 हर्ड्समन पारेड, चैम्बले डबलपूर 6014, आस्ट्रेलिया	22/12/2003	301.	108556	श्री समीर आर शाह एसीए डी 702 मराठन कॉन्समॉस, एलबीएस मार्ग, मुलुन्द वैस्ट, मुम्बई 400080	22/12/2003
292.	107987	श्री सोमानी जितेन्द्रा एसीए केयर ऑफ दीपक कुमार सोदानी 505, सरस्वती अपार्टमेंट्स, एस बी पी रोड, बोरीवली-वैस्ट, मुम्बई 400092	22/12/2003	302.	108570	श्री फारूख अहमद मोहम्मद खत्री एसीए केयर ऑफ ब्लैक एन्ड डैकर (ओवरसीज) एजी पी ओ बाक्स 5420, दुबई 0	22/12/2003
293.	108061	श्री रितेश किशोरकुमार वाछरिया एसीए भावना बिल्डिंग एफ/8, एस बी रोड, कांडीवली (वैस्ट), मुम्बई 400067	22/12/2003	303.	108606	श्री नंदन जे मेनन एसीए सी/414 ओम सदाशुख सीएचएस होली क्रॉस रोड, आई सी कालोनी, बोरीवली वैस्ट, मुम्बई 400103	22/12/2003
294.	108102	मिसिज दरिका ठक्कर एसीए फ्लैट बी 9 ग्राउंड फ्लोर तुलसीबाग, चंद्रावरकर क्रॉस रोड 1, नियर रायपुरा सरकल, बोरीवली वैस्ट, मुम्बई 400092	22/12/2003	304.	108623	श्री गौरव गुप्ता एसीए 52 मेकर चैम्बर्स IV, नरिमान पार्क, मुम्बई 400021	22/12/2003
295.	108181	श्री सिन्हा मुकुल एसीए केयर ऑफ आर राजाराम, न्यू जू पार्क अपार्ट. अपो. हरे कृष्ण टेम्पल, मुम्बई 400049	22/12/2003	305.	108823	श्री अनीषकुमार बलवंतराय मेहता एसीए केयर ऑफ हरिभक्ति एन्ड कं. 19/21 बॉम्बे म्यूज्यूअल चैम्बर्स, ए दोषी मार्ग फोर्ट, मुम्बई 400001	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
306.	108865 श्री विकास चन्द्रकाश मुरारका एसीए आईसीआईसीआई बैंक लि., बांद्रा कर्ला कम्प्लेक्स, मुम्बई 400051	22/12/2003	316.	109676 श्री वात्सलकुमार हरीशभाई पारेख एसीए सी 502 सीमनघाट टॉवर, जजिण बंगलो रोड, बोझकटेंव, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015	22/12/2003
307.	108933 श्री सज्जाद सादिक रसूल एसीए 46-47 एफ.एफ. सदीगबाद, मनकापुर, नागपुर 440029	22/12/2003	317.	109678 श्री प्रसाद सुरेश तारे एसीए वारीतास सोफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रा. लि. सिमफनी एस नं. 210ए/1, रैज हिल्स, पूने 411020	22/12/2003
308.	109009 मिस मेधा मधुसूदन अम्बरडेकर एसीए 4/4 उद्यान को. ओ. हा. सो., नियर घाटकोपर बस डिपो, घाटकोपर ईस्ट, मुम्बई 400075	22/12/2003	318.	109778 श्री प्रशांत अरविन्द खोपकार एसीए ए-3, 203, धवलमिरी, रामेश्वरी फार्मलेनी, नियर मोत कॉलेज, कोथरुड, पूने 411038	22/12/2003
309.	109220 मिस जसमिन मैनेक पिक्कवार एसीए 681 ए खरेघाट रोड, पारसी कॉलेजी, घदर, मुम्बई 400014	22/12/2003	319.	109804 श्री वैष्ण्व जोगेफ अनंतानाम एसीए 41/695 चितूर रोड, कोथीन 682018	22/12/2003
310.	109276 मिस संगीता अनिल सम्भत एसीए 304/ए, रोडन रैजीडेन्सी, बाबाई नाका, ऑफिस एम मंदिर रोड, बोरीवली (वेस्ट), मुम्बई 400092	22/12/2003	320.	109850 मिसिज प्रियंका डी गुप्ता एसीए ए/20 एवरस्वीट अपार्ट., अपो. प्रताप नगर, वर्सावा रोड, अंबेरी, मुम्बई 400053	01/10/2002
311.	109402 मिस अपूर्वा इन्द्रावदन मन्वार एसीए 1 कैलाश दीप 38 बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुम्बई 400056	22/12/2003	321.	109855 मिस रश्मि गंगासरन गुप्ता एसीए 4, बंदना, 15 रोड, बांद्रा वेस्ट, मुम्बई 400050	22/12/2003
312.	109568 मिस उषा तुलसीराम वंद्यवासी एसीए बिल्डिंग नं. 9, फ्लैट नं. 9, 2 फ्लोर, गोदरेज हिलसाईड फार्मलेनी, सीबीएस मार्ग, विखरोली वेस्ट, मुम्बई 400079	22/12/2003	322.	109994 मिस पायल जितेंद्रा शाह एसीए महेशाना मैशन नं. 2, ब्लाक 3, तेजपाल रोड, विले पार्ले ईस्ट, मुम्बई 400057	22/12/2003
313.	109620 मिसिज रेखा संजय दीक्षित एसीए डी 2114 स्वेता स्लेज, पूने सिंघाद रोड, पूने 411030	01/10/2002	323.	110125 श्री खिरेन मणिलाल देघिया एसीए रामवादी मागल निवास, नियर प्रमाणिक स्टील स्टेशन रोड, विखरोली ईस्ट, मुम्बई 400083	01/10/2002
314.	109635 मिसिज नीता प्रतुल हरिया एसीए फ्लैट नं. बी-19, अम्बाजी अपार्टमेंट, देवीदयाल ब्रह्मस रोड, मुजुन्द वेस्ट, मुम्बई 400080	22/12/2003	324.	110194 श्री दुष्यंत दलीप नवलखा एसीए केयर ऑफ श्री पराग कापदी, 501 प्रथम अपार्टमेंट, सिटी लाइट, सूरत 395007	22/12/2003
315.	109652 श्री अजय खत्री एसीए डी 104 प्रायन कॉसमस, एनआर शॉपर स्टॉप मैराथन एवेन्यू रोड, अफ एलबीएस मार्ग, मुजुन्द वेस्ट, मुम्बई 400080	22/12/2003	325.	110230 श्री सिद्धार्थ कार एसेए बिल्डिंग नं. 2ए 104 शिव गंगा अपार्ट. ऑफ चिन्मयी कुंजर रोड, मालद वेस्ट, मुम्बई 400064	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन.	सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
326.	110243	श्री शेखर रामामूर्ति एसीए ए/6, अनडीवर स्टीरक्स, विद्यालय मार्ग, मुलुन्द (ई), मुम्बई 400081	22/12/2003	337.	111483	मिस मधुमति सुरेश सपरे एसीए ब्लॉक नं. 15/16 बी किंग, तोराज अपार्टमेंट, अंबेरी स्लॉर रोड, अंबेरी ईस्ट, मुम्बई 400099	22/12/2003
327.	110391	श्री गौरव हरिसिंह श्यामसुखा एसीए ए/2बी नेपल्स, 9 स्लेमनी रोड, कुके पोरड, मुम्बई 400005	22/12/2003	338.	111715	श्री अमरफ अम्बुल्ला हलवाई एसीए 204 बौद्धलाल अपार्टमेंट, लक्कू बाग, अंबेरी ईस्ट, मुम्बई 400058	22/12/2003
328.	110434	श्री राणांगम जयप्रकाश महदेवन एसीए नं. 6, श्री राजेश्वरी सोसायटी, समबीग लेन नं.4, कल्याण 421301	22/12/2003	339.	111746	श्री विराम विनोद शाह एसीए 802 आशुतोष 8 फ्लोर, कुर्ली टर्मिनस रोड न्यू तिलक नगर, कैम्बर, मुम्बई 400089	22/12/2003
329.	110611	श्री रमेशकुमार गैदलाल गुला एसीए 206 2 फ्लोर विरमल कैम्बर, कैरायटी स्क्वेअर, सीतबुद्धी, नागपुर 440012	22/12/2003	340.	111881	श्री श्रीनिवास चेल्लाय एसीए नं. 9, पुष्पाराग, गौसाला रोड, मुलुन्द ईस्ट, मुम्बई 400080	22/12/2003
330.	110672	श्री निखिल शिरीष मराठे एसीए श्रीरामकृष्ण, 39/7 एनेडॉवने, पुणे 411004	22/12/2003	341.	111939	श्री साजिद सलीम नाथानी एसीए कैम्बर ऑफ पराङ्गुनी ट्रेडिंग कं. एलएलसी पी ओ बॉक्स 3, दुर्गा 0	22/12/2003
331.	110681	श्री दीपक मुरारीलाल डालमिया एसीए ए/703 सरस्वती वस्तंत सगर, ठाकुर विलेज, कांडीवली ईस्ट, मुम्बई 400101	22/12/2003	342.	111977	मिस शमिनी शंकर परब एसीए बी 18 सविन सेसायटी, नियर मंगल हाई स्कूल, चेंद्री, धाने ईस्ट, धाने 400603	22/12/2003
332.	110702	मिस प्रेमा प्रदीपकुमार रुम्भ मुखर्जी एसीए 12 कुरी हाऊस, मृगाग्रीव डॉक लिमिटेड, डॉकयार्ड रोड, मुम्बई 400010	22/12/2003	343.	112018	श्री पंकज लाल एसीए डी-37/304 योगी नगर, बोरीवली ईस्ट, मुम्बई 400091	22/12/2003
333.	110774	श्री कार्तिक वसंतभाई शाह एसीए 6 प्रसाद बिल्डिंग 3 फ्लोर, अमो. तारा पाटिल हॉस्पिटल, एबव मुम्बे बैंक एस एन रोड, टेम्बे नगर, मुलुन्द ईस्ट, मुम्बई 400080	22/12/2003	344.	112200	श्री मधुर शानभोग पंढुरंग राव एसीए डी-11/102 जम्बो दर्शन, नियर होटल रिजेंसी, अंबेरी ईस्ट, मुम्बई 400069	22/12/2003
334.	110892	श्री केंदर शरद बानावादीकर एसीए डी/4 सेंट्रल बैंक सोसायटी, दादाभाई फ्रांस रोड नं. 3, विने पाले (ईस्ट) मुम्बई 400056	22/12/2003	345.	113007	श्री प्रकाश ताराचंदभाई कासत एसीए 126 सन राजा पार्क, ब्रुक्स इन रोड, अहमदनगर 430054	22/12/2003
335.	110963	श्री करिंत मूलिचंद लोडया एसीए 262/70 अनंत निवास, नारसी नाथ स्ट्रीट 3 फ्लोर, 60/61, मुम्बई 400009	22/12/2003	346.	113158	श्री गिरा प्रवीणचन्द्र शाह एसीए माम इन्क्यूटी रिसर्च, 31 ए. गोकुल रॉय, देशमुख मार्ग, मुम्बई 400026	22/12/2003
336.	111422	श्री मनीषकुमार बालकृष्ण पोरवाल एसीए ए-1 बालाजी अपार्टमेंट, कागवादे माला, इधलकरनजी 416115	22/12/2003	347.	113224	श्री सतीष जयराम एसीए 33 सिम्पलैक्स मिल्स कम्प्लेक्स, 30 के के मार्ग संत गैंगे मार्ग चौक जे.ब. सरकल, मुम्बई 400011	22/12/2003

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
348.	113718 श्री अरूण विजयसिंह बेथरा एसीए 2/4605 - बी, बोम्बेरी सागरामपुरा, सुरत 395002	22/12/2003	354.	204530 श्री शिवास्वामी एन एस एसीए नं. 4 श्री कंचन सीएचएस, राजाजी पाथ III, क्रॉस रोड, डेम्बीवली ईस्ट, डेम्बीवली 421201	22/12/2003
349.	113790 श्री वैभव कुमार अग्रवाल एसीए 6ए/3 एकतमाता नगर, जे बी नगर, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई 400059	22/12/2003	355.	204890. श्री कीदाम्बी सुरेश रंगाराजन एफसीए फ्लैट नं ए-502, बैतन्या टॉवर्स, को.ओपरेटिव हा. सो., प्रभादेवी, मुम्बई 0	01/10/2002
350.	113990 श्री नवल किशोर गिरराज किशोर भालपानी एसीए 501 सी यू कोओप. हा. सो. बंगूर नगर, गोरेगाव (वेस्ट), मुम्बई 400090	22/12/2003	356.	206547 श्री गोपीकृष्णन एम के एसीए फ्लैट नं. 53 राजीवा अपार्ट., जिग जैग रोड, पाली हिल, बांद्रा वेस्ट, मुम्बई 400050	22/12/2003
351.	114046 श्री विकेश पोपटलाल शाह एसीए 4, मल्हारोजोवादी, पोद्दार बिल्ड, IV प्लॉट दादी सेठ अश्वरी लेन, मुम्बई 400002	22/12/2003	357.	210164 श्री बाब्री प्रसाद थोटा एसीए एच नं. 12-1-130, पिन्नावारी स्ट्रीट, वारंगल 506002	22/12/2003
352.	201641 श्री बनी जोसेफ एसीए ऑफिसर, ट्रस्टेय बैंक एजी, 22 कोडक हाऊस, डी एन रोड, फोर्ट, मुम्बई 400001	22/12/2003	358.	401475 श्री गुनगुलिया सुनील कुमार एसीए ए 97 शास्त्री नगर, भीलवारा 311001	22/12/2003
353.	202139 श्री नागराजु पी एसीए चीफ मैनेजर, कैथोलिक साएरियन बैंक हैड ऑफिस, सेंट मैरीज कॉलेज रोड, त्रिस्तूर 680020	22/12/2003			

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

सं. 3 डब्ल्यूसीए(5)/2/2003-2004--इस संस्था की अधिसूचना सं. 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/2000-2001 ता. 15 जनवरी 2001, 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/2001-2002 ता. 7 जनवरी 2002, 3 डब्ल्यूसीए(4)/1/2002-2003 ता. 10 फरवरी 2003, 3 डब्ल्यूसीए(4) 3/2000-2001 ता. 31 मार्च 2001 के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
1	002917	श्री सोनी रमछोदलाल विट्ठलदास, 4, भारदीप, बदरीनाथ सोसाइटी, एलोरा पार्क, वडोदरा 390023	एफसीए 30/01/04	8	010812	श्री किनी अरविन्द पुन्नालिक एसीए 25 कथरादा मेनसन गोखले रोड नोर्थ, शिवाजी पार्क मुम्बई 400028	15/12/03
2	003712	श्री वागले मधुकर विनायक 4 इन्द्रादत्त, 8वां क्रॉस, धनुकर कॉलोनी, कोठरुड पुणे 411029	एसीए 05/06/03	9	013252	श्री अमित ए इसरानी 602 सिल्वर आर्च, लोखण्डवाला, अन्धेरी मुम्बई 400048	एफसीए 19/09/03
3	007174	श्री सुनील मनीलाल कोठारी 509, श्रीराम चैम्बर्स अर सी दत्त रोड, अल्कापुरी, वडोदरा 390007	एफसीए 27/03/03	10	013353	श्री निहाल चन्द कोठारी 32 वसुन्धरा बी देसाई रोड, मुम्बई 400026	एसीए 18/08/03
4	007789	श्री अमीताभ दत्ता 90 बी जतिन दास रोड कोलकाता-700071		11	013751	श्री रविन्द्र कुमार मानकड डि. जनरल मैनेजर प्रिंसीपल सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर एसपीबीटी कॉलेज, जेवीपीडी स्कीम, विले पार्ले, वैस्ट, मुम्बई 400056	एसीए 12/08/03
5	008834	श्री पटेल जितेन्द्र विट्ठलदास 601 जोली भवन नं. 2 51 न्यू मैराइन लाइन्स मुम्बई 400020	एफसीए 29/12/03	12	014036	श्री कपाडिया विरेन्द्र अजीत सिनहा 701/ए, अशोक नगर-बी बिल्डिंग नं. 2, वजीरा नाका, बोरीवाली (वेस्ट), मुम्बई-400091	एसीए 29/07/02
6	010236	श्री विश्वास मनोहर सोमन सी-11 सहकर निवास प्रो. अगासी रोड, दादर मुम्बई 400028	एसीए 14/07/03	13	014137	श्री वी. तिरुपति बी 601 हाईलैंड पार्क, शास्त्री नगर, मुलुण्ड कॉलोनी मुलुण्ड वैस्ट मुम्बई 400082	एफसीए 08/01/04
7	010474	श्री धनश्याम प्रसाद सुरेका 1104 अकाशदीप, 26-ए बाराखम्बा रोड नई दिल्ली-110 001	एफसीए 20/10/03				

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
14	014166	श्री मुरलीधर फतनदास हिंदूजा ए-14, आदित्या कॉम्पलैक्स सन्त कबीर स्कूल के सामने, ड्राईव-इन रोड अहमदाबाद 380054	एसीए 01/04/03	23	028493	श्री अजय शर्मा प्लॉट - 15, पब्लिक सेक्टर कॉलोनी, न्यू बौवनपल्ली सिकन्दराबाद 500011	एसीए 17/11/03
15	014330	श्री एन ए हरीहरन 26 तिरुमाला एन्क्लेव तिरुमल गेरी सिकन्दराबाद 500015	एसीए 04/11/03	24	029092	श्री प्रवीन शेनोय के आर्शीवाद, मातादकानी, 3रा क्रॉस, उरवा मैंगलौर 575006	एसीए 15/10/03
16	015789	श्री सुहस्रद द्वीजेन्द्र देसाई 11 पेरिचय पार्क, रजनीगंधा अपार्टमेंट के सामने, नजदीक जे.पी. रोड, पुलिस स्टेशन दिवालीपुरा, वड़ोदरा-15	एफसीए 02/12/03	25	029391	श्री बालाजी ए.एच. पी ओ 13094, दुबई दुबई 0	एसीए 23/04/03
17	016037	श्री नरेश रतान्ती दत्तानी 178-बी, मंगलदास मार्केट, बिल्डिंग नं. 3-सी, मुम्बई 400002	एफसीए 02/07/03	26	029399	श्री एस. सी. शेषाद्री टी-11, शेरा स्वयंवर 156, छुलाईमैदु हाई रोड चेन्नई 600094	एसीए 28/11/03
18	017668	श्री अरुणाचलम तेल्लीचेरी संकर 14, गोल्डन कोर्ट, 50 उन्ध रोड, पुणे 411020	एसीए 05/02/04	27	029819	श्री शिवकुमार आर 102, स्नेह रिजेन्सी, प्लॉट नं. 79, सेक्टर 29, वापी, नवी मुम्बई 400029	एसीए 23/04/03
19	017793	श्री पारिख किरितकुमार भोगीलाल, 601/18, पुलिस ऑफिसर्स सोसाइटी, फिशरिस यूनिवर्सिटी रोड, वरसोवा, अन्धेरी वेस्ट, मुम्बई-61	एफसीए 13/02/04	28	029876	श्रीमति वसन्ती जयारमन फ्लेट नं. 909, वृन्दावन 2बी, पुनम नगर, अन्धेरी (ई) मुम्बई 400093	एसीए 23/07/02
20	018209	श्री बालासुब्रमनयन एस डी-3, सै.-3, कोयला नगर, पी.ओ. बीसीसीएल टाउनशिप, धनबाद 826005	एफसीए 06/08/03	29	030153	श्री दीपक शिव शंकर त्रिवेदी 19/217, परिश्रम अपार्टमेंट, नजदीक जय शेफाली रॉ हाउस पी.ओ. पोलीटेक्नीक अहमदाबाद 380015	एफसीए 19/06/03
21	022407	श्री एम एस हरीहरन 509 अलशराफी सैन्टर, पी ओ बॉक्स 783, करमा, दुबई 0, यू ए इ	एसीए 22/03/04	30	030585	श्री कारवाल्हो फ्रांसिस्को एक्जेक्यूटिवर 1017 बीचनट रोड, ओकविले, ओन्टारियो एल 6जे 7पी4, कनाडा	एसीए 18/04/02
22	027046	श्री राजगोपालन एस हैड ऑफ फाइनेंसियल एकॉउन्ट्स, दुबई एल्युमीनियम कं. लि, पी ओ बॉक्स 3627, दुबई 00, यू ए ई	एसीए 11/06/02	31	030785	श्री दिनेश चन्द्रा उमया शंकर गोपियानी 2/ए, वृन्दावन, उमेदाश राम रोड, बोरीवली वेस्ट मुम्बई 400092	एफसीए 05/08/03
				32	031032	श्री ओम प्रकाश कारीवाला कमरानं. 24, बिल्डिंग नं. 47, डॉ. एम बी वालेकर स्ट्रीट, कालबादेवी रोड, मुम्बई 400092	एफसीए 24/07/02

क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
33 031040	श्री राजारमन स्वामीनाथन अय्यर मुंजा एण्डसंस लि. 63, विटोगो पेरेड, पी ओ बॉक्स 125, लाउटोका 0 फिजी आयलैण्ड	एफसीए 12/02/04	42 033209	श्री मेहरा सुनील कुमार हरबंसलाल, मार्फत एम एल पुरी एण्ड कं., 146 शेर-ए-पंजाब को 0 ऑप 0 हा 0 सो 0 अन्धेरी ई. मुम्बई 400093	एफसीए 22/03/04
34 031196	श्री कृष्णन वी 1, सैन्चुरी अपार्टमेंट्स मेस्टोम सागर रोड 5, हिमाचल मित्रा मण्डल के सामने, चैम्बूर, मुम्बई-89	एसीए 02/05/03	43 033233	श्री अजय मनोहर देशमुख 106 ब्ल्यू हेवन, रहेजा विहार, चान्दवली, पोवाई, मुम्बई 400072	एसीए 18/06/03
35 031443	श्री रोहितन नारीमन पटेल जी-11, प्रथम मंजिल, गोदरेज बाग, नापीयनसी रोड, मुम्बई 400036	एसीए 27/01/04	44 033340	श्री कर्वे अतुल गजानन 15 कांती बिल्डिंग, टी.एच. कटारिया मार्ग, मादुंगा रोड - वैस्ट, मुम्बई 400016	एसीए 09/03/04
36 031506	श्री कपाडिया किशोर साधवादास 26 देवोनशोर ड्राईव, क्लिफटोन एन जे, यू एस ए 07013 यू एस ए	एसीए 04/03/04	45 033576	श्री भंडारी प्रभु राम शारदा निवास, कोसी कंपाउंड, दिल्ली बजार, जीपीओ बॉक्स नं. 3423 काठमाण्डू, नेपाल	एसीए 25/05/02
37 031526	श्री गुप्ता अशोक कुमार 1 ए चिनार, ब्रिटानिया गार्डन्स, एयरपोर्ट रोड, बैंगलूर 560017	एसीए 06/10/03	46 033618	श्री आनंद वसन्त देशपांडे पंडित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मोदी लेन-3, सीताबुल्डी नागपुर 440012	एसीए 25/05/02
38 031575	श्री नायक अशोक दयाल 104 ए एम आई बिल्डिंग, अंक्शन 6वां और 7वां रोड, टी पी एस 3 गोलीबार पथ, सांताक्रुज ईस्ट, मुम्बई 400055	एफसीए 25/08/03	47 033746	श्री मनी एस नारायनन ए सी सी लि. सिमेन्ट मार्केटिंग डिवीजन 9 ब्राबोरने रोड कोलकाता 700001	एसीए 08/08/03
39 031940	श्री हमीद अब्दुल 1/4, वाली अपार्ट., कटोल रोड, छावनी नागपुर 440013	एसीए 24/06/02	48 033954	श्री कैलाश चन्द्रा महेश्वरी 12 निरन्त अपार्ट., 22 प्रितमनगर सोसाइटी, एलीजब्रिज अहमदाबाद 380006	एफसीए 23/01/04
40 032179	श्री बिमल पिताम्बर कपाडिया 6 मल्हारराव वादी, द्वितीय तल, डी ए लेन, कालबादेवी, मुम्बई 400002	एफसीए 26/08/03	49 033989	श्री मेहता दीपक कुमार मनहरलाल बी-18, शालीमार, एस बी रोड, अन्धेरी वैस्ट मुम्बई 400058	एसीए 11/07/03
41 033026	श्री शाह डी बी 607, विल्सन टावर, प्रोव धोद रोड, सुरत 350001	एफसीए 06/05/03	50 034077	श्री तारा चन्द्र जैन ए-25, नन्दनवन नं. 1, इसरो के पीछे, नजदीक प्रेरना तीर्थ 2, सेटेलाईट रोड, अहमदाबाद 380015	एफसीए 03/09/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
51	034225	श्री जयधतराव शिवाजी महीरे एसीए ए/303, सनराइज अपार्ट., फिशरीज यूनीवर्सिटी रोड, अराम नगर 2, वरसोवा मुम्बई 400061	01/08/03	60	035547	श्री केतन सूर्याकान्त त्रिवेदी एसीए ए/603, मधुविहार, एम जी क्रॉस रोड नं. 4, कांदीवली वैस्ट, मुम्बई 400067	14/01/04
52	034437	श्री संजय महादेव ककाती एफसीए 77ए/11, वृन्दावन सोसाइटी, माजीवादे थाने (वेस्ट) थाने-400601	01/04/03	61	035800	श्री दिलीपकुमार पोपटलाल शाह एफसीए 906 योगी टॉवर, योगीनगर, बोरीवली वैस्ट मुम्बई 400092	26/09/03
53	034560	श्री शिंदे अभीजीत वासुदेव एसीए 10 स्वीट रैन, इर्विन सीए 92614, इर्विन 0 यू एस ए	31/12/03	62	035863	श्री जैन सुधीर एसीए 134 सी लॉर्ड बी, 117 कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई 400005	08/08/02
54	034591	श्री मुलगंद प्रमोद नारायण, एसीए बी-3, एल एण्ड टी हाउसिंग कालोनी, गुजरात सिमेंट वर्क्स, कोवाया, राजुला 365560	15/03/04	63	035870	श्री ओबराय अमित एसीए कोका कोला इंडिया एनके टॉवर, उद्योग विहार-V गुडगांव 122106	04/04/03
55	034629	श्री भट्ट सुदर्शन राजेन्द्र एसीए सवालो ए-2, वैशख अपार्ट., रेवर्लास अस्पताल, के टी सी बस स्टैंड के पीछे, मेंडल, मार्गाव, गोआ 403601	04/08/03	64	035938	श्री अलमेदा डरयक एसीए इग्नात्यस, 22, डीमोंटे स्ट्रीट, ब्रान्द्रा मुम्बई 400050	03/04/03
56	034827	श्री सुरेश धन्नीभाई चौहान एसीए 196डी केवल क्रॉस लेन-7, विगास स्ट्रीट, मुम्बई 400002	28/11/03	65	035969	श्री राजीव जयंत श्राफ एसीए पी ओ बॉक्स 21768, शारजाह, शारजाह 0, यू ए इ	05/09/03
57	035111	श्री महेन्द्र कुमार अग्रवाल एफसीए 1 शारदा कंपाउंड नजदीक नारपोली पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट थाने भिवन्डी 421302	19/08/03	66	035981	श्री जगदीश गोविंदभाई राठोड़ एसीए रंछोद निवास, आगरा रोड, जिला थाना कलयाण 421301	13/08/03
58	035355	श्रीमति देशपांडे वैजयंती एफसीए नितिन जनरल मैनेजर (वित्त) जैनसर टेक्नोलॉजीस लि. पुणे नागर रोड, पुणे 411014	18/03/04	67	036029	श्री तन्हायालानुजेर अब्बास भाई एसीए साउदी अरेबियन माइनिंग कं. (मा'आदेन) पी ओ बॉक्स 68861, रियाद 11537, साउदी अरबीया	03/03/04
59	035529	श्री कनकिया किरित जेठालाल एसीए बी/6, शालीमार नवयुग नगर, एस बी रोड, दाहीसर ईस्ट मुम्बई 400068	27/11/03	68	036278	श्री प्रभु गणेश नरसिंह एसीए पितरू सूति, एल जे रोड, महिम, मुम्बई 400016	19/09/03
				69	036294	श्री दीपक शिवशंकर पाड्या एफसीए नार्ल्स सीएचएस लि. ए-11, 5वां तल, फ्लॉट 22, सेक्टर 14, वाशी नवी मुम्बई 400703	11/08/03

क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
70	036342 श्री मेहता अजय मनहरलाल एसीए 16 प्रेम मिलन, 87बी नेपियनसी रोड मुम्बई 400006	12/03/04	80	037250 श्री नितीन हरीश चन्द्र मेहताले एफसीए 114 भालचन्द्रा, पूजा पार्क, पौड रोड, कोथरुद, पुणे 411029	20/05/03
71	036370 श्री सतीश हरीबाउ मुसाले एसीए 3, राने बिल्डिंग, अदवेत कॉलोनी, कनारा कॉर्नर, नासिक 422005	05/06/03	81	037345 श्री मच्छर नरेन्द्र कांतीलाल एसीए 136, सदबरी हाइट्स एवेन्यू, ग्रीनफोर, यूबी 6 ओएलवाई, मिडलसेक्स, यूके	21/04/03
72	036421 श्री शर्मा राजेन्द्र प्रह्लाद एफसीए रॉयल गार्ड ऑफ ओमन पी ओ बॉक्स 759, पी सी 113, ओमन सलतनत ऑफ ओमन 0	07/07/03	82	037512 श्रीमति शाह सुजाता शेखर एसीए 33 अशोका अपार्टमेंट्स रंगरा लेन, ऑफ. नेपानसी रोड, मुम्बई 400006	09/02/04
73	036464 श्री परेरा लानल फेलिक्स एसीए डी 63, निर्वाण को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी, पिताम्बर लेन भागोजी कीर मार्ग, महिम मुम्बई 400016	21/07/03	83	037538 श्री मुछला अपूर्वा जसवंतला एसीए 111 नाथन ड्राईव, मोरगनविले, एन जे 07751 यूएसए	09/01/04
74	036510 श्री दुभाषी अजीत वसन्त एसीए चीफ फाइनेंसियल ऑफिसर जेंसर टेक्नोलोजीस लि. माईल पोस्ट नं. 4, नागर रोड, पुणे 411014	18/03/04	84	037570 श्री श्रीकांत रामचन्द्र कुलकर्णी एसीए 1314/3, विक्रम सदाशिव पेठ पुणे 411030	20/05/02
75	036640 श्री श्रीनिवासन सुब्रमनियन एसीए अय्यर इमको एलेकॉन (ई) लि., आनंद सोजितरा रोड, वल्लभ विद्यानगर 0	05/06/03	85	037610 श्री भयानी, विजय कुमार एफसीए बाटुकलाल 12 रूपल अपार्टमेंट, 42 गरोदिया नगर, घाटकोपर (ई) मुम्बई 400077	07/05/03
76	036649 श्री मखीजा सुनील हरीराम एसीए वर्षा कं. सर्विसेज 102 साई प्रसाद, 4था मार्ग, खार वेस्ट मुम्बई 400052	18/08/03	86	037833 श्रीमति सरसवध रामाकृष्णन एसीए सी/38 श्रीनगर, सीएचएस पी एल लोखण्डे मार्ग चैम्बर मुम्बई 400089	03/04/03
77	036652 श्री विक्रम मुल्जीभाई कटीरा एसीए 35/412, सहकार नगर-1, चैम्बर, मुम्बई 400071	02/07/02	87	037968 श्री पीरमोहमद रियाज हैदर एसीए एमीरात एयरलाईन्स पी ओ बॉक्स 686, दुबई दुबई 0, यूएई	18/06/03
78	036765 श्री अभयानंदरघु शेटी एसीए सनकिस्त, प्रथम रोड, टीपीएस 4, बांद्रा मुम्बई 400050	18/09/03	88	038296 श्री शाह पराग अरविन्द एफसीए 14 अनीक कोर्ट, 3रा तल, 211 शिवाजी पार्क रोड नं. 5 मुम्बई 400016	24/10/03
79	036894 श्री नवाब जुबेर कुरबानहुसेन एफसीए फाइनेंसियल कंट्रोलर टेक्निकल ट्रेडिंग कं. एल.एल.सी. पी ओ बॉक्स 1693, पी सी 112 रूवी 0, सलतनत ऑफ ओमान	28/01/04	89	038303 श्री सुब्रमनियन राजगोपाल एसीए भारत प्लैट 10, सैक्टर 14 प्लॉट 40, याशी नवी मुम्बई 400705	19/08/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
92	038502	श्री सुनील जवाहरलाल आहूजा एफसीए बी-10-6, प्रथम तल 1, 2 सैक्टर 15, वापी नवी मुम्बई 400703	02/12/03	100	039829	श्री ठाकुर मिलिन दिलीप एसीए ए/3, ई ईश्वरदास मैशन, नाना चौक मुम्बई 400007	04/04/03
93	038881	श्री कमलेश कुमार एफसीए बालगोविंददास लक्कड़वाला 829 मानसफिल्ड सी.टी. स्कैमवर्ग आई एल 60194, यू एस ए	11/12/03	101	039885	श्री कपूर अशोक ओमकर राज एसीए सैबुल हाउस, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400099	18/07/02
94	038940	श्री साथे निखिल सत्यारंजन एसीए 3414 स्पारी टेरेस मिसीसाउग, ओनटारो, कनाडा एल 5 एन 7 एन 4 मिसीसाउगा 0 केनेडा	23/09/03	102	040182	श्री कैरंजन कुमार सुबुधी एफसीए 301 स्नेह रिजेंसी, प्लॉट नं. 79, सैक्टर 29, वापी, नवी मुम्बई 400703	20/11/03
95	039052	श्रीमति मीना प्रकाश पटवर्धन एसीए 303 अक्षय गार्डन, आनंद नगर, पुणे सिंधद रोड पुणे 411051	27/10/03	103	040269	कुमारी श्रॉफ निलोफर खुशरू एसीए 8, हाईगेट लेन, चैरी हिल, एन जे 08003 यू एस ए	29/10/03
96	039145	श्री रामचन्द्रन ए एसीए ए 604, जिवाभाई टावर, लाड सोसाइटी रोड, वस्त्रापुर अहमदाबाद 380015	18/03/04	104	040294	श्री वेंकट रघुनाथ चारी एसीए 8 यशमंगल अपार्टमेंट नजदीक प्रीतनगर अरुणादा, पालदी, अहमदाबाद 380007	01/08/03
97	039252	श्री विपुल शामजी सेठिया एसीए नित्यानंद सोसाइटी नं. 1 कमरा नं. 27, प्रथम तल, नजदीक फ्लाईओवर ब्रिज, अन्धेरी (ईस्ट), मुम्बई 400069	08/07/03	105	040374	श्री रविकान्त राठी एसीए कृष्णा डी विंग कमरा नं. 2, वसंत सागर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर गांव, कांदीवली (ई) मुम्बई 400101	08/12/03
98	039370	श्री राजेन्द्र टी. शाह एसीए एन. 60, ए पी एम सी मार्केट-I, फेज-11, वापी नवी मुम्बई 400703	18/04/02	106	040437	श्री पारेख नितिन कुमार एसीए दलसुखराय आशीमा हाउस, एलीस ब्रिज अहमदाबाद 380006	22/08/03
99	039502	श्री पुजारा नरेन्द्र मंसुखलाल एसीए 805, चिनमय अपार्टमेंट भुलका भवन के पीछे, आनंद महल रोड अदाजन, सुरत 390005	18/06/02	107	040462	श्री किनी सुजीत एफसीए माधव निवास, 68, शिवाजी पार्क मुम्बई 400028	22/04/03
98	039535	श्री एस चन्द्रसेकरन एफसीए मार्फत एन टी पी सी समरुद्धी वेंचर पार्क, दूसरा तल, एम आई डी सी सेंट्रल रोड मारोल, अन्धेरी (ई), मुम्बई	17/10/03	108	040581	श्री मारुखेतशी उमेरशी एसीए 504 हरी अपार्टमेंट एल.टी. रोड एक्स. मुलुण्ड (ई) मुम्बई 400026	23/12/03
99	039684	श्री शेटी संतोश देजु एसीए ए-503 ऐश्वर्य अपार्टमेंट, यशवंत लावडे रोड, दाहीरार (वैस्ट), मुम्बई 0	24/09/03	109	040609	कुमारी बीना सुचेत पाधे एफसीए 11 सोनारिका, पेदादर रोड मुम्बई 400026	13/05/03

क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
110 040982	श्री सुब्रमनियन वेंकटकृष्णन बैंक मसक्रेट साओग, रिटेल क्रेडिट, पी ओ बॉक्स 134, रूवी, 112 सल्लनत ऑफ ओमान 0	एसीए 04/08/03	120 042043	श्री शिवाजी कालू चन्द पी ओ फुरसंगी (तारवादी), ताललुक हवेली जिला पुणे पुणे 412308	एफसीए 22/01/04
111 041149	श्री संघवी जयेश चंदुलाल पी ओ बॉक्स 73173, नदोला, नदोला 0 जांबिया	एसीए 12/06/02	121 042044	श्री जोशी विरेन्द्र महेन्द्र भोजसन्स एण्ड कं. एनआई जी पीएलसी 29सी, कोफो अबायोमी स्ट्रीट, विक्टोरिया आयरलैंड, लागोस, नाइजीरिया	एसीए 28/07/03
112 041164	श्री ताहिलानी अनिल कुमार शेवारा 85 सिंधुवादी, घाटकोपर मुम्बई 400077	एसीए 17/04/03	122 042090	श्री सेविया सेबेसतियन गोम्स गीतांजली विल्डिंग फ्लैट नं. 3234 एएसवी रोड, बांद्रा वेस्ट मुम्बई 400050	एफसीए 04/02/04
113 041166	कुमारी मालधी आर कमरा नं. 329, जीजीओ कॉम्प्लेक्स, एम के मार्ग मुम्बई 0	एसीए 04/12/03	123 042135	श्री शर्मा संजय रामगोपाल 14/36 नवजीवन सोसाइटी, लैमिंगटन रोड मुम्बई 400008	एसीए 19/04/02
114 041467	श्री जयन्तीलाल रामजी छेदा 3/जे लीलाधर रतनसिन विल्डिंग, 13 लक्ष्मी नारायण लेन, मटुंगा, मुम्बई 400019	एसीए 25/07/03	124 042205	श्रीमति संगीता सुंदरलाल 41ए ओल्ड नागरदास रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई 400069	एसीए 23/09/03
115 041528	श्री दुगर चैनरूप सूरजमल आदित्या को-हा. सोसाइटी लि डी/2/28, एमएचबी कॉलोनी, जे वी पी डी स्कीम, अन्धेरी (वेस्ट), मुम्बई-49	एसीए 08/12/03	125 042334	श्रीमति चोपड़ा पुनीता फकीरचन्द 25 अशोक अपार्टमेंट गांधी ग्राम रोड, जुहू मुम्बई 400049	एसीए 03/07/03
116 041648	कुमारी शेटी नयन मनोहर 6/26 वीनस अपार्ट वरली सी फेस मुम्बई 400018	एसीए 28/08/03	126 042453	श्री हरीन्द्रन प्रभाकरन सरिसिलम राजकीय उच्चतर विद्यालय के पीछे जिला कन्नूर कलियासेरी 670562 केरल	एफसीए 05/01/04
117 041706	श्री चौधरी अभीजीत अनिल दत्ता 601, ओम चैतन्या 26 पोपको, यारी रोड वरसोवा, मुम्बई 400061	एसीए 05/09/03	127 042483	श्री वासवानी दीपू सी एफ 302, समीर, 7 बंगला वागवानी मार्ग अन्धेरी, मुम्बई 400053	एफसीए 08/10/03
118 041726	श्री हरीहरन विजय कुमार ए/7 कशेमा, दूसरा तल टी पी एस 6, 5वां रोड, सांताक्रुज (वेस्ट), मुम्बई 400054	एसीए 17/02/04	128 42618	श्री अय्यर श्रीराम कृष्णन 2002 ओडिसी-II, हीरानंदानी गार्डस, पोवाई मुम्बई 400076	एसीए 22/10/03
119 041945	कुमार अय्यर प्रेमा वेंकटेशवरन नं. 2, वेंकटेशवरा, 16वां रोड, चैम्बर मुम्बई 400071	एसीए 09/04/03	129 042706	श्री दादाचानजी रोहिंटन बर्जर सेठ नुसेरवाजी टाटा विल्डिंग फ्लैट नं. 4, प्रथम तल, टाटा ब्लॉक कंपाउंड, मुम्बई 400050	एसीए 04/12/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
130	042878	श्रीमति इनामदार तब्बसुम अब्दुल्ला 401/402, स्वीट होम, वैशाली नगर, एसवी रोड, जोगेशवरी (वैस्ट), मुम्बई 400102	एसीए 30/06/03	139	043675	श्री मलिक सुचेत विरजिलाल एसीए 11 मुलकराई इरईव चेलसिया, वीआईसी 3196, मेलबर्न 3196 आस्ट्रेलिया	24/02/04
131	042884	श्री पटेल स्नेहाल महावीर 2/17, जुहु विशाल नोर्थ साउथ एक्स., रोड नं. 5, जे वी पी डी एस मुम्बई 400049	एसीए 08/12/03	140	043699	श्री शिरूरकर विजय रामचन्द्र एसीए 3/3, एमएसडब्ल्यू ऑफिसर्स क्वार्टर्स, फर्स्ट रोड, टी पी एस 6, नजदीक मिलन सबवे सांताक्रुज (वैस्ट), मुम्बई-400054	03/04/03
132	042892	श्री हितेश कुमार किशोरभाई जोशी ए/2, ग्रीन पार्क, ओल्ड नागरदास रोड, अन्धेरी (ई), मुम्बई 400069	एफसीए 08/12/03	141	043744	श्री मुरलीधरन एम.एस. प्रथम तल, आशीका चैम्बर्स 22 चैम्बर्स रोड, टेपनमपेट चेन्नई 600018	25/02/04
133	042969	श्री डिम्पल किरितकुमार मानकीवाला ए/14, देव दर्शन बिल्डिंग, मानेक बाग हॉल के सामने, अम्बावाडी अहमदाबाद 380015	एसीए 25/04/03	142	043927	श्री पुस्तफा युसुफ अली असीवाला एसीए मार्फत टी एम मुल्लाजी एण्ड कं. 92 सारंग स्ट्रीट मुम्बई 400013	20/01/04
134	042997	श्री संचेती शैलेन्द्र सराफोन की पोल, सराफा बाजार जोधपुर 342001	एसीए 01/07/03	143	043983	श्री गुप्ता गीता गयाप्रसाद 239, शिवाजी नगर, एन.एम. जोशी मार्ग मुम्बई 400013	03/04/03
135	043013	श्री वैद्य विपुल भरत कुमार सफायर, तृतीय तल, आजाद रोड एक्स अन्धेरी (ई) मुम्बई 400069	एसीए 10/07/03	144	043997	श्री ओबराय असित फाइनेंसियल कंट्रोलर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तीसरा तल, 23-25 एम जी रोड, मुम्बई 400001	03/04/03
136	043619	श्रीमति मुजावर सुनीला काशीनाथ टेक्स एकाउंटिंग पी ओ बॉक्स 3098, दुबई, यू.एई 0	एसीए 12/08/03	145	044056	श्री अमोल जनार्दन राउत निरमिति तियाली वादी, एस.टी. डिपो के सामने, वसाई वसाई 401201	18/12/03
137	043648	श्री पारिखी विनायक प्रभाकर 9, दीप दर्शन सोसाइटी शिवाजी रोड, कांदीवली वैस्ट मुम्बई 400067	एसीए 22/05/03	146	044063	श्रीमति महालक्ष्मी राजन मुदलियर ए/405, रेडवुड्स, वसंत नगर, नजदीक स्वपना नागरी, आफ एल बी एस मार्ग, मुलुण्ड वैस्ट, मुम्बई 400080	26/09/03
138	043668	श्री दैरकी अब्बास अली आबु धाबी इन्वेस्टमेंट कं. पी ओ बॉक्स 46309 आबु धाबी 0, यू.एई	एसीए 03/07/03	147	044132	श्री संजय कुमार किरनचन्द्र शाह एफसीए संजय शाह एण्ड एसो. फ्लैट नं. 412, तल-4, एश कोर्ट बिल्डिंग, परमार पार्क, वनोरी पुणे 411040	12/08/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
148	044195	श्रीमति दाते वैशाली सतीश डी-20, लोकसंगम विहार नजदीक स्वर्णापुर, उध पुणे 411007	एसीए 26/12/03	158	045051	श्री संगम भारती प्रीमियर, प्राइवेट बैग - रुइरू रुइरू 0 कीनिया	एसीए 27/11/03
149	044220	श्री फ्रांसिस जेवियर डिसिल्वा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (ऑडिट डिपार्टमेंट), 65, मार्टिन प्लेस, सिडनी 2000 ऑस्ट्रेलिया	एसीए 31/03/03	159	045058	श्री राहुल कुमार इंदुलाल शाह 204 आनंग एवेन्यु डॉक्टर हाउस के पीछे, एलीसब्रिज अहमदाबाद 380006	एसीए 05/11/03
150	044244	श्री कामत नितिन नरसिंहा बी-24, पार्वती अपार्टमेंट पाटिलसादी चंदनवाडी पंचपाखादी, थाने (वैस्ट) थाने 400602	एसीए 04/04/03	160	045455	श्री नाहर राकेश 601 5ए डीए श्रद्धा कॉम्प्लेक्स आशा नगर, कांदीवली ई. मुम्बई 400101	एसीए 31/07/03
151	044441	श्री राकेश गुप्ता 8, राजमहल सोसाइटी द्वितीय तल, एम बी रोड अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई 400069	एसीए 08/05/03	161	045852	श्री अशोक महादेवन 401 अंजलि, अम्बिका नगर एम जी रोड, डोम्बीवली (वैस्ट), जिला थाना डोम्बीवली 421202	एसीए 11/06/03
152	044545	श्री जय प्रकाश शर्मा ए-702 राहुल क्लासिक साई बाबा नगर, बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई 400092	एफसीए 19/05/03	162	045931	श्री अनिल गोपालदास भट्टर ए-301 अमर अपार्टमेंट ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदीवली (ईस्ट) मुम्बई 400101	एफसीए 17/10/03
153	044584	श्री पवन कुमार लालपुरिया ए-835, इन्द्रा विहार कोटा 324005	एफसीए 05/09/03	163	046167	श्री राजेश श्रीपद फांसे सी/5, भाटिया बिल्डिंग, लेफ्टिनेंट दिलीप गुप्ता रोड, महिम मुम्बई 400016	एसीए 17/07/03
154	044626	श्री सुनील चुनीलाल किनवासरा 1002-45, किंग्सब्रिज गार्डन सर्कल, ऑन एल 5 आर 3 के 4, मिसिसाउगा 411001 कनाडा	एफसीए 05/11/03	164	046209	श्री डिसुजा नोरमन स्टेनले 401 बालाजी निवास, साई सरोवर होटल के ऊपर, तलाव पाली क्रास रोड, चराई थाने 400601	एसीए 10/10/03
155	044682	श्रीमति मनीशा रतनाकर अठाल्ये 136, बोइलस्टोन स्ट्रीट शरेस्वरी, एमए 01545 यू एस ए 0, यू एस ए	एसीए 13/11/03	165	046430	श्री दीपक शांतिलाल लुनावत 38/बी इरांडवाना चंद्रादीप बंगला, कमला मेहता पार्क, दत्ता मंदिर पुणे 411004	एसीए 21/02/04
156	044701	श्री जोस के पी ओ बॉक्स 1620 दुबई, यूएई 0 यूएई	एसीए 07/04/03	166	046577	श्रीमति करुणा सरजू सिमरिया मार्फत सुहास काकोदर, 10/ए लड्डा हाउस पेपर मिल लेन, बी पी रोड मुम्बई 400004	एसीए 12/09/03
157	044781	श्री बहेती ओंकरमल रामविलासजी बी-303, मंगलश्री अपार्टमेंट जेम्स फार्म, तिलकनगर इंदोर 0	एफसीए 21/04/03				

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
167	046659	श्री विश्वनाथ प्रसाद नारायणास्वामी 2/93 अराधना, संतोषाई स्कूल के सामने बदायूँ मुम्बई 400031	एसीए 29/04/03	176	048234	श्री जैन अजीतकुमार रमेशचंद्र एसीए 70 धनलक्ष्मी सोसाइटी सीएमसी लि. के सामने, 05 घंटा रोड अहमदाबाद 382415	12/08/03
168	046759	श्री सतीश शेटी 005 ए-4 सचिन अपार्टमेंट, कृष्णा नगर सेक्टर 20, चिकली रोड, चिंचवाड पुणे 411019	एसीए	177	048248	श्री शाह अमित गुणवंतभाई एसीए 24, टैगोर नगर सोसाइटी, ओल्ड भादरा रोड बडोदरा 390015	12/11/03
169	046942	श्री पाटिल उमेश दत्तातरे एसीए पी/10 मित्रा-धाम सोसाइटी जे बी मार्ग, पारेल मुम्बई 400012	16/07/03	178	048464	श्री जी वंकटेश बाबू एसीए फाइनैस डायरेक्टर, अबन पावर कं. लि. नं. 25 जी एन चेटी रोड, टी नगर, चेन्नई 600017	15/11/03
170	047378	श्री पराग किरितकुमार शाह एसीए फ्लैक नं. 8, पार्वतीकुंज, रोड नं. 3, दौलत नगर, कोरोडली (ई) मुम्बई-400066	06/01/04	179	048491	श्री मोरायला करीम एसीए मोहम्मद हुसैन ओमि विला, अमली फली आ, बोहारबाद गोधरा 389001	04/08/03
171	047477	श्री अश्वाल राज कुमार एसीए बी-101 उनेन बिल्डिंग नवरोड रोडल गोकुल आनंद, रुक्मिणी नगर डब्ल्यू ई हाउस, दहिसर (ईस्ट), मुम्बई-68	01/12/03	180	048546	श्री पंजावनी दिनेश किशन एसीए 06/10 अविका सोसाइटी, महादा, फोर बंगला, अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई 400053	28/05/03
172	047609	कुमारी चक्रवर्ती अरपिता एसीए 301 अदमिरालती मनोर, 13वां क्रॉस, छठा मैन, इंदिरानगर 2 स्टेज बंगलौर 560038	25/08/03	181	048618	श्री जयाराम जी शेटी एसीए 32, तुलसी तल, 14/16 भंडारी क्रॉस लेन जाजिकर स्ट्रीट, मांडवी मुम्बई 400003	15/02/03
173	047644	श्री चुनारा फिरोजवरकतअली एसीए ए-73, सेक्टर 3, सुप्री, अश्लेषा, मीरा रोड (ईस्ट), लिल्ल बाने थाने 401107	25/08/03	182	048642	श्री मलघानी राजेश एसीए ए-1102 भगनारी सीएचएस एन एस, माणिकर मार्ग, चुनाभट्टी, सिओन (ई) मुम्बई 400022	01/07/03
174	047920	श्रीमति जय सुनील कुमारी एसीए 56 ए-1 अपार्टमेंट 270 बालकेशवन रोड मुम्बई 400006	24/11/03	183	048826	श्री लक्ष्मीनारायण एसीए कृष्णाधरी पुरोहित 20 एलआईसी कॉलोनी, तीसरा क्रॉस, बीमाज्योति, वसावेशवरनगर बंगलौर 560049	31/12/03
175	047990	श्री विजय शंकर कृष्णामूर्ति एसीए गारगोलिन वाइनर एण्ड ड्रिन्स एलएलपी, 400 गार्डन सिटी प्लाजा, गार्डन सिटी न्यू योर्क एनवाई 11530, यूएसए	12/09/03	184	048860	श्री दिनेश शंकरलाल हेदा एसीए मकान नं. 36, रंघवी एस्टेट, बोगमालो रोड, इसोजचिम गांव, डबोलिम गोआ 403801	16/10/03

क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	दिनांक	क्रमांक	एम.आर.	सदस्य का नाम	दिनांक
एन. नं.	व पता			एन. नं.	व पता		
185	048962	श्री अद्वैत सुहास रविन्द्रा सी-3, हिल टोप सीएचएस, पंचपाखड़ी धाने 2	एसीए 11/12/03	195	050269	श्री कुलदीप कुमार चड्ढा 101-बी सेंट्रल पार्क, 15/सी डॉ. अम्बेडकर रोड पुणे 411001	एसीए 03/03/04
186	049112	श्री वैकुण्ठरावण जानकीराम 1/20 गोल्डन वैली बिल्डिंग सांसाक्रुज (ई), कलीना मुम्बई 400098	एसीए 08/01/04	196	053863	श्री मनोज कुमार सोनी गल्फ बैंक, पी ओ बॉक्स 3200 सफत 13032, कुवैत	एसीए 12/08/03
187	049458	श्री नर्म रितेश योगेश चन्द्र 712-713 तुलसियानी चैम्बर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई 400021	एसीए 20/01/04	197	053966	श्री हरी मेनन ईशा कृपा, पूनीदुरा पी ओ कोचिन 682038	एसीए 28/04/03
188	049514	श्री मंत्री अनुराग मार्फत श्री ओ पी मंत्री बैंक ऑफ राजस्थान के ऊपर, रामपुरा कोटा 0	एसीए 19/05/03	198	055233	श्री महेंद्र कुमार जाजू मार्फत एबीएन एमरो सिक्वोरिटी (इ.) प्रा. लि. 81, सखर भवन, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई	एसीए 30/04/03
189	049608	श्री नारायण रामालिंगम हिन्दुस्तान लीवर लि. 4 डब्ल्यू डब्ल्यू, 165/166 के.ए.ए. कलेक्शन, चर्च गेट मुम्बई 400020	एसीए 29/08/03	199	055647	श्री शांतनु घोष जी ई इंडिया लि. एफकस बिल्डिंग, तीसरा तल 1 रफी मार्ग नई दिल्ली 110001	एसीए 07/10/03
190	049700	श्री हरजोती लाल मोहनदास 17/26 एम्स रोड ईस्ट हाईव, मेरीलैंड हाईवे, एम्स रोड 63043 यू.एस.ए.	एसीए 09/04/03	200	055973	श्री श्रीनिवासन एन फ्लैट 20/21 बी विंग साई मिलाप चैम्बर्स, सिबा रोड, गोरेगाव (ई) मुम्बई 400063	एसीए 01/12/03
191	049750	श्रीमति विष्णुति रविशंकर 1102-बी, गुलमोहर अपार्टमेंट मिजर रोड, अम्बोली, अम्बोली (ई) मुम्बई 400058	एसीए 28/08/03	201	058058	श्री कुण्डु संदीप 3ए 1702 विसपरिंग पाप लोखण्डवाला कॉम्प्लेक्स, अदूरली रोड, कांदीवली (ई) मुम्बई 400101	एसीए 07/11/03
192	049874	श्री ठडानी राजीव आनंद 501-ए फातीमा विला, 29वां रोड, बांद्रा (डब्ल्यू) मुम्बई 400050	एसीए 08/01/04	202	059419	श्री राठी पंकज कुमार डी/601 गायत्री एवेन्यू नजदीक संस्कृति, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदीवली (ई) मुम्बई 400101	एसीए 14/08/03
193	049965	श्री आनंद एस आर एस एम एण्ड कं. 109-112 डालामल टावर, नारीमन प्वाइंट मुम्बई 400021	एसीए 11/04/03	203	059584	श्री पाठक वंकर मार्फत ए ए साल्वी, शांति निकेतन विंग 13 बी 1, फ्लैट नं. 401, तृतीय तल, एल एम रोड, दहीसर (वैस्ट), मुम्बई-68	एसीए 02/05/03
194	049969	श्रीमति रोशनी बारबोजा मार्फत श्री ए जी हतकार 9 पशवंत चैम्बर्स, जी बी रोड, चराई, धाने 400601	एसीए 09/12/03	204	070104	श्री रघु नंदन गुप्ता ए-101 गगनगिरी अपार्टमेंट, सेक्टर 17, प्लाट नं. 47, वापी नवी मुम्बई 400705	एसीए 29/12/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
205	072214	श्री बाफना संजीव 91 सखर भवन, नारीमन प्वाइंट मुम्बई 400021	एसीए 28/04/03	215	100037	श्री भालवल रविन्द्र रोशनलाल एसीए 191 शेरबोन स्ट्रीट एपीटी 505, ओनटारियो, टोरोंटो एम5ए3एक्स1 कनाडा	09/12/03
206	073674	श्री दिनेश कुमार मंत्री डी-1 एयजैडल कॉलोनी हिंदुस्तान जिक लि. देबारी, राजस्थान 313024	एफसीए 28/10/03	216	100541	श्री राजे अश्विन कुमार गजानन एसीए 202 अनंत ए, भक्ति कॉम्प. 120 लिंग रोड, कंडर पाडा, दहीसर (वैस्ट) मुम्बई 400068	19/11/03
207	074512	श्री मनीषी एफएफ4 ब्लॉक, 1 हॉलमार्क अपार्टमेंट, पारसन नेस्ले, नंजुनपुरम, कोयम्बतूर 641036	एसीए 21/05/03	217	100566	श्रीमति शिल्पा पाठक एफसीए सी/201 अग्रवाल अपार्टमेंट नजदीक आनंदनगर 4 रास्ता, सेटेलाईट, अहमदाबाद 380015	27/02/04
208	074884	श्री संजीव खंडेलवाल 3976 वैचर ड्राईव, अरोरा इलीनोइस 60504 यू एस ए	एसीए 14/07/03	218	100672	श्री जुगल किशोर मंत्री एसीए ए-13 मीरा, सैक्टर 3, सृष्टि कॉम्पलेक्स, मीरा रोड 401107	12/05/03
209	075729	श्री विकास अग्रवाल मार्फत मैसूर ब्रेवरीज लि इडलाहाली कैप रोड, यशवंतपुर, बेंगलूर 0	एसीए 19/06/03	219	100721	श्री हेमंत प्रेमजी शाह एसीए 407 अपोलो कॉम्पलेक्स आर के सिंह मार्ग, आफ पारसी पंचायत रोड, अन्धेरी (ई), मुम्बई 400069	24/03/04
210	078623	श्री कृष्ण कुमार गर्ग एसीए 29 स्टेशन रोड, नीमच मध्य प्रदेश	03/04/03	220	100927	श्री श्रीनिवासन आनंद जी एसीए 317 लिंक्स बिजनेस सेंटर, लक्ष्मी नगर नागपुर 440022	01/04/03
211	078714	श्री अरविंद अग्रवाल एसीए कोरपोरेट फाइनेंस मैनेजर बी. जी. ब्राडबैंक ई प्रा 0 लि 0 2 व 3 तल, इक्वारा सेंटर, अदाजन हजीरा रोड, अदाजन सूरत 395009	16/04/03	221	101196	श्रीमति कोमल महेन्द्र एसीए महागांवकर 9 महाजन वादी, 44 एलफिस्तान रोड मुम्बई 400013	26/06/03
212	079143	श्री आशीश माधुर एसीए बीपीएल सेंटर, 127 मनमाला टैंक रोड टैकलवाडी, महिम (वैस्ट) मुम्बई 400016	19/08/03	222	101434	श्री महेश एस कारकी एसीए मकान नं. 628 महारल पाडा पी ओ वराप, कल्याण मुराद रोड कल्याण 421301	12/01/04
213	089494	श्रीमति शालीनी बी मनगला एसीए 5622/ए, हलवाई बाजार अम्बाला कैंट अम्बाला 0	01/04/03	223	101437	श्री वैद्यनिर्भय अभेय एसीए डी 101 सीता विहार, नजदीक दमानी एस्टेट, नौपाडा थाने 400602	09/05/03
214	097682	श्रीमति एस सौम्या एसीए 5 बहार उत्तम को-ओ हाउसिंग सोसाइटी, सेंट एटोनी रोड, चैम्बूर मुम्बई 400071	12/01/04	224	101449	श्री दुबे प्रमोद कुमार एसीए सी-305 कृष्णा वसंत सागर ठाकुर गांव, कांदीवली (वैस्ट), मुम्बई 400101	21/05/03

क्रमांक ए.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
225 101559	श्री मरुगेन हरीदरानाथ त्रिवेदी एफसीए 604/5 सागर संगीत ए बी, नायर रोड, जुहु मुम्बई 400049	21/05/03	235 102793	श्रीमति नानल तेजा श्री सुमंत एसीए फ्लैट नं. 13 मालक्रोन्स सीएचएस गुजरात मण्डल रोड, विले पार्ले (ईस्ट) मुम्बई 400057	20/10/03
226 101685	श्री रवि गुप्ता एसीए 109 ए विंग, रिजवी चैम्बर हिल रोड, बान्द्रा (वैस्ट) मुम्बई 400050	12/01/04	236 102833	श्री कुमार हर्षद सेठ एसीए 357/ई वार्ड शाहुपुरी, स्टेशन रोड कोल्हापुर 416001	23/10/03
227 101785	श्रीमति मोनिका निर्भय वैद्य एसीए डी 101 सीता विहार, धाने (वैस्ट) धाने 400602	12/01/04	237 102881	श्रीमति ठाटे अर्चना अरुण एसीए 250/बी सतीश धाम, फ्लैट नं. 3, शनिवार पेठ पुणे 411030	22/07/03
228 102078	श्री पवार संजय देवीदास एसीए 39 मेटलॉक रोड बिरमिंगम बी 113 जेए यूनाटेड किंगडम	14/01/04	238 103065	श्री रघुराम आर एसीए डिप्टी मैनेजर - फाइनंस टाटा टी लि. मेस रोड, यशवंतपुर बंगलूर 0	20/11/03
229 102146	श्री कनाडे समीत सुरेन्द्र एसीए सीएसए ग्रुप, 178 रेक्सडेल बोलवार्ड, टोरोंटो, ओनटारियो, टोरोंटो एम9 डब्ल्यू आईआर 3, कनाडा	05/06/03	239 103520	श्री भाग चन्द बासेर एसीए 108-ए म्यूनिसिपल शॉपिंग सैंटर, सहारा दरवाजा, रिंग रोड सूरत	23/05/03
230 102178	श्रीमति तेजल भाविक भगत एसीए 701 एस्टर अपार्टमेंट राम मंदिर रोड, वजीरा, नाका बोरीवली (वैस्ट) मुम्बई 400092	16/02/04	240 103628	श्री सुरेश कुमार चौधरी एसीए यूनीलीवर गल्फ एफ जैड इ, लोब-8, जैबल अली, पी ओ बॉक्स 17055 दुबई, यूएई	25/11/03
231 102320	श्री खादु राजेन्द्र सदानंद एसीए 3/8/एफ, कामत चाल, कमरा नं. 44, ठाकुरद्वार मुम्बई 400002	16/04/03	241 103661	श्री पलक के गांधी एसीए ई-53, सचिन टावर, श्यामल रन हाउस के पीछे 3, सैटेलाइट अहमदाबाद 380015	19/05/03
232 102338	श्री जाखोरिया धमेन्द्र एसीए 304 श्रीनाथ धाम, आर एन पी पार्क, भयानदर (ई) भयानदर 401105	11/03/04	242 104030	श्री अम्बाखुटवाला नइम नूरुद्दीन एसीए 143/145, सारंग स्ट्रीट शफाना मंजिल, चौथा तल मुम्बई 400003	08/04/03
233 102542	श्री वैद्य सलिल सुधीर एसीए वैद्य हाउस, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नौपाडा धाने 400602	18/07/03	243 104268	श्री उपाध्याय राजेश देवेन्द्र भाई एसीए मार्फत आरके प्लास्टिक्स बॉक्स 30410 चिचिरी, ब्रानदायर, मलावी 0 सैंट्रल अफ्रीका	02/01/04
234 102618	श्री नवीन कुंडोमल देवजानी एसीए फ्लैट नं. 706 सिल्वर आर्च शास्त्री नगर, अंधेरी (वैस्ट) मुम्बई 400053	04/07/03	244 104340	श्री अशोक कुमार नाहर एसीए 86 जे/सैक्टर 12, आरपीएल ग्रीन्स, गांव मोतीखवदी जाम नगर 361140	12/08/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
245	104403	श्री डोकानिया गौरव श्यामसुन्दर एसीए 63, ममता एविंग ए मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई 400025	30/10/03	254	105704	श्री हर्षद प्रकाश कुलकर्णी 701 कर्मा क्षेत्र, नजदीक नौपाडा पुलिस स्टेशन प्रशांत नगर याने 400602	27/06/03
246	104412	श्रीमति स्मिता दमाराजु एसीए फ्लैट 2/4 जी 27, पंचज्योत को-ओ सोसाईटी सेक्टर 29, वाशी नवी मुम्बई 400705	30/09/03	255	105715	श्री संदीप दिलीप भाट्ट 7 आशीश पार्क, भाईकाका नगर, तालतेज अहमदाबाद 380059	07/04/03
247	104447	श्री एन वकटेशवर राव एसीए अ 0 मैनेजर फा 0 एंड एक 0 हिन्दुस्तान पोलीमाइड्स एण्ड फाइबर्स लि. मार्फत बाम्बे आयल इंडिया लि 0 एलबीएस मार्ग भानदुप मुम्बई 400078	09/09/03	256	106257	श्री मृणाल मनोज घोष 71 आचार्य नगर, अमर सिनेमा के सामने, देउतोनार, मुम्बई 400088	22/03/04
248	104609	श्री आलोक गुप्ता एसीए ब्लॉक ए/210 लेक टाउन कोलकाता 0	12/06/03	257	106346	श्री जयप्रकाश यतीराज सोनी 0 मार्फत सोनी वाई जे, गीतांजलि, सुभाष चौक, पोस्ट अहमदपुर, जिला लातूर लातूर 413515	30/6/03
249	104695	श्री चेतन सूर्याकांत कनसारा एसीए सेक्टर 7, बी-24, 401 शांतिनगर, मीरा रोड (ईस्ट) जिला थाना 401107	06/05/03	258	106415	श्री सतीशवर बालाकृष्णन जी 1 ए-23, हैपी वेली होम्स थिअलसर, मानपाडा थाने 400607	10/10/03
250	104751	श्री राम सिंह श्रीपाल सिंह एसीए खुशवाहा शंकर कॉलोनी, 1/5 काला तलाव जिला थाने कल्याण 421301	24/04/03	259	106546	श्रीमति विजय वर्धन एसीए फ्लैट नं. 10, राधेश्याम सीएचएस सेक्टर 14, वाशी नवी मुम्बई 400703	11/09/03
251	105266	श्री विनोद कुमार पिट्टी एसीए ई 301, मंदाकिनी, शिव वल्लभ क्रास रोड, रावलपाडा, दहीसर ई, मुम्बई 400068	18/06/03	260	106637	श्री विवेक जयंत भाटिया 74 ए विष्णु बाग, 13/7 एस वी रोड, अ न्धेरी (वैस्ट) मुम्बई 400058	01/08/03
252	105523	श्री महेश कुमार चौधरी एसीए 301 मेगनम एविंग, वसंत मेनुअल वेस्ट एक्स. हाईवे, बोरीवली ईस्ट मुम्बई 400066	29/09/03	261	106931	श्री समीर श्रीकांत तोनापी 3 आर वैस्ट विंग, फर्न हिल गार्डन, एचएसआर लेआउट इंगलौर 560034	03/03/04
253	105700	श्री सुशील नारायणदास गांधी एसीए एफ विंग आस्था विनायक एन्क्लेव, माजी कॉलोनी, बसीलाल नगर, नजदीक होटल श्रीमाया औरंगाबाद 0	23/04/03	262	106975	श्री हेमंत प्रकाश जैन सी-1, फ्लैट 301, सेक्टर 06, शांतिनगर, मीरा रोड (ईस्ट) मीरा रोड	04/02/04
				263	107045	श्री रोडनी एस केसलीनो 2 मिलान सी एच एस एल ऑफ वीरा देसाई रोड अंधेरी (वैस्ट), मुम्बई 400058	16/09/03

क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
264 107175	श्री कमल नवीनचन्द्र मकवाना एसीए ए/20 कैलाश नगर, शंकर लेन, कांदीवली वैस्ट मुम्बई 400067	11/11/03	273 108098	श्री रूपेश गौतम चन्द मेहता एसीए पोस्ट ऑफिस 58145 दुबई 0	21/07/03
265 107254	श्री श्रीवास्तव अंशु एसीए 201/ए, वैशाली टावर वैशाली नगर, बी आर रोड, मुलुण्ड वैस्ट, मुम्बई 400080	06/05/03	274 108421	श्री रोहन रमन सेठ एसीए 3/1125 नवजीवन सोसाइटी लैमिंगटन रोड मुम्बई 400008	25/09/03
266 107399	श्री कुंज दिलीप कुमार वैद्य एसीए कृणाल 12 मिलन सोसाइटी एमवीएम महिला कॉलेज के पीछे, कलावाड रोड राजकोट 360007	29/05/03	275 108782	श्री राजदीप प्रेमकुमार पाई एसीए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पी ओ 3838, इटीसालात एचओ आबु दाबी 4111013 यू.ए.ई.	26/12/03
267 107692	श्री सलिल भरतकुमार देसाई एसीए 403 पापुलर अपार्टमेंट नं. 1, टिगोर रोड, सांताक्रुज वैस्ट मुम्बई 400054	30/10/03	276 109353	श्रीमति प्राची दिलीप रनाडे एसीए 3 भास्कर, महंत रोड, विले पार्ले ईस्ट मुम्बई 400052	28/08/03
268 107737	श्रीमति दीपा अहलाद गोरे एसीए 11 नर्मदा निवास, टोपीवाला कम्पाउंड, स्टेशन रोड, गोरेगांव वैस्ट मुम्बई 400062	22/05/03	277 109540	श्री धावल सूर्याकांत मदलानी एसीए 58/1 अटाग आश्रम, आर ए किदवाई रोड, किंग्स सर्कल मुम्बई 400019	11/04/03
269 107816	श्री रितेश रामकृष्णा तिवारी एसीए एल 402, आर एन ए रिजेन्सी पार्क, एम जी रोड, दहानुकर साडी, कांदीवली वैस्ट मुम्बई 400067	10/9/03	278 109561	श्री सिद्धार्थ शंभुनाथ नाग एसीए छठी मंजिल, ओराडी प्वाइंट बांद्रा स्टेशन के सामने, बांद्रा वैस्ट, मुम्बई 400050	09/05/03
270 107865	श्रीमति पूर्वी सतीश शाह एसीए सै. ए जे शाह एण्ड क. फोर्ट चैम्बर्स सी ब्लॉक, टेमारेड लेन, फोर्ट मुम्बई 400023	28/10/03	279 109966	श्रीमति रुदरी भरत जोशी एसीए मेहरिस्तान द्वितीय तल आगरबाजार, एस के बोले रोड दादर, मुम्बई 400028	09/05/03
271 107919	श्रीमति नेहा अर्पुवा संघवी एसीए ए 10 सुख शांति, सरोजनी नायडु रोड, तारा पाटिल अस्पताल के सामने तांबेनगर, मुलुण्ड वैस्ट, मुम्बई 400080	30/04/03	280 110179	श्री सोनू शेदुरम गुप्ता एसीए 6/8 द्वारका आशीश, चौथी मंजिल, जांबुलवादी, कालबादेवी रोड मुम्बई 400002	24/12/03
272 108036	श्री शाह कनन भाई एसीए यू/1 विक्रम अपार्टमेंट नजदीक श्रेयास क्रासिंग, अम्बावाडी अहमदाबाद 380015	22/10/03	281 110284	श्री महेश कुमार आगल एसीए पहला मंसावी बंगला, सिल्वर गोल्ड कंपाउंड, यूबीआई के सामने, मांडपेश्वर रोड, बोरीवली वैस्ट, मुम्बई-400092	18/09/03

क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक	क्रमांक	एम.आर. एन. नं.	सदस्य का नाम व पता	दिनांक
282	110378	श्री अजय डांटेलास पासो ई 3/301 नीलगिरी गार्डन को-ओप हाउसिंग सोसाइटी, आमरा मार्ग से. 24, सीबीडी वेलापुर, नवी मुम्बई-614	एसीए 17/10/03	291	204190	श्री श्रीनिवासन के एस एचएसबीसी असिसटेंट एमजीएफ (आई) प्रा.लि. 52/60 एम जी रोड, फोर्ट मुम्बई 40001	एसीए 08/10/03
283	110548	श्री अजीत रमेशकुमार तोलानी मार्फत भरत एस राउत एण्ड कं. केपीएमजी हाउस, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग मुम्बई 400013	एसीए 09/12/03	292	204360	श्री एस भास्कर स्टरलाईट ओप्टिकल टेक्नोलोजीस लि. ई 2, एमआईडीसी, वालुज, औरंगाबाद 431136	एसीए 23/05/03
284	110652	श्री प्रवीर सतीश शेनोय 302, आत्मा अपार्टमेंट, 10वां मेन, 13वां क्रॉस, मालखरम, बैंगलौर 560003	एसीए 30/05/03	293	205436	श्री आर सुरेश ए-37, मोहन को-ओप इण्ड. एस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली 110044	एसीए 12/02/04
285	200843	श्रीमति पद्मा गिरीधर फ्लैट नं. 603 बिल्डिंग नं. 17 विंध्यागिरी सिद्धाचल फेज 3 आफ पोखरण रोड नं. 2, थाने वेस्ट, थाने 400601	एसीए 19/05/03	294	205795	श्री सुभाष कुमार साहू 47/1153 महाताब रोड, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर 751002	एसीए 27/08/03
286	201693	श्री रामाकृष्ण एस 502 विनायक आंगन, प्लाट नं. 1043, बीआईपी बिल्डिंग के सामने, 93ए ओल्ड प्रभादेवी रोड, प्रभादेवी, मुम्बई 400025	एसीए 29/12/03	295	206367	श्री हरीदत्ता वर्मा ए पी 141ए नंदनवन सीएचएस, सै. 17, नेरूल ईस्ट नवी मुम्बई 400706	एसीए 10/09/03
287	202107	श्री संकरन आर बीएफ 3 गुरु राघवेंद्रा अपार्टमेंट नं. 18, प्रथम स्ट्रीट, प्रथम मेन रोड, थिलाई गंगा नगर चेन्नई 600061	एसीए 09/04/03	296	208099	श्री कामेश्वर राव सुबुद्धी पी बिल्डिंग नं. एक्स-2/फ्लैट नं. 042, गीता नगर फेज 4, मीरा रोड ईस्ट, मीरा रोड 401107	एसीए 08/08/03
288	203178	श्री मृगनंदन टी ए मार्फत श्री ए के वेनुगोपाल 11 सत्या पुरनास्वामी स्ट्रीट वेगावाठी स्ट्रीट, लिटल कांचीपुरम कांचीपुरम 631503	एसीए 16/07/03	297	208116	श्री विद्यातरे के बी 4 साई सदन, साई बाबा कॉम्पलेक्स सीबा रोड, गोरेगांव वेस्ट मुम्बई 400063	एसीए 23/06/03
289	203613	श्री एन एम वैद्यनाथन सी/101, श्रद्धा अपार्टमेंट, गुंजन जीआईडीसी वापी 396195	एसीए 24/04/03	298	209084	श्री आनंद के 13 अशोका अपार्टमेंट एस बी रोड, सांताक्रुज (वेस्ट) मुम्बई 400049	एसीए 20/10/03
290	203807	श्री राजेश कुमार अग्रवाल मार्फत बी 6/46, सेंचुरी रायन कॉलोनी, पी ओर शाहद, जिला थाने, शाहद 0	एसीए 16/04/03	299	209416	श्री सुरज प्रसाद एस 0 आफिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को. लि. मार्फ 0 रिलायंस पै 0 लि 0 आर आरटीफ एडमिन. ब्लॉक, मोतीखावदी, दिग्विजयग्राम पीओ जामनगर-361140	एसीए 10/11/03
				300	209906	श्री आशीश टी वर्गिस पी 8 संगथ फेज 4, एमजीआर नगर 1 स्ट्रीट वेलाचेरी चेन्नई 600042	एसीए 18/02/04

माहिती करीत
(डा० अशोक इल्लिया)
सचिव

चैनई-600 034, दिनांक 31 मार्च 2005

सं. 3 एससीए(5)/4/2003-2004—इस संस्था की अधिसूचना सं. 3 एससीए(4)/4/2002-2003 ता. 30 अप्रैल, 2003 के अनुसार यहां यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के अधिनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसार एवं नियम 19 द्वारा निम्नलिखित सदस्यों का नाम सदस्यों के रजिस्टर में वापिस लिखा जाता है।

क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	क्र. सं. एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता
1. 050537 श्री मोहाता रमेश कुमार एससीए केयर ऑफ प्रोवुड्स प्रा. लि. 9-29-13 बालाजी नगर, वालतेयर अपर्लेइस, सीबीएम कम्पाउंड, विशाखापट्टनम 530003	2. 201683 श्री सुनील के वी एफसीए प्रोडक्ट मैनेजर ग्लोबल पेमेंट्स एण्ड कैश मैनेजमेंट, एचएसबीसी बैंक मिडल ईस्ट, पी ओ टाक्स नं. 60 दुबई, यू. ए. ई

डा. अशोक हल्दिया
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS &
DEVELOPMENT
WORLD TRADE CENTRE-1

Mumbai-400005, the 13th April 2005

DBOD No. BP.BC.-1638/21.04.152/2004-05.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from 2nd April 2005 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

"IDBI Bank Limited"

USHA THORAT
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
REGIONAL OFFICE, ORISSA

Bhubaneswar-751022] the 31st March 2005

No. 44-V-34/12/3/82-Bft.—It is hereby notified that the Local Committee, Berhampur area in the district of Ganjam set up under regulation 10-A of the E.S.I. (General) Regulations, 1950 has been reconstituted consisting of the following members w.e.f. the date of the issue of this notification :—

- | | |
|--|----------|
| 1. Under Regulation 10-A(1)(a)
Sub-Collector, Berhampur, Ganjam. | Chairman |
| 2. Under Regulation 10-A(1)(b)
D.L.O., Berhampur, Ganjam. | Member |
| 3. Under Regulation 10-A(1)(c)
IMO I/C, ESI Dispensary,
Berhampur | Member |
| 4. Under Regulation 10-A(1)(d)
(Employers' Representative) | |
| (i) Sri T. Bahaji Saraf, Proprietor,
M/s. Auro Filling Station,
N.H. 5, Bye Pass Road,
Berhampur, Ganjam. | Member |
| (ii) Sri T. Adinarayan (Sr. Manager),
M/s. Utkal Automobiles Ltd.
Tata Benz Square,
Distt. Ganjam. | Member |

5. Under Regulation 10-A(1)(e)
(Employees' Representative)

(i) Sri Lingaraj Behera, Delivery Man, M/s. Auro Filling Station, N.H. 5, Bye Pass Road, Berhampur, Ganjam.	Member
---	--------

(ii) Sri S. N. Murty, Workshop Clerk, M/s. Utkal Automobiles Ltd. Tata Benz Square, P. O. Berhampur, Distt. Ganjam.	Member
--	--------

6. Under Regulation 10-A(1)(f) Manager, Branch Office, ESI Corporation, Berhampur.	Member & Office Secy.
---	--------------------------

C. R. NAIYA
Regional Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS
OF INDIA

New Delhi-110002, the 7th April 2005

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-143/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 1/2004, ordered on 14th February, 2005 that the name of Shri Milind Kantilal Shah, FCA, Chartered Accountant, 616, Anand Mangal-3, Near Core House, Raj Nagar Club Line, Ambawadi, Ahmedabad-380006 (M. No. 36482) be removed from the Register of members for a period of one year for having been found guilty of professional misconduct falling within the meaning of clauses (5), (6) and (7) of Part-I of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Milind Kantilal Shah shall stand removed from the Register of Members for a period of one year w.e.f. 1st May, 2005. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Gujarat.

DR. ASHOK HALDIA
Secy.

No. 29-CA/Law/D-113/2005.—In exercise of the powers conferred by sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Gujarat at Ahmedabad has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 1/2004, ordered on 11th January, 2005 that the name of Shri Y. M. Mansuri, FCA, Chartered Accountant, 301, Sarvoday Commercial Centre, Near GPO, Salapose Road, Ahmedabad-380001 (M. No. 31335) be removed from the Register of members for a period of six months for having been found guilty of professional misconduct falling within the meaning of clauses (5), (6) and (7) of Part-I of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 read with Sections 21 and 22 of the said Act. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Y. M. Mansuri shall stand removed from the Register of Members for a period of six months w.e.f. 1st May, 2005. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in

terms of the said order of the Hon'ble High Court of Gujarat.

DR. ASHOK HALDIA
Secy.

Kolkata-700071, the 1st April 2005

No. 3ECA/4/2/2004-2005.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute at their request with effect from date mentioned against the names of the following members :—

S. No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt.
1.	056442	Mr. Pareek Satish, AD-160 Sector-I, Salt Lake Kolkata-700064.	23.10.2002

ASHOK HALDIA
Secy.

No. 3ECA/8/1/2004-2005—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt.
1.	002514	Mr. Dutt Balai Chandra FCA 73/10, Golf Club Road Kolkata - 700 033	01/04/2004
2.	002887	Mr. Nagpal Bua Das FCA 1B Lal Kamal 27 Baker Road Kolkata - 700 027	01/04/2004
3.	004184	Mr. Ray Hari Sankar FCA 37A Panchanantala Lane Kolkata - 700 034	01/04/2004
4.	005284	Mr. Jhavar Rama Shankar FCA McLeod Russell (India) Ltd 4 Mangoe Lane, 7th Floor Surendra Mohan Ghosh Sarani Kolkata - 700 001	01/04/2004
5.	005630	Mr. Sen Gupta Kanak Kumar FCA 28/B Lake Road Kolkata - 700 029	01/04/2004
6.	010876	Mr. Mitra Syamal Kumar FCA 27 Regent Estate Kolkata - 700 092	27/07/2004
7.	014942	Mr. Nag Santosh Chandra FCA 52 Tollygunge Circular Road Kolkata - 700 053	09/02/2004
8.	015845	Mr. Mukhopadhyay Raghubir FCA 73-B, Harish Mukherji Road, Kolkata - 700 025	01/04/2004
9.	050126	Mr. Seth Bodh Raj FCA 6 Waterloo Street Suite No 503 5th Floor Kolkata - 700 069	01/04/2004
10.	050154	Mr. De Ashoke Kumar FCA G/11 Digantika Block - AH, Salt Lake Kolkata - 700 091	25/08/2004
11.	051222	Mr. Khurana Nirmal Kumar FCA Suryodaya Apartment Flat 1C 171 S.P. Mukherjee Road Kolkata - 700 026	01/04/2004
12.	051487	Mr. Choudhury Chittranjan FCA Room No 302 & 303 13 Crooked Lane Kolkata - 700 069	24/05/2004
13.	051591	Mr. Singhanian Harish Kumar FCA "Subham" 1 Sarojini Naidu Sarani 7th Floor Kolkata - 700 017	01/04/2004
14.	051821	Mr. Biswas Ashoke ACA 171/20 Roy Bahadur Road Behala Kolkata - 700 034	01/07/2004
15.	051924	Mr. Rathi Manak Chand FCA 8 B.R.B. Basu Road (Canning St.) 3rd Floor, Room No - 10 Kolkata - 700 001	22/07/2004
16.	053507	Mr. Roy Kishore Chandra FCA 52 Tollygunge Circular Road Kolkata - 700 053	09/02/2004
17.	053610	Mr. Seal Sudipta ACA 1/F Rajasew Box Bagla Lane Kolkata - 700 002	25/03/2004
18.	053767	Mr. Madappa Pandanda Kariappa FCA 10 B Lee Road Kolkata - 700 020	01/04/2004
19.	054025	Mr. Saha Ashok FCA F/F1 Hatiara Road Jangra Kolkata - 700 059	01/04/2004
20.	054347	Mr. Chakravorty Saikat ACA 102 Southern Avenue 'Sarobar' Flat 7 ME Kolkata - 700 029	16/08/2004
21.	054674	Mr. Sorkar Anindya Kanti FCA CA 169 Sector I Salt Lake City Kolkata - 700 064	01/04/2004
22.	056104	Mr. Pandey Mahendra Kumar ACA 228 Rabindra Sarani Kolkata - 700 007	01/04/2004
23.	056419	Mr. Raychaudhuri Pinak ACA C/O Bahrah Trading Company Street No 22 AL Rai Po Box - 5869 Safat - 13059 Safat - 0 Kuwait	09/08/2004
24.	056856	Ms. Jhunjhunwala Mridula FCA Jhunjhunwala House 7 Jadulal Mullick Road Kolkata - 700 006	01/04/2004
25.	056935	Mr. Khetan Lalit Kumar FCA 135 Lake Town Block - B Kolkata - 700 089	01/04/2004
26.	056936	Mr. Mohta Manoj Kumar FCA 40/2 Sir Hari Ram Goenka St Kolkata - 700 007	01/04/2004

27.	057940	Ms. Kaila Deepika ACA WBHB ECTP Phase - IV Flat A-9/1 Happy Nook Co-Op Society Kolkata - 700 107	01/04/2004	41.	059325	I. r. Bhoot Shree Kant FCA 60, P.N. Malia Road Dist - Burdwan Raniganj - 713 347	20/04/2004
28.	058244	Mr. Saraf Manoj Kumar FCA 14/2 Old China Bazar Street Bhikanchand Market 4th Floor Room No - 417 Kolkata - 700 001	20/07/2004	42.	059352	Mr. Agarwal Lalit ACA C/o R.L. Agarwal 343 Nagendra Nath Road Natun Palli 3rd Floor Kolkata - 700 028	01/04/2004
29.	058249	Mr. Agrawal Sanwal Kumar FCA 25 Nagendra Nath Road Satgachi (Opp. Sarachi Gardens) Anand Vihar Block - A Flat - 105 Kolkata - 700 028	01/04/2004	43.	059385	Mr. Agarwal Vishnu FCA 207 Maharshi Debendra Road 5th Floor Room No - 96 Kolkata - 700 007	01/04/2004
30.	058292	Mr. Agarwal Lokesh FCA 51B Kali Temple Road Surya Temple Apartments Flat No - 3D Kolkata - 700 026	01/04/2004	44.	059567	Mr. Agarwal Sandeep FCA AB 10 Salt Lake City Near P.N.B. Kolkata - 700 064	01/07/2004
31.	058400	Mr. Daga Maneesh FCA Flat - 4-D, Rajkamal 128, Rashbehari Avenue Kolkata - 700 029	01/08/2004	45.	059769	Mr. Sharma Rajeev ACA Ashirbad Apt. 3rd Floor 116/1/B Girish Ghosh Road Vivekananda Nagar Howrah Liluah - 711 204	14/05/2004
32.	058602	Mr. Sureka Binu FCA 54/2 Motilal Nehru Road Kolkata - 700 029	01/04/2004	46.	059783	Mr. Majumder Sanjeev ACA 35/A Southern Avenue Kolkata - 700 029	24/05/2004
33.	058764	Mr. Sah Rama Shanker Prasad ACA P-51 Rai Bahadur Rai Road Behala Kolkata - 700 034	01/04/2004	47.	059834	Mr. Swain Ajit Kumar ACA Qtrs No : MM6 TRL Township Dist : Jharsuguda Belpahar - 768 218	12/05/2004
34.	058809	Mr. Jhunjhunwala Sandeep FCA Duke Gardens Crown 3A & E Raghunathpur VIP Road Kolkata - 700 059	30/03/2004	48.	059888	Mr. Sinha Shakti Biswas ACA 'Krishna Nivas' At : Rovers Street Po : Buxi Bazar Cuttack - 753 001	01/08/2004
35.	058886	Mr. Paul Madhusudan FCA Plot No. N-3/9; IRC Village Nayapally Bhubaneswar - 751 015	01/07/2004	49.	060038	Mr. Sureka Rajesh ACA 12/3 Siddeshwari Talla Lane Howrah - 711 101	07/06/2004
36.	059040	Mr. Kumar Tonmoy ACA C/105 Baishnabghata Patuli Township Kolkata - 700 094	31/03/2004	50.	060168	Mr. Mukhopadhyay Sada Nanda ACA C/o Mrs Chhanda Banerjee 2 No Mahishila Colony, Crescent Park Asansol - 713 303	01/06/2004
37.	059138	Mr. Goenka Ajay Kumar FCA C/o Anand Rathi Securities Pvt. Ltd. "Seagull House" 1st Floor Shivajee Colony Andheri Kurie Road Chakala Mumbai - 400 099	30/04/2004	51.	060232	Mr. Agarwal Mohesh Kumar ACA At : Kuchaibudi Po : Raikangpur Mayur Bhanj - 757 043	25/04/2004
38.	059182	Ms. Basu Devapriya ACA BK-106, Salt Lake, Sector-II, Kolkata - 700 091	04/06/2004	52.	060297	Mr. Chakraborty Ashok Kumar ACA Plot No BD 299 Salt Lake Kolkata - 700 064	15/06/2004
39.	059278	Ms. Seth Namrata ACA Nandanik Apartment Flat No - BI-214 19A Deodar Street Kolkata - 700 019	01/04/2004	53.	060529	Ms. Sureka Priti ACA 43 Kailash Bose Street Block B Flat No G8 Kolkata - 700 006	02/08/2004
40.	059290	Ms. Nag Monalisa ACA 797/708 Building No 6A Whispering Palms Lokhandwala Complex Akurli Road Kandiv. . .	29/07/2004	54.	060540	Mr. Singhania Deepak Kumar ACA C/o S k Bhartia & Associates 39 Strand Road 1st Floor, R No-75 Kolkata - 700 001	30/06/2004

55.	060693	Mr. Khairulla Khozaima M ACA 30 Ripon Street 3rd Floor Kolkata - 700 016	21/06/2004	70.	062078	Mr. Bhansali Pawan Kumar ACA C/o Mr. U. Daga Flat 3-G 53/B Baliaghata Main Road Kolkata - 700 010	14/09/2004
56.	060779	Mr. Sur Debasis ACA Po & Vill Bandipur 24-Paragans (North) Via Titagarh Kolkata - 700 119	07/04/2004	71.	062163	Mr. Pani Siddheswar ACA At 1/103 Azad Garh Regent Park Kolkata - 700 040	18/05/2004
57.	060889	Mr. Chourasia Lal Babu ACA 6/A, Tara Chand Dutta Street 4th Floor Kolkata - 700 073	30/07/2004	72.	062187	Mr. Agarwal Prakash ACA S D Towar Block Flat No 3P 2nd Floor Po : Prafulla Kanan Kustopur Kolkata - 700 101	03/08/2004
58.	060933	Ms. Mahra Neetu ACA 29/9 Ballygunge Park Kolkata - 700 019	01/04/2004	73.	062369	Mr. Jain Sudhanshu ACA B 701 Valentine Apts (B-3) Pimpipada Goregaon Mulund Link RD Mumbai - 400 097	01/04/2004
59.	061017	Mr. Kothari Radhe Shyam ACA 35/R Netaji Subhas Road Dist : Hooghly Rishra - 712 248	17/09/2004	74.	062386	Mr. Jain Manish ACA 84 Dwarik Jungie Road Patkua Tala; Hooghly Bhadrakali - 712 232	11/08/2004
60.	061105	Mr. Jaiswal Arvind ACA 13 Dr H K Chatterjee Lane Belur Math. Howrah - 711 202	01/04/2004	75.	062394	Ms. Kothari Rohini ACA 24 Bori Behari Bose Road "Sandhya Bazar" 5th Floor Howrah - 711 101	08/09/2004
61.	061392	Mr. Agarwal Sumit ACA 'Agarwal Niket' 73A Diamond Harbour Road Kolkata - 700 023	01/04/2004	76.	062413	Mr. Basu Dipayan ACA 220 Mission Para Road Rahara Kolkata - 700 116	24/08/2004
62.	061448	Mr. Gupta Nitin Guddu ACA 15 Free School Street Flat No - 4 Ground Floor Kolkata - 700 016	01/04/2004	77.	062584	Mr. Sahu Madan Mohan ACA C/o Smt. Maya Chowdhury 72 Dr. A.K. Paul Road Behala Kolkata - 700 034	01/09/2004
63.	061480	Mr. Saraf Navin ACA D 27/7 Nisco Hsg Estate Po : Sapuipara Bally Howrah - 711 227	01/04/2004	78.	062630	Mr. Om Kumar ACA 1 British Indian Street Room No. 605 Kolkata - 700 069	01/06/2004
64.	061575	Mr. Bahety Sandeep ACA # 606 7th Main 17th A Cross Indiranagar 2nd Stage Bangalore - 560 038	01/04/2004	79.	062753	Mr. Agarwal Vikash ACA S D Tower Block D Flat No 3-P 2nd Floor Po : Prafulla Kanan Krishnapur Kolkata - 700 101	01/06/2004
65.	061732	Ms. Agarwal Ritu ACA Trainee Officer (F&A) NHPC LTD Vidyut Nagar Satellite Township Jaipalguri - 734218	07/06/2004	80.	062798	Mr. Agarwal Leena ACA 401 Vanita Apartments Chincholi Bunder Road Malad (W) Mumbai - 400 064	01/04/2004
66.	061832	Ms. Bhalotia Payal ACA 219 Chitranjan Avenue Kolkata - 700 006	01/04/2004	81.	062837	Ms. Saraf Archana ACA Purbachal Housing Estate Cluster II (F/8) Kolkata - 700 097	01/04/2004
67.	061836	Mr. Lohia Kailash Kumar ACA C/o Mr. Mahesh Kumar Lohiya Po : Birpara Jaipalguri - 735 204	01/06/2004	82.	062850	Mr. Madhogaria Satish ACA Subhasaria Complex (2nd Floor) Station Road Dist - Burdwan Barakar - 713 324	30/06/2004
68.	061935	Ms. Agarwal Nidhi ACA Cluste 1X-E-10 Purbachal Housing Estate Sector - 3 Salt Lake Kolkata - 700 097	01/04/2004	83.	062876	Mr. Goenka Manish ACA - 1 Jayashree Co-Op Housing Society Rishra - 712 249	01/04/2004
69.	061982	Mr. Agarwal Kishan ACA 266D G.T. Road I.P. Apartments 2nd Floor Liluah - 711 204	01/04/2004				

84.	062923	Mr. Jha Sanjay Prasad ACA Rajendra Chhatra Bhawan Room No - 29 34-A Ratu Sankar Lane Kolkata - 700 073	19/07/2004	87.	077153	Mr. Boruah Siddhartha Sankar Bhusan FCA 25/05/2004 Near K P M Hall A T Road Sibsagar - 785 640	
85.	062983	Mr. Chandra Dibyendu ACA C/o. Chaitanya Ch. Chandra, College Road, Pratap Bagan, Po & Dist. Bankura Bankura - 722 101	01/04/2004	88.	500963	Mr. Baid Sunil ACA C/o ICICI Bank Limited RAPG-Operations 3rd Floor Shantiniketan Bulding Main Road Bistupur Jamshedpur - 831 001	01/08/2004
86.	063134	Mr. Baldewa Abhishek ACA 42B New Sujata Housing Co-Op. Society Plot No 28 Juhu Tara Road 4th Floor Room No - 42 Santacruz (W) Mumbai - 400 049	09/08/2004	89.	502446	Mr. Agarwalla Sobhesh Kumar ACA C/o Ganesh Steel Co. Laxmi Bazar Dhenkanal - 759001	15/07/2004
				90.	502834	Mr. Goel Amit ACA C/o Mr. Ram Kumar Goel Chakraborty Road Dist : Burdwan Neamatpur - 713 359	16/08/2004



(ASHOK HALDIA)

Secretary

No. 3ECA/5/1/2004-05- with reference to this Institute's Notification Nos 4ECA/11/1979-80 dated 15/03/1980, 3ECA/4/6/1989-90 dated 02/11/1989, 3ECA/4/4/1993-94 dated 01/02/1994, 3ECA/4/3/1998-99 dated 12/05/1999, 3ECA/4/2/1999-2000 dated 11/04/2000, 3ECA/4/3/2000-01 dated 22/02/2001, 3ECA/4/3/2001-02 dated 12/08/2002 and 3ECA/4/2/2003-04 dated 08/09/2004 it is hereby notified pursuant of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members :-

S. No.	MRN	Member Name & Address	Restore
1.	005296	Mr. Pal Shyam Sundar FCA Khosebagan Sir S. B. Ghosh Road Burdwan - 713 101	17/05/2004
2.	007820	Mr. Basu Manas Kamal FCA 55 Sardar Sankar Road Ground Floor Kolkata - 700 029	12/05/2004
3.	008698	Mr. Sharma Onkar Nath FCA 12A Lake Road Ground Floor Kolkata - 700 029	14/07/2004
4.	010596	Mr. Basu Malay Kumar ACA 21/2 Dover Road Kolkata - 700 019	02/04/2004
5.	011353	Mr. Dutta Gupta Amalendu FCA No 16 1st Cross 5th main Domlur 2nd Stage Bangalore - 560 071	12/04/2004
6.	014691	Mr. Roy Sitanshu Kumar ACA 2 DE Mouchak 333/1 Jessore Road Kolkata - 700 089	26/04/2004
7.	014390	Mr. Prasad Madhusudan FCA 4 Raja Woodmunl Street 4th Floor Kolkata - 700 001	01/04/2004
8.	025106	Mr. Shah Raj Kumar ACA Shree Shyam Lake Garden Flat No 415-C 4th Floor Block - S 202 Jessore Road Kolkata - 700 089	07/04/2004
9.	050115	Mr. Ghosh Sidhartha FCA 5 Cambridge Ct. Medford NJ - 08055 USA 0	01/04/2004
	050320	Mr. Chakrabarti Smritibrata ACA 45 Thana Road Near Paragon Ground P O : B D Sopan Khardah - 743 121	05/04/2004

11.	050857	Mr. Das Dulal ACA 803-3590 Kaneff Crescent Mississauga Dn L5A 3 X 3 Canada	22/04/2004
12.	051095	Mr. Ghosh Surojit Kumar ACA General Manager-Finance Indian Aluminium Co. Ltd. 1 Middleton Street Kolkata - 700 071	15/04/2004
13.	052121	Mr. Banerjee Somsuvro ACA 68/3A Purna Das Road Flat 3B Tollygunge Kolkata - 700 029	15/07/2004
14.	052334	Mr. Praveen Chand ACA CC-111 Chandni Complex 1st Floor Panposh Road Rourkela - 769 004	22/12/2003
15.	052684	Mr. Basu Suhas Chandra FCA D-151 Sarita Vihar New Delhi - 110 044	07/06/2004
16.	052771	Mr. Singhvi Anil FCA P16/4 Purna Das Road Kolkata - 700 029	28/06/2004
17.	052917	Mr. Bucha Sampat Lal ACA C/O. A.C. Pugalia & Co. 46 Strand Road 1st Floor Kolkata - 700 007	18/08/2004
18.	053262	Mr. Epari Krishna Mohan ACA Sedco Forex International Drilling Inc. Spectra First Floor High Street Hiranandani Business Park Powai Mumbai - 400 076	19/05/2004
19.	053948	Mr. Agrawala Sajjan Kumar ACA T - 23 Hudco Place Andrews Ganj New Delhi - 110 049	06/09/2004
20.	053992	Mr. Nanda Prasanta Kumar FCA P - 11 HAL Township Sunabeda Koraput - 763 002	30/04/2004
21.	054919	Mr. Singhvi Ashok Kumar FCA 104/2/1 Satyen Roy Road Behala Kolkata - 700 034	17/06/2004
22.	055154	Mr. Varma Rohit ACA 15 Sewells Road APT - 508 MIB 3 U7 Toronto - 0 Canada	28/04/2004
23.	055267	Mr. Mukhopadhyaya Prabir ACA Manager Accounting & Controls Electronic Group Yusuf A Alghanim & Sons W.L.L PO Box - 223 Safat - 13003 Kuwait - 0	22/07/2004

24.	055559	Mr. Mahapatra Bishnu Prasanna ACA Head (Audit & Costing) IDC of Orissa LTD P. B. No 78 IDCCL House Ashok Nagar Bhubaneswar - 751 001	08/06/2004	35.	57371	Mr. Mishra Sanjeev ACA 4291 Stevenson Blvd APT No 37 Fremont CA 94538 California - 0 USA	10/08/2004
25.	055685	Mr. Anand S ACA Global Software (I) Pvt. Ltd. 99 Radhakrishnan Salai Chennai - 0	23/04/2004	36.	058588	Mr. Gupta Pabhel ACA Po Box 9267 UAE Dubai (U.A.E.) 0	16/09/2004
26.	055770	Mr. Daga Devendra Kumar FCA Regional Manager Reliance Capital Asset Management HM Plaza Business Centre 8 A J C Bose Road Kolkata - 700 017	10/06/2004	37.	058982	Mr. Poddar Mahavir ACA Y/15 Civil Township Rourkela - 769 004	08/07/2004
27.	055877	Mr. Agarwalla Manoj Kumar ACA Chief Financial Controller C/o Geobird Management Middle East P O Box No 500347 Dubai (U.A.E.) 0	09/08/2004	38.	059409	Mr. Mittal Vikram ACA 20/14 Mahital Basak Lane Kankurgachi 3rd Floor Kolkata - 700 054	12/07/2004
28.	056944	Mr. Maharana Pratiba Ranjan FCA Plot No 3 Anee Enclave Aigunia Khandagiri Bhubaneswar - 0	13/09/2004	39.	059651	Mr. Panda Premananda ACA AT : Goormath Lane Po : Jharua Para Sambalpur - 768 001	14/06/2004
29.	057012	Mr. Gupta Sanjay Kumar ACA 38 Mott Lane Kolkata - 700 013	22/12/2003	40.	059709	Mr. Agarwal Sanjay Kumar ACA 105 Old China Bazar Street 3rd Floor Kolkata - 700 001	01/06/2004
30.	057077	Mr. Mukhopadhyay Prabhakar ACA Champa Kutir 63 N.C. Ghosh Sarani Dist Hooghly Sheoraphully - 712223	20/05/2004	41.	060392	Mr. Parakh Amit ACA 44/10/11 Road Howrah - 711 101	02/04/2004
31.	057078	Mr. Khan Sabah ACA 205 A J C Bose Road Kolkata - 700 017	30/07/2004	42.	060574	Mr. Das Himansu Sekhar ACA House of M. S Nanda Armstrong Road Puri - 0	22/12/2003
32.	057193	Mr. Choudhary Vikash ACA PT. Indo-Rama Synthetics TBK Kembang Kuning Ubrug Jatijukur Purwakarka - 41101 Indonesia - 0	18/05/2004	43.	061061	Mr. Gupta Arun ACA C/o Pramod Gupta 408 B Padmavati Building Narayan Nagar Road Bhayander (West) Thane - 401 101	08/07/2004
33.	057217	Mr. Singhania Rajesh Kumar FCA 12A N. S. Road Room No 18 5th Floor Kolkata - 700 001	17/09/2004	44.	091194	Mr. Jain Binod FCA 12 Narayan Prasad Babu Lane 2nd Floor Room No 18 Kolkata - 700 007	31/05/2004
34.	057270	Mr. Padihari Sidhartha ACA Regional Commercial Manager M/s Blow Plast Limited DGP House 88 C Old Prabhadevi Road Mumbai - 400 025	23/06/2004	45.	212511	Mr. Tripathy Ganeswar ACA C/o Mr. Narahari Tripathy Flat No. MIG - II 7/3 Housing Board Colony Chandrasekharpur Bhubaneswar - 751 016	22/07/2004



(ASHOK HALDIA)

Secretary

No. 3ECA/4/t/2004-2005 : In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) or sub-section (1) of section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from date (s) mentioned against the names of the following members :-

S. No.	MRN	Member Name & Address	Cancel dt.
1.	000927	Mr. Kumar Kamal Chandra 9/15 Fern Road 1 st Floor Kolkata - 700 019	24/08/2004
2.	001160	Mr. Sutarwala Jamnadas B Flat No - 203 14 Southern Avenue Kolkata - 700 026	17/11/2003
3.	001249	Mr. Datta Dharani Dhar 42 Tara Sankar Sarani Belgachia Kolkata - 700 037	28/12/2003
4.	001544	Mr. Datta Manoranjan 34B Surek Sarkar Road Beliaghata Kolkata - 700 010	16/07/2004
5.	001913	Mr. Basu Prasanta Kumar 12 Chowringhee Square Kolkata - 700 069	23/06/2004
6.	002189	Mr. Banerji Subhash Kumar 1, Ramhari Roy Lane G.T. Road Uttarpara - 712238	10/01/2004
7.	002334	Mr. Mitra Sunil Chandra Shrirangam BF - 35 Salt Lake City Kolkata - 700 064	20/04/2004
8.	002655	Mr. Roy Ranendra Nath 10 Old Post Office Street 4th Floor Kolkata - 700 001	09/03/2004

9.	003229	Mr. Samanta Promode Ranjan 18 R.N. Mukherjee Road Kolkata - 700 001	07/04/2004
10.	003256	Mr. Chattoraj Sankar Mohan 521 Marshall House 33/1 N.S. road Kolkata - 700 001	08/04/2004
11.	004002	Mr. Guha Debashis 1 Chowringhee Square Kolkata - 700 069	31/03/2004
12.	004052	Mr. Datta Pranab Kumar CK - 269, Sector-II Salt Lake City Kolkata - 700 091	31/05/2004
13.	007004	Mr. Bagaria Banshidhar Assam Dibrugarh - 786 001	09/09/2003
14.	008275	Mr. Sen Baidya Nath 8/2, Kiron sankar Roy Road 2nd Floor, Room No - 9 Kolkata - 700 001	02/09/2004
15.	009147	Mr. Dasgupta Dipak Kumar 26/1B Sashi Bhushan De Street Flat - 15 Kolkata - 700 012	07/04/2004
16.	012859	Mr. Basu Niroj Kumar Y 157-B Lenin Sarani Kolkata - 700 012	22/08/2004
17.	015853	Mr. Saha Adhir Chandra 3 Jadunath Dey Road Gr. Floor Kolkata - 700 012	06/04/2004
18.	017382	Mr. Mukhopadhyay Bhaskar Sarada Bhawan Flat 303 (3rd Floor) 11 Lenin Sarani Serampore - 712203	08/03/2003
19.	051306	Mr. Majumdar Sanjit Kumar 6/28, Seal S. Garden Lane Kolkata - 700 002	28/07/2003



(ASHOK HALDIA)

Secretary

Mumbai-400 005, the 31st March 2005

(Chartered Accountants)

No. 3WCA(5)/1/2003-04—With reference to this Institute's Notification Nos. 3WCA(4)/1/2000-01 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-02 dated 7 Jan 2002, 3WCA(4)/1/2002-03 dated 10 Feb 2003, 3WCA(4)/3/2003-04 dated 20 Apr 2004 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from date mentioned against their names, the names of the following members.

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
1	002991	Mr KHARE GOPAL PARASHARAM G P KHARE & CO BLOCK B-24, JAGRUTI SOC 101-L JAMSHEDJI RD, MAHIM MUMBAI 400016	ACA 22/12/2003	13	010485	Mr. AGRAWAL MADANLAL 41 ASHOKA SHOPPING CENTRE, IND FLDOR, LT MARG, MUMBAI 400001	FCA 22/12/2003
2	003546	Mr. PARANJPE GOVIND KESHAV A-7 PUNARVASU CO-OP HSG SOCIETY, PABDIT DINDAYAL MARG, VISHNU NAGAR, DOMBIVALI 421002	FCA 22/12/2003	14	010550	Mr. PATEL HARNARAYAN JAYRAMDAS 204 SARAP NAVJIVAN PRESS LANE, ASHRAM RD, AHMEDABAD 380014	FCA 22/12/2003
3	004219	Mr FURTADO CLARENCE ANTHONY 5 MAVIS, ST NORTH, RYDE NSW 2113 AUSTRALIA	ACA 22/12/2003	15	010688	Mr. HIRJIBEHEDIN FAROKH NAVROJI 135 EXECUTIVE DRIVE, MANHASSET HILLS, NEW YORK 11040-1052 USA	ACA 22/12/2003
4	004243	Mr. BOYCE BOMY JAMSHED CUSROW BAUG BLOCK S-31 FLOOR, COLABA CAUSEWAY, MUMBAI 400005	FCA 22/12/2003	16	011126	Mr. NAHAR VIJAY KUMAR 1 RAJSHREE PALACE KHEMJI LANE, BEHIND DENA BANK M G RD, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400077	FCA 22/12/2003
5	005933	Mr. J VENKATAPPAYYA C-4-103, VEENA SAGAR CO OP HSG SOC LTD., L B S MARG, MULUND WEST, MUMBAI 400080	FCA 22/12/2003	17	011564	Mr. RAJADHYAKSHA SATEESH JAGANNATH 201 NITHYANAND SADAN, BHARDAWADI X LAND, ANDHERI WEST, MUMBAI 400056	FCA 22/12/2003
6	006224	Mr. CHHAPGAR BEHRAM HOMI FLAT NO 1 G BLOCK, RISHIKESH CO-OP HSG SOCIETY, EVERSHINE NAGAR, MALAD WEST, MUMBAI 400084	ACA 22/12/2003	18	012404	Mr. PARIKH JYOTINDRA CHHAVLAL K PARIKH & CO., 102 APSARA APTS DANDIA BAZAR, VADODARA 393001	FCA 22/12/2003
7	006226	Mr. AGARWAL SHRI BHAGWAN 1005 RAHEJA CENTRE, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	FCA 22/12/2003	19	012858	Mr. PRALHAD GURUNATH MANNUR F-11 KURTARIKAR COMMERCIAL ARCADE, FIRST FLDOR, PDNDA GOA 403401	FCA 22/12/2003
8	003377	Mr. MAHAVEER PRASAD MUKUL SHARMA PAREKH MARKET BASEMENT 11, 39 KENNEDY BRIDGE, MUMBAI 400004	FCA 22/12/2003	20	012952	Mr. MERCHANT BHAGIRAT BABUBHAI GOVARDHAN BHAVAN 4TH FLOOR, JAIHIND SCTY, N S ROAD NO 12-A J V P D SCHEME, MUMBAI 400049	FCA 08/12/2000
9	006457	Mr. D'SOUZA LUCIAN ALOYSIUS BANDSTAND B BLDG., FLAT NO 43, 4TH FLOOR, CANE ROAD, BANDRA, MUMBAI 400050	FCA 22/12/2003	21	014141	Mr. KAPADIA KAMALKANT SUMANLAL 65 BROOKVIEW CRESCENT, SAINT JOHN, N B. E2M 4K9, CANADA	ACA 01/10/2002
10	006594	Mr. DESAI ROHIT RAVINDRALAL A-2 RUTUL PARK OPP C P, CHAMBERS NEAR NAVRANG HIGH, SCHOOL 6, AHMEDABAD 380014	FCA 22/12/2003	22	014379	Mr. KARANIA PRAFULCHANDRA GULABCHAND B-144 ANAND, 17 JUHU LANE ANDHERI-WEST, MUMBAI 400059	ACA 22/12/2003
11	006872	Mr. SAMPAT VITHALDAS PURSHOTAMDAS MEGHDEEP, FLAT NO.3, 47, SWASTIC SOCIETY, N.M.ROAD, J V P D SCHEME, VILE PARLE (WEST), MUMBAI 400056	FCA 22/12/2003	23	014588	Mr. SHETH KIRANKUMAR RATILAL FLAT 201/202 PURNIMA SAURABH, SECTOR 29, VASHI, NAVI MUMBAI 400703	FCA 22/12/2003
12	009357	Mr. SANGHVI M P 504 ROSE APTS V FLOOR NR JUHU, BUS STATION JUHU CHURCH RD, MUMBAI 400049	FCA 22/12/2003	24	014748	Mr. GANU ANIL BHASKAR BHASKAR, 3 MAHANT ROAD, VILE PARLE EAST, MUMBAI 400057	ACA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
25	015351	Mr. YASHWANTRAI SUNDERJIBHAI MEHTA VISHWA MDHINI 19B/5442, PANT NAGAR GHATKOPAR-EAST, MUMBAI 400075	FCA 01/10/2002	39	031020	Mr. CHHORIIYA SUBHASHCHANDRA NATHMA LAXATE PARK II FLOOR, OPPOSITE PETHE HIGH SCHOOL, PANDHAR KARANJA, NASRIK 422001	FCA 22/12/2003
26	015785	Mr. SRIRAMAN THIAGARAJAN 64/503 KACHNAR, VASANT VIHAR, POKIRAN ROAD NO 2, THANE WEST, THANE 400610	ACA 22/12/2003	40	031158	Mr. QAZI MUGHISUDDIN GHAYASUDDIN 160 ESPLANADE HIGH SCHOOL BLDG 1ST FLOOR (D N D) FORT, MUMBAI 400001	FCA 22/12/2003
27	016608	Mr. SHAH PRAVIN CHATRA BHUJ 7/B VATSALYA APARTMENT 63 VASANT KUNJ NEAR SHAHUA MANDIR ROAD, PALDI, AHMEDABAD 380007	FCA 22/12/2003	41	031240	Mr. BAI VANITHA (BAIBUJATHA) PANDURANG APARTMENT, ABOVE NAVRANG GENERAL STORES SAMHAT NAGAR, OPP AMBAI DEFENCE COLONY, KOLHAPUR 416008	FCA 22/12/2003
28	016907	Mr. ASHANI PRAKASH NAMCHAND D/607 KARAN, OFF YARI ROAD, VERSOVA, MUMBAI 400066	ACA 22/12/2003	42	031321	Mr. BIPINCHANDRA KANTILAL THAKKAR C/O 200 CENTARIN COMPLEX NR. VIJAY CHAR RASTA, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380009	FCA 22/12/2003
29	020317	Mr. SUBRAMANIAN S FINANCIAL ADVISOR, COMPOSITE PIPES INDUSTRY LLC, P O BOX 495, AL HAMRIYA 131, AL HAMRIYA Q, SULTANATE OF OMAN	FCA 01/10/2002	43	031352	Mr. HOORHALA DOORVAX KERSI 8/49-2011-A STREET, LANGLEY B.C., VIM 2LS, CANADA 0, CANADA	FCA 22/12/2003
30	021637	Mr. MANI CHACKO K 3 BALLARDS RISE, SOUTH CROYDON, SURREY CR2 7JT, U.K.	FCA 22/12/2003	44	031502	Mr. RUGHANI RAMESHCHANDRA HARANDAS 11/3 GOLD MOHURI FLOOR, 174 PRINCESS ST, MUMBAI 400002	FCA 22/12/2003
31	022356	Mr. URALA K SRIPATHI 2-A SINDHI SOC., SION TROMBAY MARG, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA 22/12/2003	45	031537	Mr. AMDEKAR VYANKTESH WAMAN V W AMBEKAR & CO., AYACHIT ROAD, MAHAL, NAGPUR 440002	FCA 22/12/2003
32	023251	Mr. RANGANATH P. BHARAT PETROLEUM CORP LTD, HONGKONG HOUSE, 31, B B D BAUNG, KOLKATA 700001	ACA 01/10/1998	46	031766	Mr. VAISHNAV NILESH CHANDRAKANT MANU MANSION, 16/18 SHAHID BHAGAT SINGH ROAD, OPP OLD CUSTOM HOUSE, FORT MUMBAI 400023	FCA 22/12/2003
33	026098	Mr. RANGARAJ S PROJECT ACCOUNTANT, BCL LIMITED, P O BOX 3 SELEBI PHIKWE, BOTSWANA 0 AFRICA	ACA 22/12/2003	47	031795	Mr. PRAKASHCHANDRA SHANTILAL PANCHOLI 103 NEELKANTH, 98, MARINE DRIVE, MUMBAI 400002	FCA 22/12/2003
34	028150	Mr. HARI R VICE PRESIDENT, GLOBAL BANKING DIVISION, DEUTSCHE BANK A G MUMBAI, HAZARIMAL SOMANI MARG FORT, MUMBAI 400001	ACA 22/12/2003	48	031938	Mr. SHAI PRAKASH NAVNITRAI PARIJAT MARKETING SERVICES, 443, LAXMI PLAZA, LAXMI INDUSTRIAL ESTATE, NEW LINK ROAD, AKOHERI (W), MUMBAI 400053	ACA 22/12/2003
35	029188	Mr. M HARIHARAN "VISHWA LAKSHMI", PLOT NO. 175, LANE 'F', SECTOR - 8, VASHI, NAVI MUMBAI 400703	FCA 22/12/2003	49	032165	Mr. DESAI DILIP RATILAL 804, SHAHJAHANANO SHOPPING CENTRE, SHAHI BAUG ROAD, AHMEDABAD 380004	FCA 22/12/2003
36	029936	Ms. SHALINI WARRIER HEAD-SHARED DISTRIBUTION & SERVICE, STANDARD CHARTERED BANK, 23-25 M G ROAD, MUMBAI 400001	ACA 22/12/2003	50	032246	Mr. BHASKARANATHAN S 1401 REDFERN DR, PITTSBURGH PA 15241, U S A	FCA 22/12/2003
37	030217	Mr. VASHI MAHENDRAKUMAR GULABBHAI 801-A SUNFLOWER, GUNDECHAS VALLEY OF HAVENS, THAKUR VILLAGE, KANDIVALI EAST, MUMBAI 40001	FCA 22/12/2003	51	032347	Mr. PATHAN SHAHIRKHAAN ASGARKHAN 20/5 PARASKUNJ, NEAR J P CHOWK, KHANPUR, AHMEDABAD 380001	FCA 22/12/2003
38	030585	Mr. CARVALHO FRANCISCO XAVIER 1017 BEECHNUT ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6J 1P4 CANADA	ACA 22/12/2003	52	032528	Mr. AKBAR SHAHBUDDIN JIVANI 147 ABINGDON CRES N.E., CALGARY, ALBERTA T2A6W8 CANADA	ACA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
53	032660	Mr. SHANKARANKUTTY JAGDISH SHANKARALAYAM, 915-E, TEMPLE ROAD, THRIKKAKARA KOCCHI 682021	FCA 01/10/2002	68	034813	Mr. NERURKAR SHANTARAM GOVIND 22/C SHIVPRABHA, OPP. VITRO PHARMA, SECTOR 1 CHARKOP VILLAGE ROAD, KANDIVLI WEST, MUMBAI 400067	ACA 22/12/2003
54	032859	Mr. SRIDHARAN RAJAGOPALAN FLAT NO 4 GEETA CO-OP HOUSING SOCIETY, RAMBAUD, LANE NO 4, DIST THANE, KALYAN	ACA 22/12/2003	69	035025	Mr. BOHRA SUBHASH KUMAR A-303 GAUTAM NAGAR, DUTT MANDIR RD MALAD-EAST, MUMBAI 400097	ACA 22/12/2003
55	032988	Mr. HAROKAR ANIL SHRIPAD 602, MANDU, SHANKAR GHANEKAR MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025	FCA 22/12/2003	70	035065	Mr. JOSHI SHIRISH LAXMAN 'DR ASA' 1002/A RAJENDRA NAGAR, PUNE 411030	FCA 22/12/2003
56	033323	Mr. HEMANI KIRAN HARSUKHLAL 5/6, GEETA BUILDING, SHIVRAM SOCIETY, DEVIDAYAL ROAD, MULUND (WEST) MUMBAI 400080	FCA 22/12/2003	71	035145	Mr. PATWARDHAN SANTOSH WAMANRAO 45 PADMARASHAN SOC., PUNE SATARA RD, PUNE 411009	ACA 22/12/2003
57	033326	Mr. KOTHAR GHEESOO LAL F 503/504, 5TH FLOOR, RAJGIR, OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI 400059	ACA 01/10/2002	72	035225	Mr. PARIKH JAYPRAKASH RASIKLAL 6520 LMCRIK COURT, CLARKSVILLE, MARYLAND MD 21029 USA	ACA 22/12/2003
58	033514	Mr. BADANI DHITENDRA PRANLAL BLOCK NO 6 JAMNADAS UMARSHI TRUST BLDG 32/A KHOKHAN LANE, GHATKOPAR-EAST, MUMBAI 400077	ACA 22/12/2003	73	035505	Mr. BAGDE ASHWIN PRABHAKAR 3602 FISHERS HILL COURT, FAIRFAX VA 22033, U.S.A.	FCA 22/12/2003
59	033758	Mr. SHAH RASHMIKUMAR DINESHKUMAR 9 UMA HEIGHTS, 831/A BMCC ROAD, PUNE 411004	FCA 22/12/2003	74	035530	Mr. DAVE KAMLESH CHANDRASHEKAR C-16 1ST FLOOR, 315/C, S.M.S. BUILDING, NEW CHARNI ROAD, MUMBAI 400004	FCA 22/12/2003
60	033864	Mr. SHAH JAYESH RATILAL B-2 SWAGAT, CIBA SOCIETY, AMRUT NAGAR, GHATKOPAR WEST, MUMBAI 400086	FCA 22/12/2003	75	035878	Mr. PARDESI MANOHARSING KISANSING 29/2 SOMWARPETH, SHANTIKUNJ SOCIETY, PUNE 411011	ACA 22/12/2003
61	033919	Mr. HUDDA KARIM SHERALI 3/46, JEEVAN SUDHA, JUHU LANE, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400058	ACA 22/12/2003	76	035879	Mr. SONAR DEELIP GANPATRAD 10 AMESBURY COURT, MOUNT WAVERLEY, VIC-3149 MOUNT WAVERLEY 00 AUSTRALIA	FCA 08/12/2000
62	033984	Mr. PATEL JAI MAHENDRABHAI 1849, ARBOR LANE, UNION, NEW JERSEY 07083, NEW JERSEY 0 U.S.A.	FCA 22/12/2003	77	036026	Mr. SHARMA GAGAN 14 ASHOK, GANDHIGRAM MARG, JUHU, MUMBAI 400049	ACA 22/12/2003
63	034002	Mr. PATIL SUBHASH KRISHNAT 501-B GHORPADE PETH, SHIVAJI ROAD, 208 PANNA CHAMBERS PUNE 411042	FCA 22/12/2003	78	036133	Mr. BHIDE MOHAN PRABHAKAR BUILDING NO. 7, FLAT NO. 83, VISHNU PRASAD CO. OP HSG SOC. LTD. MAHANT ROAD, VILE-PARLE EAST, MUMBAI 400057	ACA 22/12/2003
64	034076	Mr. SAWANT SUDHIR SHANTARAM C/O PANNELL KERR FORSTER, PO BOX 13084, DUBAI 0 UAE	ACA 22/12/2003	79	036259	Mr. ATHALE HARISHKUMAR YESHWANTRAY 2327 VALLEY FOREST WAY, OAKVILLE, L6H8W8 ONTARIO 0 CANADA	ACA 22/12/2003
65	034114	Mr. DESAI DHAVAL SUMANTRAI 405 GAYATHI OPP PRATAP SOC., J P RD, ANDHERI-W, MUMBAI 400058	FCA 22/12/2003	80	036308	Mr. MURALIDHARAN B P.O. BOX 3072, KAMPALA, KAMPALA 00, UGANDA,	ACA 01/10/2002
66	034386	Mr. NAGORI RAMESHCHAND DIPCHAND SENIOR MANAGEMENT CADER, RELIANCE INFOCOM LTD., FDSBERY ROAD (NEAR FCI CANTEEN), DFF REAY ROAD ST (E), MUMBAI 400083	ACA 22/12/2003	81	036410	Mr. NAGESWARAN KOMASAMURADRAM P 58, PATRAKAR, NEAR KALA NAGAR, BANDRA-EAST, MUMBAI 400051	ACA 22/12/2003
67	034418	Mr. MALUSTE RAJIV GOVIND 18, RICHARD'S PALACE, LONDON SW3 2LA, LONDON 00 U.K.	ACA 01/10/2002	82	036457	Mr. PATIL BADHU LAXMAN JUPITER TEXTILE MILLS QTRS, 1ST FLOOR MAIN GATE, B M ROAD, ELPHINSTONE, MUMBAI 400013	ACA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
83	036698	Mr. MUNESH KHANNA MANAGING DIRECTOR, N.M. ROTHCHILD & SONS(INDIA) PVT LTD., 52 MAKER CHAMBERS VI, 5TH FLOOR, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	FCA 22/12/2003	97	039405	Mr. GOSWAMI YOGESH RAGHUNATHLAL 2 MANU BHAVAN, BHAGAT SINGH ROAD, VILE PARLE WEST, MUMBAI 400056	ACA 22/12/2003
84	037098	Mr. MEHTA PRATIK VIPINBHAI LAXMINARAYAN NIWAS, BAPUBHAI VASHI ROAD, VILE PARLE WEST, MUMBAI 400056	FCA 22/12/2003	98	039474	Ms. GARG PREETI 6/108 JUHU TARANG NEW D N NAGAR, ANDHERI (W), MUMBAI 400053	FCA 22/12/2003
85	037156	Mr. SHASTRI ABHAY ANANT 302 B NAHAYAN CHAMBERS, NARAYAN PETH, PUNE 411030	FCA 22/12/2003	99	039810	Mr. HEJMADI VINOD SHANKER A 202 SILVER CLOUD, SUNDER NAGAR, KALINA, MUMBAI 400098	ACA 22/12/2003
86	037182	Ms. CHITRA RAMKRISHNA NEAT HOUSE, 601 SIXTH FLOOR, CDLLEGE GULLY OFF S K BOLE ROAD, DADAR, MUMBAI 400028	FCA 22/12/2003	100	040725	Mr. ABHYANKAR RAJA SHEKHAR SADASHI LANE NO.7, BLOCK NO.7, MERIGOLD APT., DAHANUKAR COLONY, KOTHARUD, PUNE 411029	ACA 01/10/1998
87	037412	Mr. SHAH ASHOK SHANTILAL 357 NAGINDAS BUILDING, S V P ROAD, FIRST FLOOR, BLOCK NO. 1, MUMBAI 400004	ACA 01/10/1993	101	040739	Mr. GAITONDE ANANT MARUTI B-7 SHANTI CO-OP HSG SDC., MOGUL LANE, MAHIM, MUMBAI 400016	ACA 22/12/2003
88	037737	Mr. CHOKHARE SUNIL SHANKARRAO 25 TILAK NAGAR, NAGPUR 440010	FCA 22/12/2003	102	040748	Mr. GAONKAR CHANDRASHEKHAR MARUTI 4/1 VINAYANAND SOC., LINKING ROAD EXTN, SANTACRUZ (W), MUMBAI 400054	FCA 22/12/2003
89	037845	Mr. SARDAR RAJU PRABHUDEV R.P.SARDAR & CO., 302 BEUNA VISTA, HOLY CROSS, ROAD, I.C. COLONY, BORIVLI - W, MUMBAI 400103	FCA 22/12/2003	103	040894	Mr. CHAUHAN KIRIT NIHALCHAND STANDARD CHARTERED BANK, P.O. BOX - 999, DUBAI, U A E 0 U A E	ACA 22/12/2003
90	038142	Mr. MODY MUKESH NAVNITBHAI 8/438, BRAHMA NIVAS, 5TH, FLOOR, 14TH ROAD, KHAR, MUMBAI 400052	ACA 22/12/2003	104	040919	Mr. JOSHI PHADYUMAN MAHESHCHANDRA F. GANESH NIWAS, PRABHAT COLONY, NEAR BSES, SANTACRUZ, MUMBAI 400055	ACA 22/12/2003
91	038287	Mr. BHARGAT JHUMAR LAL PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, DESA CICADAS, P O BOX -11PWK, WEST JAVA, PURWAKARTA 41101 INDONESIA	FCA 22/12/2003	105	041245	Ms. JADHAV SUFRYA DINESH C/43, FARUAT CHS LTD., GUNSAGAR NAGAR, STATION ROAD, KALWA (WEST), KALWA 400605	ACA 01/10/2002
92	038379	Ms. MEHTA CHETNA PRATIK LAXMINARAYAN NIWAS, BAPUBHAI VASI ROAD, VILE-PARLE (WEST) MUMBAI 400056	FCA 22/12/2003	106	041514	Mr. NEGANDHI CHETAN DWARKADAS 115 CHURCHGATE CHAMBERS, 5 NEW MARINE LINES, MUMBAI 400020	FCA 22/12/2003
93	038536	Mr. RAMAMURTHY VENKATESHWARAN K C/O ALBA, CC 11, P O BOX 570, MANAMA, BAHRAIN 0 BAHRAIN	ACA 22/12/2003	107	041538	Mr. MAKARAND SHRIDHAR GHONGE PLOT NO 13, DEID NAGAR, KHAMLA ROAD, NAGPUR 440015	FCA 22/12/2003
94	038921	Mr. SHAH NISHID BABULAL 6-D DHAN RATNA APARTMENTS, OFF JAYPRAKASH RD, BHARDAWADI, ANDHERI WEST, MUMBAI 400069	ACA 22/12/2003	108	041587	Mr. JAIN AKSHAY RAJENDRA 143, B WING, MITTAL TOWER, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA 22/12/2003
95	039036	Mr. TUSHAR BHUPATLAL SARDA C/7, PATEL SOCIETY, NEHRU ROAD, VILE PARLE (EAST), MUMBAI 400057	ACA 22/12/2003	109	041613	Mr. JAIN NAVARATAN MAL 34, VIJAY BUILDING, BESIDES ORKAY SILK MILLS, ANDHERI - KURLA ROAD, SAKI NAKA, MUMBAI 400072	FCA 22/12/2003
96	039222	Mr. KULKARNI BALWANT KESHAV DIRECTOR (ACADEMICS), THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA, ICSI HOUSE, 22 INSTITUTIONAL AREA LODI ROAD, NEW DELHI 110003	FCA 22/12/2003	110	041741	Mr. SALGAONKAR RAJENDRA DATTARAM 401, RACHANA, NEAR LAXMI TEMPLE, EKSAR ROAD EXTENSION, BORIVLI (W), MUMBAI 400092	ACA 22/12/2003
				111	041797	Mr. AHIRE SHIVAJI MOTIRAM 611/4 PRIYADARSHANI NAGAR, NR S T COLONY SANGVI, PUNE 411027	FCA 22/12/2003
				112	042180	Mr. SHRIYAN VEDPRAKASH M M S VEDPRAKASH & CO., 601 CARNATION, "B", OFF : YARI ROAD, VERSOVA ANDHERI (E) MUMBAI 0	FCA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
113	042312	Mr. SHAH MANISH CHANDULAL KAROL 27 ROAD, OPP REVIVAL ICCU NURSING HOME, BANDRA WEST, MUMBAI 400050	ACA 22/12/2003	128	044209	Mr. ARJAN GIDWANI GIDWANI & CO., 56F, MAKER TOWERS, 5TH FLOOR, CUFFE PARADE, MUMBAI 400005	ACA 22/12/2003
114	042327	Mr. MAHAJAN MAKARAND HARISHMAL M/S MAKARAND'S ASSOCIATES, FLAT NO 7 3RD FLOOR, VYAS APT. CSMANPURA, GAJANAN NAGAR, AURANGABAD 431005	ACA 22/12/2003	129	044379	Mr. AGRAWAL VINEET VINOD M/S INTERNATIONAL HOMETAX LIMITED, 401 SUMER KENDRA, PANDURANG BUDHKAR MARG, WORLI, MUMBAI 400018	ACA 22/12/2003
115	042494	Mr. PANCHAL JITENRA KALYANJI FLAT-B 206 HARSHAPARK, CHANDAVARKAR RD, BORIVALI W, MUMBAI 400092	ACA 22/12/2003	130	044394	Mrs. VIMAL PANWAR B-87 MIRA DARSHAN, MTNL ROAD, MIRA ROAD (EAST), MIRA ROAD 0	ACA 08/12/2000
116	042707	Mr. GOKAL GANDHI RAJESH KISHORE 206 APNAGHAR, SAMUEL STREET, VADGAD, MUMBAI 400003	ACA 22/12/2003	131	044557	Mr. SHAH BHARAT NIHALCHAND C/O. MAHESH KUMAR BHAVARLAL, 12/14, CHAMPAGALI, NR. M.J. MARKET, MUMBAI 400002	ACA 22/12/2003
117	042820	Mr. HANIRWASIA JAGDISH VISHWAMBHAR B/S. MOHAMADI APARTMENTS, RANI SATI MARG, MALAD (EAST) MUMBAI 400097	FCA 22/12/2003	132	044594	Mr. TRIPATHI TARUN SURENDRAPRASAD PLOT NO 37 SECOND FLOOR, SECTOR 10 A VASHI, NAVI MUMBAI 400703	FCA 22/12/2003
118	042834	Mr. GORADIA NITIN KUMAR RASIKAL A/604 CHANDRA APARTMENTS, MANDEPESHWAR ROAD, BORIVALI WEST MUMBAI 400103	FCA 22/12/2003	133	044620	Mr. ALOYSIS WICKET C- HILL GRANGE, D' MONTE PARK ROAD, BANDRA - WEST, MUMBAI 400050	ACA 22/12/2003
119	042938	Mr. VIHA KHUSHALCHAND DUNGARSHI 3308, KNOWELLWOOD LANE, HOMEWOOD, ILLINOIS III 60430, USA	ACA 01/10/2002	134	044647	Mr. RANKA BALWANT KUMAR A/1/01 YOGI PALACE, YOGI NAGAR EKSAR ROAD, BORIVALI WEST MUMBAI 400091	ACA 22/12/2003
120	042960	Mr. PURUSH CHIHENDRA KUMAR 16 ZAIF MARZIL, 39 SHAM SETH STREET, ZAVERI BAZAR, MUMBAI 400002	FCA 22/12/2003	135	044683	Ms. BHARGAVA SHUBHANGI G2/A-15 SIDDHARTH NAGAR, BORIVALI (E), MUMBAI 400066	ACA 22/12/2003
121	043000	Mr. HEGDE GANAPATI SHIVARAM GANAPATI HEGDE & CO., S-2/302 SUNDER NAGAR, S V ROAD, MALAD(WEST), MUMBAI 400064	FCA 22/12/2003	136	044648	Mr. IYER KUMAR PARAMESHWARAN 1/B/88, PIRAMAL NAGAR, S V ROAD, GOREGAON W, MUMBAI 400062	ACA 22/12/2003
122	043001	Ms. DORWANI MEENA BEHARILAL F-302 SAMEER CO OP SOCIETY, 70 BUNGLOWS VASWANI MARG, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400058	ACA 08/12/2000	137	045081	Mr. JAYANTHILAL DANGI A/14 PRARTHANA BUILDING, SWAGTAM COMPLEX, JESAL PARK, BHAYANDAR (EAST) BHAYANDAR 401105	FCA 22/12/2003
123	043237	Mr. MAYUR NAGARDAS SHAH 57/2-3 KOMAL VILLA 458, SUKHUMVIT SOI 12, BANGKOK 10110 THAILAND	FCA 22/12/2003	138	045083	Mr. SRIDAR SWAMY 4, BASANT GARDENS, NEXT TO ATUR PARK, U.N.PURAV MARG, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA 01/10/2002
124	043855	Mr. SHAH ASHISH MANGILAL 217 VARDHAMAN CHAMBERS II FLOOR, 17 CAWASJI PATEL ST FORT, MUMBAI 400001	FCA 22/12/2003	139	045096	Mr. ANTHONY PAUL VELIYL NCB 9TH FLOOR, P O BOX 3555, JEDDAH 21461 SAUDI ARABIA	ACA 22/12/2003
125	043894	Mr. KOTHARI AKSHAY JAYANT JAY BHATRA VILLA, S V P RD, BORIVALI (W), MUMBAI 400092	FCA 22/12/2003	140	045361	Ms. JYOTI DNYANESH DARSHANE S 06A WINDSOR COURT, DLF, PHASE IV GURGAON 400057	ACA 08/12/1997
126	043949	Mr. DANGI TEJ PRAKASH 3-B KAMGAR NAGAR, S G BARVE MARG, KURLA EAST, MUMBAI 400024	ACA 22/12/2003	141	045392	Mr. SHENOY GANESH A/12, DIVINE LAND, JESAL PARK, BHAYANDAR-EAST, BHAYANDAR 401105	ACA 22/12/2003
127	044035	Ms. MAHARAJ VINOD KALWACIA AGA A-18 RADHAKRISHNA, 4TH FLOOR SWASTIK PARK, CHEMBUR MUMBAI 400070	22/12/2003	142	045609	Mr. MUNDRA PAWAN KUMAR MANKCHAND O-508 USHA NAGAR, VILLAGE ROAD, BHANDUP (WEST), MUMBAI 400078	FCA 22/12/2003
				143	045682	Mr. MEHTA CHETAN KUMAR A/201 RAHEJA GREEN, RAHEJA ESTATES KULUPWADI, BORIVALI (E) MUMBAI 400066	FCA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
144	045889	Mr. VENKATAGIRI VASUDEVAN 45/5, ANHOOP SUBWAY ROAD, SANTACRUZ WEST, MUMBAI 400054	ACA 22/12/2003	159	047316	Ms. MILLWALA HABILA AHMED KAPADIA MANSION, 4TH FLOOR, DR A NAIR ROAD, MUMBAI 400011	ACA 22/12/2003
145	045734	Mr. NAYAR SURENDRAN KRISHNAN 2/19 D N NAGAR, ANDHERI WEST, MUMBAI 400058	ACA 22/12/2003	160	047544	Mr. DUBEY GHANSHYAM RAJDEO SHOP NO 6, BLDG B-5 SECTOR-2, SHANTINAGAR, MIRA ROAD (EAST), MIRA ROAD 401107	FCA 22/12/2003
146	045823	Mr. AMBIKE SANTOSH SHAMSUNDAR NO 68 BAYSHORE ROAD, #08-08 COSTA DEL SOL, SINGAPORE 469966 SINGAPORE	ACA 22/12/2003	161	047571	Ms. THADANI HIRU DAYAL HOUSE NO 316, AREA 643, NUVAIDRAT, BAHRAIN	ACA 01/10/1998
147	045879	Mr. JANASWAMY VENKATA RAVI KUMAR FLAT NO 508, VISHNU RESIDENCY C BLOCK, STREET NO 11, GANDHI NAGAR, HYDERABAD 80	ACA 22/12/2003	162	047806	Mr. GANDHI MAYUR NARESHBHAI A-601 KAUSTUBH PARK CHS LTD., S V P ROAD, NEXT TO BHAGAVATI HOSPITAL, BORIVALI (WEST) MUMBAI 400103	ACA 22/12/2003
148	045946	Mr. CHAVDA BHARATKUMAR GOVINDSINH 12/A SHANTIMANI APARTMENTS, NR PREMCHAND NAGAR, BEHIND SATELLITE, SATYAGRAH CHHAVNI, AHMEDABAD 380015	ACA 22/12/2003	163	047847	Mr. AGRAWAL ANIL GOVIND B-1, GREENLAND APARTMENTS, FLAT NO 8C, J/604, J B NAGAR, ANDHERI (EAST) MUMBAI 400059	ACA 22/12/2003
149	045994	Mr. GUPTA SANJAY SURESH PRASAD FLAT NO 108 L&T SOUTH CITY, BILEKAHALLI, OFF BANNARGHATTA RD, BANGALORE 560076	FCA 22/12/2003	164	048303	Mr. KRISHNAN P P R 7, MARYLAND, 14TH ROAD, PLOT NO 96, BANDRA - WEST, MUMBAI 400050	ACA 22/12/2003
150	046016	Mr. ATUL MADHUKAR KULKARNI 2/NARENDRA, SENAPATI BAPAT ROAD, PUNE 411016	FCA 22/12/2003	165	048452	Mr. JAIN CHANDU KESHRIMAL 155/24 PANJRAPOLE ROAD, OPP SURYANAH WADI, MUMBAI 400004	ACA 22/12/2003
151	046384	Mr. GOTLASETH ADIL FUROKH 9 LOTUS COURT, J TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400020	ACA 22/12/2003	166	048742	Mr. KULKARNI SHANKAR GAJANAN A/4 PUSHPAJI CRDSS LANE - 6, PANDURANG VADI GOREGAON (E), MUMBAI 400063	ACA 22/12/2003
152	046779	Mr. SHAH SANJAY M A-12 SAMANDHAR NAGAR, RANNA PARK, GHATLODIA, AHMEDABAD 380061	ACA 22/12/2003	167	048792	Mr. RAJE NITIN NANDAKUMAR 16/B, DADARKAR BLDG., CHITILE PATH, DADAR, MUMBAI 400028	ACA 22/12/2003
153	046791	Ms. SHUBHADA ARVIND GANDHI C/O P S VENKATACHALAM, COLGATE-PALMOLIVE (PNG) LTD, VOCO POINT SEAGULL STREET, P O BOX-881 MOROBE PROVINCE, LAE O PAPUA NEW GUINEA	ACA 22/12/2003	168	048845	Mr. DESAI KUSH SIDDHARTHBHAI 98 RAM KRISHNA, APPA ROAD, COX TOWN, BANGALORE 560005	ACA 22/12/2003
154	046846	Ms. VANDNA JAGDISH SHARMA 4 MAHESHWAR GANGA, 1ST FLOOR PALINAKA, BANDRA, MUMBAI 400050	ACA 22/12/2003	169	048869	Mr. SHANBHAG GANGADHAR RAGHUVIR MULLA BLDG. 1ST FLOOR, OPP. CINE AASHA, PONDAGDA 403401	ACA 22/12/2003
155	046911	Mr. SHRENIK RAMESHCHANDRA VAISHNAV 6/1 VISHRAM PARK SOCIETY, OPP R C PATEL HIGH SCHOOL, VASNA, AHMEDABAD 380007	ACA 01/10/1998	170	048884	Mr. VENKATA KAMESHWAR RAO ADHIKARLA 301 TAJ APARTMENTS, AZAD LANE, OFF S V ROAD, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400058	ACA 22/12/2003
156	047023	Ms. LOPEZ MANISHA JUSTIN A/15 YASHODHAN SOC. 5TH ROAD, J P NAGAR, GOREGAON (EAST) MUMBAI 400063	ACA 22/12/2003	171	049011	Mr. GALA MULRAJ CHANDULAL 801 GOPAL SADAN, JAME JAMSHED ROAD, MATUNGA, MUMBAI 400019	ACA 22/12/2003
157	047045	Mr. SINGHAL RAJKUMAR A/401 STERLING COURT, MAHESHWARI NAGAR, MAROL MIDC ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI 400093	ACA 22/12/2003	172	049033	Mr. SARAF DINESH BANWARILAL 402 B WING, ROSE GARDEN APTS, SIDHIVINAYAK NAGAR, MIRA - ROAD (E) THAJE 401104	ACA 22/12/2003
158	047069	Ms. LAUD REKHA PADMAKAR 19, SNEHA SAGAR, P BALU MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025	ACA 22/12/2003	173	049204	Mr. JAIN PRADEEP KUMAR 107, INDO WORLD COMPLEX, NEAR PURUSHOTTAM APARTMENTS, BEHIND KARIWALA SCHODL, CIVIL CHAR RASTA SURAT 0	ACA 22/12/2003
				174	049270	Mr. ENWRIGHT JOSEPH DE SALES KPMG, 1 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN 1, IRELAND	ACA 01/10/2002

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
175	049293	Ms. PICARDO SONIA ROSE KPMG LLP, YONGE CORPORATE CENTRE, 4100 YONGE STREET STE 200, TORONTO M2P2M3, CANADA	ACA 22/12/2003	190	058465	Mr. PRAMOD NAIR D-8 2ND FLOOR, ENDEAVOUR SOCIETY, 90 FEET ROAD, MULUND (EAST), MUMBAI 400081	ACA 22/12/2003
176	049302	Ms. HEERA SAMEERA HATIM CITIGROUP CENTRE, BKC, 5TH FLOOR, BANDRA (EAST), MUMBAI 400051	ACA 22/12/2003	191	057234	Mr. KUBALAY GHOSH AH 331 SECTOR II, SALT LAKE CITY, KOLKATA 700091	ACA 01/10/1999
177	049380	Mr. MEHTA KETAN PRABHAKAR E/7 MODEL HOUSE, PROCTOR ROAD, MUMBAI 400004	ACA 22/12/2003	192	058274	Mr. BARASIA NARAYAN 51B/14 VRINDAVAN SOCIETY, THANE (WEST), THANE 400601	ACA 22/12/2003
178	049364	Mr. ADVANI RABEL SACHU B/2 SINDHI NAGAR, NEAR WORLI BUS DEPOT, WORLI, MUMBAI 400025	ACA 22/12/2003	193	071812	Mr. SUNDAR SANMUKHANI 19/160 FORT MANSION, OFF BRITISH HOTEL PLANE, BOMBAY SAMACHAR MARG, FORT, MUMBAI 400023	FCA 22/12/2003
179	049541	Ms. VAZE SUMEDHA RAMESH C/O S H KELKAR & CO LTD., L B S MARG, MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA 22/12/2003	194	075019	Mr. TDSHNIWAL RAMAVTAR GMR CHAMBERS, 108 HEERA PLAZA, NEAR TELEPHONE EXCH, C A ROAD, NAGPUR 440008	FCA 22/12/2003
180	049578	Mr. SALIAN RAJESH KRISHNAPPA FLAT NO 9 MIRAV VAKOLA CHS LTD., ASHOK NAGAR ROAD, VAKOLA BRIDGE, SANTACRUZ (EAST) MUMBAI 400055	ACA 01/10/2002	195	077141	Mr. ANIL KUMAR BAJPAI C-3 SURYARATH COMPLEX, PANACHWATI, AHMEDABAD 380015	ACA 22/12/2003
181	049773	Mr. VANVAR GIRISH PAMAN 202 A PEARL APARTMENTS, 3RD CROSS LANE, LOKHANDWALA COMPLEX, ANDHERI WEST, MUMBAI 400053	ACA 22/12/2003	196	078721	Mr. KUMBHAT ANUJ 301 SUNDERAM, 5 B RAHEJA COMPLEX, NR TIMES OF INDIA, MALAD EAST, MUMBAI 400037	ACA 22/12/2003
182	049826	Mr. CAPOOR VIVEK JAGDISH 43 ABHILASHA, 43 PALI HILL, BANDRA, MUMBAI 400050	ACA 22/12/2003	197	081591	Mr. OM PRAKASH A-203 MOTA MAHAL, LOKHANDWALA COMPLEX, ANDHERI WEST, MUMBAI 400053	FCA 22/12/2003
183	049875	Mr. GADRE SHAILESH VISHWAS NICHOLAS PIRAMAL INDIA LTD., ADMIN BLDG, MORARJI MILLS COMPOUND, PAREL, MUMBAI 400012	ACA 22/12/2003	198	090867	Mr. GHOSLER AMAR DEEP SINGH C-6/7, LIC COLONY S V ROAD, SANTACRUZ (W), MUMBAI 400054	ACA 22/12/2003
184	049888	Mr. AMIT RASIKLAL SHAH 42, LAXMI NIVAS, M G ROAD, MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA 01/10/2001	199	091080	Mr. GUPTA NEERAJ ESSAR TELEHOLDINGS, ESSAR HOUSE, MAHALAXMI, MUMBAI 400034	ACA 22/12/2003
185	049910	Mr. SONI PRAMOD GYANCHAND BANK OF AMERICA, EXPRESS TOWERS, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA 22/12/2003	200	094136	Mr. RAJIB LOCHAN PATTANAYAK AT/PO SAINKUL, DIST KEGUNJAR, ORISSA 758043	ACA 01/10/2002
186	050294	Mr. ASHIM KUMAR DEY BHOWMICK 161 YUGDHARMA, OPP SAB-KUTCH SUPERMARKET, NEW LINK ROAD, GOREGAON (W), MUMBAI 400062	FCA 22/12/2003	201	100042	Ms. JANASWAMY VANI RAVI KUMAR FLAT NO 508 VISHNU RESIDENCY BLOCK, STREET NO 11, GANDHI NAGAR, HYDERABAD 500080	ACA 22/12/2003
187	050712	Mr. KORANI YOGESH CHANDRA 6 MADHAV KUNJ, OERASAR LANE, GHATKOPAR (E), MUMBAI 400077	ACA 22/12/2003	202	100085	Mr. RAJENDRA DEVIDAS PURANIK 17/B-32 ONKAR CHS LTD., SHIVDHAM, FILM CITY RD, MALAD (E), MUMBAI 400097	FCA 22/12/2003
188	052001	Mr. JATANIA NITIN CHANDRA FLAT NO 9 BHANU KUNJ, 5 TEJPAL ROAD, VILE PARLE (EAST), MUMBAI 400057	FCA 22/12/2003	203	100165	Mr. VENKATESH PARAMESHWARAN B/12 SHIV ASHISH, KELKAR PATH, RAMNAGAR, DOMBIVALI (E) DIST THANE DOMBIVALI 421201	ACA 22/12/2003
189	055885	Mr. SUVABRATA GUHATHAKURTA IDBI BANK, CORPORATE OFFICE, TRADEVIEW OASIS COMPLEX, P B MARG LOWER PAREL (W), MUMBAI 400013	ACA 22/12/2003	204	100195	Mr. ABHIJIT MADHAV KARANDIKAR C/O M/S AL-HABTOOR MOTORS CD LLC, P O BOX - 19879, DUBAI 0, UNITED ARAB EMIRATES	FCA 22/12/2003
				205	100439	Mr. GANGULY ARUP BISHNU 404 OM PLAZA PLOT NO96, SECTOR 2, KOPARKHARANE, NAVI MUMBAI 400709	ACA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
206	100957	Mr. BHUTWALA DARSHAN JAYVADAN 401 WINDSOR PLAZA, R C DUTT ROAD, VADODARA 390007	ACA 22/12/2003	222	102348	Ms. HUZURBAZAR ASHWINI GIRISH B/8 BHAGYODAYA CO OP STY., TFS 6 LINKING RD EXT, PLOT NO 9/10, SANTA CRUZ (WEST), MUMBAI 400054	ACA 22/12/2003
207	101013	Mr. AGARWAL KANHAIYALAL BRIJKISHOR ELEPHANTA BLDG NO 6/27, GAUSHALA LANE, MALAD EAST, MUMBAI 400097	ACA 08/12/2000	223	102504	Mr. KABRA ATUL BRJMOHAN D/43 MANAV MANDIR, 17TH ROAD, SIDHARTH NGR., GOREGAON W, MUMBAI 400062	ACA 22/12/2003
208	101060	Mr. YOGESH SANTOSH PATKI 311 CHURCHGATE CHAMBERS, NEW MARINE LINES, MUMBAI 400029	ACA 22/12/2003	224	102554	Ms. IYER ARUNA SRINIVASAN SC 14 KUSUMBA, VASANT VIHAR, THANE (WEST) THANE 400601	ACA 22/12/2003
209	101092	Mr. KOTHARI NILESH PRAVINCHANDRA 7/125, MAHAVIR COTTAGE, GORODIYA NAGAR, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400077	ACA 22/12/2003	225	102738	Mr. SHANKER VENKATASUBRAMANIAN 12 DHARMA SHASTRIA, 25 A J P. ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI 400058	ACA 22/12/2003
210	101372	Ms. GOTLA KAMALRUKH ADIL 9 LOTUS COURT, J TATA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI 400020	ACA 22/12/2003	226	102809	Mr. AGRAWAL HEMANT DEENDAYAL A/404 VASANT SAGAR GANGA CHS LTD., THAKUR VILLAGE, KANDIVLI (EAST), MUMBAI 400101	ACA 22/12/2003
211	101417	Mr. YUSUF SALEHBHAI SINGAPOREWALA 79 MOHAMEDI HOUSE, 1ST FLOOR R NO 16/17, MOHAMEDALI ROAD, MUMBAI 400003	ACA 22/12/2003	227	102826	Mr. GUPTA KAMLESH KUMAR CHHOTELAL B/506 BLDG NO 1, KOLDONGRI CHS LTD., PARSIWADA SAHAR ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI 400099	ACA 22/12/2003
212	101458	Mr. JAJODIA ALOK KUMAR RAMAWTAR 17032 SATYAM TOWERS 17TH FLOOR, 90FT ROAD THAKUR COMPLEX, KANDIVLI (E), MUMBAI 400101	ACA 22/12/2003	228	102913	Mrs. MADHUMITA SHRIRANG BAL 7/14 SHWAPNA, OSWAL PARK, POKHARAN ROAD NO 2, THANE 400601	ACA 22/12/2003
213	101601	Ms. SHARMA ANJU C/O SUNIL GUPTA, A/609 SUYOG CHS., TPS III OPP DONBOSCO, BORIVALI WEST MUMBAI 400092	ACA 22/12/2003	229	103001	Mr. K C RAJESH MADHAVAN 512/C RAHUL ECLAVE, SAIB/ BA NAGAR, NEXT TO MUNICIPAL GARDEN, BORIVALI (W) MUMBAI 400092	ACA 22/12/2003
214	101705	Mrs. TRUSHA MONESH BHUJWANI 201 DHOOP CHAUN SOCIETY, 4TH FLOOR FLAT 8, TPS III BANDRA, MUMBAI 400050	ACA 22/12/2003	230	103039	Mr. NARULA GURDEV SINGH MANJIT SINGH B/501, EXPRESS APARTMENTS, YARI ROAD, VERSOVA, MUMBAI 400061	ACA 22/12/2003
215	101814	Mr. AMISH DHANESH GAGLANI 403 SHREE NIDHI APARTMENTS, CAMA LANE, GHATKOPAR (W), MUMBAI 400086	ACA 22/12/2003	231	103133	Mr. SHAH AMIT HEMENDRA 77/19 MARINE DRIVE F ROAD, PATAN JAIN MANDAL BLDG NO2, 3RD FLOOR, MUMBAI 400020	ACA 22/12/2003
216	101856	Mr. DAHAD AAKASH RAMESHCHANDRA 3 VINI APARTMENT, 2093 SADASHIV PETH, PUNE 411030	ACA 01/10/2002	232	103225	Mr. MODI NIRANJAN VASANTLAL 22 C/704 BIMBISAR NAGAR, M H A D A, NEAR SRP CAMP, W E HIGH WAY GOREGAON (EAST), MUMBAI 400065	ACA 22/12/2003
217	101895	Mrs. SHAMEEM TANVEER FLAT NO 203 A WING, ASMITA ORCHID 1, NAYA NAGAR, NR N.H. ENGLISH ACADEMY, MIRA ROAD (EAST) MIRA ROAD 401107	ACA 22/12/2003	233	103313	Mr. NARKAR YATIN ANANT 4, DAIVADNYA DNYATIGROH, PADMABAI THAKKAR ROAD, SHIVAJI PARK, DADAR, MUMBAI 400028	ACA 22/12/2003
218	102004	Mr. PRATEEK JAIN CROWN B-504, VASANT MARVEL, OFF WESTERN EXPRESS HIGHWAY, BORIVLI (WEST), MUMBAI 400066	FCA 22/12/2003	234	103380	Mr. RANAWAT JITENDRA HEERACHAND B-303 RAJSEEMA, IRANIWADI, R.D. NO. 3, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067	ACA 22/12/2003
219	102976	Mr. AWATE VIVEKANAND VISHNU D-283 VASHI PLAZA, SECTOR 17, VASHI, NAVI MUMBAI 400703	ACA 22/12/2003	235	103415	Mr. ASHWIN MITTAL 17TH FLOOR MITTAL TOWER 'B' WING, 210 NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA 22/12/2003
220	102192	Mr. KUNAL PRAVIN SAHAH 12 SUNBEAM CHAMBERS, III FLOOR, 7-C NEW MARINE LINES, MUMBAI 400020	ACA 22/12/2003	236	103442	Ms. RATHI POOJA ANAND 502 JYOTI, RUNGTA LANE, NAPEANSEA ROAD, MUMBAI 400006	ACA 22/12/2003
221	102224	Mr. THITE ANAND SHRIHARI P O BOX - 12416, DAR ES SALAAM 0, TANZANIA	ACA 22/12/2003				

S.No.	MRN	Member Name & Address		S.No.	MRN	Member Name & Address	
237	103467	Ms. GEEJA SHASHI MEHRA 4B/704 7TH FLOOR, GREEN MEADOWS, LOKHANDWALA COMPLEX, AKURLI ROAD KANDIVLI(E), MUMBAI 400101	FCA 22/12/2003	251	104565	Mr. SAMPATH THARACINGH UCHIL 87/24 MAHINDRA NAGAR, MALAD EAST, MUMBAI 400097	ACA 22/12/2003
238	103476	Ms. VAISHNA NAVANILAL SHAH 143/4298 KANNAMWAS NAGAR 2, VIKHROLI, MUMBAI 400083	FCA 22/12/2003	252	104712	Mr. VIVEK KUMAR GANGWAL 302 MARATHON HEIGHTS, PANDURANG BUDHKARI MARG, WORLI, MUMBAI 400013	ACA 22/12/2003
239	103499	Ms. RAO SHAILAJA ADHIKARLA 301 TAJ APARTMENTS, AZAD LANE, OFF S V ROAD, ANDHERI (WEST), MUMBAI 400058	ACA 22/12/2003	253	104716	Mr. ALPESH MAHESHKUMAR DALAL 602-B, NEW PARK AVENUE COOP. HSG. SOC. LTD., DHANUKARWADI, M.G. ROAD, KANDIVLI (W), MUMBAI 400067	ACA 22/12/2003
240	103535	Mr. JAYANT BHASKAR SHINDE B-2 RAJSHREE TOWER, NEAR PRATAP CINEMAX, KOLBAD, THANE WEST, THANE 400601	FCA 22/12/2003	254	104974	Mr. RAKESH MAHASHANKAR JOSHI 117, VEENA BEENA SHOPPING CENTRE, GURU NANAK ROAD, OPP BANDRA STATION, BANDRA - WEST MUMBAI 400050	FCA 22/12/2003
241	103619	Ms. IYER SUBASHREE NEELAKANTAN A2 504 VEDANT COMPLEX, DIP KOLIS FACTORY, VARTAK NAGAR, THANE 400606	ACA 22/12/2003	255	105060	Mr. NISHEETH NARENDRANATH CHATURVEDI 4/2, NAVYUG NIKETAN, 185, WALKESHWAR ROAD, TEEN BATTI, MALABAR HILLS, MUMBAI 400006	ACA 01/10/2002
242	103835	Mr. MUKESH KUMAR BOHARA C/O SURESH BOHARA, JAI SHREE DHAN CHS., R 7/6, BANGIUR NAGAR, GOREGAON (W), MUMBAI 400090	ACA 22/12/2003	256	105273	Mr. HIMANSHU BHARATBHAI DESAI JEEVAN SUDHA, B/36, 6TH FLOOR, JUHU LANE, ANDHERI WEST MUMBAI 400058	ACA 22/12/2003
243	103901	Mr. PRITAM SHASHIKANT ATHAVALE FLAT NO-101, SHRI VIDYANAND BLDG., NEAR OLD K. JTKAR ROAD, BHONDE COLONY ERANDAWANE, PUNE 411004	FCA 22/12/2003	257	105280	Mr. SAURABH PRAKASH PATHAK C/S SAGAR DARSHAN, 308 CARTER ROAD, KHAR (WEST), MUMBAI 400052	ACA 22/12/2003
244	103988	Ms. CHINMAI A SHAH 141 B AISHWARYA, GAUSHALA ROAD, OPP MUNICIPALITY SCHOOL, MULUND (W), MUMBAI 400080	ACA 22/12/2003	258	105448	Mr. DIPESH PRAMODKUMAR MODI F-3/3-3 PANCHDEEP CHS., SECTOR 28, VASHI, NAVI MUMBAI 400703	ACA 22/12/2003
245	104007	Mr. MOHAMMED HANIF LATIF SURVE M/S AQIL TRADING LLC, P O BOX 1486, DUBAI 9, UNITED ARAB EMIRATES	ACA 22/12/2003	259	105586	Ms. MEERA HARSHAD YASA 5TH UDAY DARSHAN, 103 NEHRU ROAD, SANTACRUZ EAST, MUMBAI 400055	ACA 01/10/2002
246	104254	Mrs. MAMTA KASHYAP RANATRA 1/1 OFFICER COLONY I R L, JUNAGADH VERAVAL ROAD, DIST. JUNAGADH, VERAVALO	ACA 22/12/2003	260	105577	Mr. NARAYAN SRINIVAS PONNUSWAMY A/20 SHANTHI NIKETAN, DONGRE PARKS CHS., NEAR R C F HOSPITAL, CHEMBUR, MUMBAI 400074	ACA 22/12/2003
247	104339	Mr. VISHWAKARMA KAMLESHKUMAR SURESH P/20 B M C BUILDING, MATCH FACTORY LANE, KURLA (W), MUMBAI 400070	ACA 22/12/2003	261	105586	Ms. KHUSHNAM PESHOTAN MOGAL C M BANAJI BLDG. FLAT NO 1, GOWALIA TANK, FORJET CROSS LANE, MUMBAI 400036	ACA 22/12/2003
248	104385	Mr. NARESH KANWAR YADAV 13 NEW NAVYUG HOUSE SOCIETY, 14 OLD HAMUMAN LANE, KALBADEVI, MUMBAI 400002	ACA 22/12/2003	262	105597	Ms. MANISHA RAMESH BHAGWAT 55 GOODWILL ASSURANCE BLDG., MAHIM TANK ROAD, MAHIM MUMBAI 400016	ACA 22/12/2003
249	104440	Mr. JAIN ANUP BIMALKUMAR D-111 UPVAN, UPPER GOVIND NAGAR, MALAD (E), MUMBAI 400087	ACA 22/12/2003	263	105625	Ms. AKHILA SREERAM C/O SHRI K. KRISHNASWAMY, 13/2 SANJIVANI BUILDING, K A S ROAD, MATUNGA, MUMBAI 400019	ACA 01/10/1999
250	104492	Mr. GANESH RAJEEVA SHETTY B104 SHREE SIDDHIVINAYAK TOWERS, TANK ROAD, ORLEM, MALAD WEST, MUMBAI 400064	ACA 22/12/2003	264	105788	Mrs. GOPA MIHIR GOR 57 LOVETT WAY, NEASDEN, LONDON NW10 0UN, UNITED KINGDOM	ACA 22/12/2003
				265	105788	Mr. KETAN HARSHADRAI MEHTA 14, PARESH SADAN, 353/8-28, V B LANE, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400077	ACA 22/12/2003
				266	105840	Mrs. ASHWINI ANAND SANKHE A-401 DEEPRATNA CHS., JUHU-VERSOVA LINK ROAD, 8/1 HDFC BANK, ANDHERI-W. MUMBAI 400053	ACA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	ACA	MRN	Member Name & Address	ACA	
267	105921	Mr BHAVINKUMAR MAFATLAL ZAVERI 1 BALGANAPATI APTS., EDULJI ROAD, NEAR PAWAR INDLES, CHARAI, THANE 400601	ACA 22/12/2003	270	107462	Ms PATIATH LEENA LAKSHMANAN CHALATAN 601 PARIATH 2 VASANT VIHAR, THANE 400601	ACA 01/10/2002
268	105954	Mr YUSUF NEMAT ALI SAYED C/O ERNST & YOUNG, P O BOX 2732, RIYADH 11461, SAUDI ARABIA	ACA 22/12/2003	271	107463	Mr SANDEEP KAILASH SITANI 102 HIRGLAKE HSG LTD., VINAYAK MANDIR ROAD, DIST THANE, BHAYANDAR WEST, BHAYANDAR	ACA 01/10/2002
269	106025	Mr SINGH ARVIND BANSRAJ C 203, RIZVI PARK, S V ROAD, SANTACRUZ-WEST MUMBAI 400054	ACA 22/12/2003	272	107515	Mr SANJAY KANU DEO MHATRE BLDG NO 57 BOY M NO 1468 KANNAMWAR ROAD NO.1, VIKTORIA (E), MUMBAI 400085	ACA 22/12/2003
270	106202	Mr KISHOR GANESHSHAI NAGAR 1ST FLOOR, NARSAJI SIDDHI VINAYAK COMPLEX, OPP MAMLATDAR OFFICE, DEESAJI	ACA 22/12/2003	273	107624	Mr MAHOU KUMAR SUSHIL KUMAR AGRAWAL 301 SHREE ARJUN CO OP HSG LTD., LEOPRA STREET 50 FEET CROSS ROAD BHAYANDAR 401101	ACA 22/12/2003
271	106211	Mr ASH LASHA BASANT PANT 3 BURTOR BAUG, L B S MARG, BHANDUP (WEST), MUMBAI 400078	ACA 22/12/2003	274	107624	Ms PRATILAGAR OPEETI C/O DOLBY APTS., PLOT NO 85-91 SECTOR 18A, NERUL, NORTH MUMBAI 400706	ACA 22/12/2003
272	105575	Mr RAVINDRA M VIJAYVARGIYA H 13 GOPURAM CO OP HSG SOCY, SOMANIGRAM, RAM MANDIR ROAD, GORGAON WEST, MUMBAI 400104	ACA 01/10/2002	275	107624	Mr RAHUL SINGH 111 ARIEL WALK BLDG., OPP. TITAN ROAD, PAPER MILL ROAD, MUMBAI 400012	ACA 22/12/2003
273	105576	Mr SABOO PREMPRAKASH 163 VARSHA SOCIETY, AJWA ROAD VADODARA 390019	ACA 22/12/2003	276	107624	Mr SAMIR PHAMOD DOSHI 5-608 PANCHSHEEL GARDENS, MAHARAJ NAGAR, DAHANUKR ROAD, KANDIVALI (WEST) MUMBAI 400067	ACA 01/10/2002
274	105593	Mr VISHWAS YESHWANT BEDIKAR 1002 MCC-KINS HSG LTD., MENTAL HOSPITAL ROAD, OPP OMNAN SADHANA COLLEGE, THANE 400604	ACA 22/12/2003	277	107624	Ms RENJIMA RAJESH SHAH 21 TIMBER MARKET, CHAMPA KESHAR BLD., PUNE 411042	ACA 22/12/2003
275	105594	Mr RAJESH KRISHAN SHARM 101 EHAJWATI APARTMENT, CHANDRA ROAD, MALI WADI, CHANDRA, MUMBAI 400064	ACA 22/12/2003	278	107624	Mr SUBRAMANIAN BALAKRISHNAN 101 HIRGLAKE APARTMENT, NEELKANTH VIHAR, SHAKESPEARE ROAD, KENWAL RAM MARG, VIDYAVIHAR (E), MUMBAI 400017	ACA 01/10/2002
276	105595	Mr RAJESH KISHORE BHANUSHALI 101 EHAJWATI CHAYA, UMESHNI, MALI WADI, CHANDRA 421232	ACA 22/12/2003	279	107624	Mr NITIN NALANKANT GATHANK 7A/15 HERODSMAN PARADE, WESTLEY WA 6011 AUSTRALIA	ACA 22/12/2003
277	105596	Mr PRAMOD PRABHAKAR JOSHI 102, MAULI APARTMENTS, OPP. GAOCEVI MANDIR, MANEPA ROAD, DOMBIVALI 421201	ACA 22/12/2003	280	107624	Mr SONU KISHORRA C/O DEEPAK KUMAR SODANI, 505, EHAJWATI APARTMENTS, S.V.H. ROAD, BURNHOLM, MUMBAI 400052	ACA 22/12/2003
278	107041	Ms SNEHSHA ASHOK GOKHALE UNIT III, ELECTRONIC SADAN, MIDC, BHUSARI, PUNE 411030	ACA 22/12/2003	281	107624	Mr RITESH KISHOR KUMAR VAXHARIA BHAVNA BLDG.F/R S.V. ROAD, KANDIVALI (W), MUMBAI 400067	ACA 22/12/2003
279	107049	Mr KALA NILESH 401 POOJA APARTMENTS, TEN STAR CO OP HSG SOCIETY, EKSAR ROAD, DPP YOGI NAGAR, BORIVALI - WEST MUMBAI 400092	ACA 22/12/2003	282	108102	Ms. DARSHIKA THACKER FLAT B 9 GROUND FLOOR TULSIBAUG, CHANDRAVARKAR CROSS ROAD 1, NEAR RAICHUPA CIRCLE, BORIVALI WEST, MUMBAI 400092	ACA 22/12/2003
280	107073	Mr RAJENDRA KUMAR JAIN 9/A MOTIBHAI BHIKHABHAI COLONY, NARANPURA, AHMEDABAD 380014	ACA 22/12/2003	283	108181	Mr SINHA MUKUL C/O R RAJARAM, NEW JUBH PARK APT, OPP HARE KRISHNA TEMPLE, MUMBAI 400049	ACA 22/12/2003
281	107080	Mr NILESH MANOHAR LULEY 246, SHANKAR NAGAR, NAGPUR 440010	ACA 01/10/2002	284	109224	Mr NIKHIL SATEESH RAJADHYAKSHA 99/5 ERANDWANE, V L PATIL PATH, OPP PRABHAT ROAD PUNE 411004	ACA 22/12/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	ACA		S.No.	MRN	Member Name & Address	ACA	
297	108236	Mr ANAND VINAY SHAH 18TH FLOOR EXPRESS TOWER, KARIMAN POINT, MUMBAI 400020	ACA	01/10/2002	313	109620	Mrs. REWA SANJAY DIXIT D 2114 SHWETA SOZ, PUNE SINGHAD ROAD, PUNE 411030	ACA	01/10/2002
298	108406	Mr AMIT KUMAR ASHOK TULSIAN 1101 PANGHSHEEL TOWER, GOKULDHAM, GOREGAON (E), MUMBAI 400063	ACA	22/12/2003	314	109635	Mrs. NEETA PRATUL HARIA FLAT NO B 19, AMBAJI APARTMENT, DEVIDAYAL CROSS RD., MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA	22/12/2003
299	108444	Mr BAKUL PANDHARINATH PATIL D-14/E-3 NEW HIGHWAY PARK, THAKUR COMPLEX, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101	ACA	22/12/2003	315	109652	Mr. AJAY KHATRI D 104 MARATHON COSMOS, NR SHOPPER STOP MARATHON AVENUE RD, OFF LBS MARG, MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA	22/12/2003
300	108525	Mr SHITESH C JOBANPUTRA B/20, SAIDHAM, R.P. CROSS ROAD, NEAR MUNICIPAL HOSPITAL, MULUND (WEST), MUMBAI 400080	ACA	22/12/2003	316	109676	Mr VATSALKUMAR HARISHBHAI PAREKH C 502 SIMANDHAR TOWER, JUDGES BUNGLOW ROAD, BODAKDEV, VASTRAPUR, AHMEDABAD 380015	ACA	22/12/2003
301	108556	Mr SAMEER R SHAH D 702 MARATHON COSMOS, LBS MARG, MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA	22/12/2003	317	109678	Mr PRASAD SURESH TARE VARITAS SOFTWARE SOLUTIONS PVT. LTD., SYMPHONY S NO 210A/1, RANGE HILLS, PUNE 411020	ACA	22/12/2003
302	108570	Mr FARUKH AHAMAD MOHAMMAD KHATRI C/O BLACK & DECKER (OVERSEAS) AG, P O BOX 5420, DUBAI 0	ACA	22/12/2003	318	109778	Mr PRASHANT ARVIND KHOPKAR A-3, 203, DHAVALGIRI, RAMBAUG COLONY, NEAR MIT COLLEGE, KOTHRUD, PUNE 411038	ACA	22/12/2003
303	108606	Mr NANDAN J MENON C/414 OM SAGGURI CHS., HOLY CROSS ROAD, I C COLONY, BORIVALI WEST, MUMBAI 400103	ACA	22/12/2003	319	109804	Mr MATHEW JOSEPH ANANTHANAM 41/695 CHITTOOR ROAD, COCHIN 682018	ACA	22/12/2003
304	108623	Mr GAURAV GUPTA 52 MAKER CHAMBERS IV, KARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA	22/12/2003	320	109850	Mrs. PRIYANKA D GUPTA A/20 EVERSWEET APTS., OPP PRATAP NAGAR, VERSOVA ROAD, ANDHERI, MUMBAI 400053	ACA	01/10/2002
305	108623	Mr ANISHKUMAR BALKRISHNA MEHTA C/O HARISHAKTI & CO 19/21 BOMBAY MUTUAL CHAMBERS, A DASHI MARG FORT, MUMBAI 400001	ACA	22/12/2003	321	109855	Ms RASHMI GANGASARAN GUPTA 4, BANDANA, 15TH ROAD, BANDRA WEST, MUMBAI 400050	ACA	22/12/2003
306	108665	Mr VIKAS SOMPRKASH MURARKA ICICI BANK LTD., BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI 400051	ACA	22/12/2003	322	109994	Ms. PAYAL JITENDRA SHAH MAHESANA MANSION NO 2, BLOCK 3, TEJPAL ROAD, VILE PARLE (EAST), MUMBAI 400057	ACA	22/12/2003
307	108933	Mr SAJJAD SADIQ RASUL 46-47 F.F. SADIQABAD, MANKAPUR, NAGPUR 440029	ACA	22/12/2003	323	110125	Mr VIREN MANILAL DEDHIA RAMWADI MAMAL NIWAS, NEAR PRAMANK STEEL, STATION ROAD, VIKHROLI EAST, MUMBAI 400083	ACA	01/10/2002
308	109009	Ms MEDHA MADHUSUDAN AMBARDEKAR 4/4 UDYAN CO OF HSG SOCY., NEAR GHATKOPAR BUS DEPOT, GHATKOPAR EAST, MUMBAI 400075	ACA	22/12/2003	324	110194	Mr. DUSHYANT DILIP NAVLAKHA C/O MR PARAG KAPDI, 501 PRATHAM APARTMENT, CITY LIGHT, SURAT 395007	ACA	22/12/2003
309	109220	Ms JASMINE MANECK PITHAWALLA 681 A KHAREGHAT ROAD, PARSEE COLONY, DADAR, MUMBAI 400014	ACA	22/12/2003	325	110230	Mr SIDDHARTHA KAR BLDG NO 2A 104 SHIV GANGA APTS., OFF CHINCHOLI BUNDER ROAD, MALAD WEST, MUMBAI 400064	ACA	22/12/2003
310	109276	Ms SANGEETA ANIL SAMANT 304/A, ROHAN RESIDENCY, BABHAI NAKA, OF RAM MANDIR RD, BORIVLI(W), MUMBAI 400092	ACA	22/12/2003	326	110243	Mr SHEKAR RAMAMURTHY A/6, ENDEAVOUR CHS., VIDYALAYA MARG, MULUND (E), MUMBAI 400081	ACA	22/12/2003
311	109402	Ms APURVI INDRABADAN MANIAR 1 KAILAS DEEP 3B BAJAJ ROAD, VILE PARLE WEST, MUMBAI 400056	ACA	22/12/2003	327	110391	Mr. GAURAV HARISINGH SHYAMSUKHA 2A/2B NAPLES, 9 SOBANI ROAD, CUFFE PARADE, MUMBAI 400005	ACA	22/12/2003
312	109568	Ms USHA TULSIAM VANDAVASI BLDG NO.9 FLAT NO.9, 2ND FLOOR, GODREJ HILLSIDE COLONY, C B S MARG, VIKHROLI WEST, MUMBAI 400079	ACA	22/12/2003					

S.No.	MRN	Member Name & Address	ACA	22/12/2003	S.No.	MRN	Member Name & Address	ACA	22/12/2003
328	110434	Mr RAJANGAM JAYAPRAKASH MAHADEVAN NO 6 SHRI RAJESHWARI SOCIETY, RAMBAUG LANE NO 4, KALYAN 421301	ACA	22/12/2003	343	112018	Mr PANKU LAL D-37/304 YOGI NAGAR BORIVLI (W), MUMBAI 400391	ACA	22/12/2003
329	110511	Mr RAMESHKUMAR GAIDIAL GUPTA 206 2ND FLOOR VISHAL CHAMBERS, VARIEFY SQUARE, SITABULDI, NAGPUR 440012	ACA	22/12/2003	344	112200	Mr MADHUR SHANSHING PANDURANG RAO D-1/102 JUMBO NARSHAN, NEAR HOTEL REGENCY, ANDHERI EAST, MUMBAI 400069	ACA	22/12/2003
330	110672	Mr K. KHIL SHIRISH MARATHE SHREEERAMKRUPA, 39/7 ERANDAWNE PUNE 411004	ACA	22/12/2003	345	113097	Mr PRAKASH TARACHANDBHAI KASAT 126 SUNRISE PARK, DRIVE IN RD, AHMEDABAD 380014	ACA	22/12/2003
331	110681	Mr DEEPAK MURARILAL DALMIA A 703 SARASWATI VASANT SAGAR, THAKUR VILLAGE, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101	ACA	22/12/2003	346	113158	Mr JIGAR PRAVINCHANDRA SHAH MAAM EQUITY RESEARCH, 31 A DR GOPAL RAO, DESHMUKH MARG, MUMBAI 400126	ACA	22/12/2003
332	110702	Ms. PREMA PROBIRKUMAR RUMA MUKHERJEE 12 CURRIE HOUSE, MAZAGAON DOCK LIMITED, DOCKYARD ROAD, MUMBAI 400010	ACA	22/12/2003	347	113224	Mr SATISH JAYARAM 33 SIMPLEX MILLS COMPOUND 30 K K MARG, SANT GADGE MARG CHOWK JACOB CIRCLE MUMBAI 400011	ACA	22/12/2003
333	110774	Mr KAPTIK VASANTBHAI SHAH 6 PRASAD BUILDING 3RD FLOOR, OPP TARA PATIL HOSPITAL, ABOVE MUMBE BANK S N ROAD, TAMBE NAGAR MULUND (WE. JT), MUMBAI 400080	ACA	22/12/2003	348	113718	Mr ARUN BIJAYSINGH BOTHERA 2/4605 - B, THOBASHERI SAGAMPURA, SURAT 395002	ACA	22/12/2003
334	110892	Mr. KEDAR SHARAD BANAVADIKAR D/4 CENTRAL BANK SOCIETY, DADABHAI CROSS RD NO.3, VILE PARLE (W), MUMBAI 400056	ACA	22/12/2003	349	113790	Mr VAIBHAV KUMAR AGARWAL 6A/3 EKATMATA NAGAR, JET NAGAR, ANDHERI EAST, MUMBAI 400059	ACA	22/12/2003
335	110955	Mr KIRIT MULCHAND LODAYA 262/70 ANANT NIWAS, NARSHINATHA STREET 3RD FLOOR, 60/61, MUMBAI 400009	ACA	22/12/2003	350	113990	Mr NAVAL KISHORE GIRRAJ KISHORE MALPANI 501 SEA VIEW CDOP HSG SOC BANGALUR NAGAR, GOREGAON (W), MUMBAI 400090	ACA	22/12/2003
336	111422	Mr. MANISHKUMAR BALKRISHNA PORWAI, A - 1 BALAJI APPARTMENT, KAGWADE MALA, ICHALKARANJI 416115	ACA	22/12/2003	351	114046	Mr VIKESH POPATLAL SHAH 4, MALHARAWADI, PODDAR BUILD, IV FLOOR, DADI SETH AGYARI LANE, MUMBAI 400002	ACA	22/12/2003
337	111483	Ms MADHUMATI SURESH SAPRE BLOCK NO 15/16 B WING, TORANA APARTMENT, ANDHERI SAHAR ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI 400099	ACA	22/12/2003	352	201641	Mr. BDNIE JOSEPH OFFICER, DEUTSCHE BANK AG, 22 KODAK HOUSE, D N ROAD, FORT, MUMBAI 400001	ACA	22/12/2003
338	111715	Mr. ASHRAF ABDULLA HALAI 204 BIDWALA APTS., DAWOOD BAUGH, ANDHERI (W), MUMBAI 400058	ACA	22/12/2003	353	202139	Mr. NAGARAJU P CHIEF MANAGER, CATHOLIC SYRIAN BANK HEAD OFFICE, ST MARRY'S COLLEGE ROAD, THRISSUR 680020	ACA	22/12/2003
339	111746	Mr. CHIRAG VINOD SHAH 802 AASHUTOSH 8TH FLOOR, KURLA TERMINUS ROAD, NEW TILAK NAGAR, CHEMBUR, MUMBAI 400089	ACA	22/12/2003	354	204530	Mr. SIVASWAMY N S NO 4 SRI KANCHAN CHS, RAJAJI PATH III, CROSS ROAD, DOMBIVALI EAST, DOMBIVALI 421201	ACA	22/12/2003
340	111881	Mr. SHRINIVAS CHELLAPPA NO.9, PUSHPARAG, GOSHALA RD., MULUND-W, MUMBAI 400080	ACA	22/12/2003	355	204890	Mr. KIDAMBI SURESH RANGARAJAN FLAT NO A - 502, CHAITANYA TOWERS, CO-OPERATIVE HSG SOC, PRABHADEVI, MUMBAI 0	ACA	01/10/2002
341	111939	Mr SAJID SALIM NATHANI C/O FARADOONI TRADING CO.L.L.C., P O BOX 3, DUBAI 0	ACA	22/12/2003	356	206547	Mr GOPIKRISHNAN M K FLAT NO 53 RAJEEV APTS, ZIG ZAG ROAD, PALI HILL, BANDRA WEST, MUMBAI 400050	ACA	22/12/2003
342	111977	Ms YAMINI SHANKAR PARAB B 18 SACHIN SOCIETY, NEAR MANGALA HIGH SCHOOL, CHENDNI, THANE EAST, THANE 400603	ACA	22/12/2003	357	210164	Mr BHADRI PRASAD THOTA H NO 12-1-130, PINNAVARI STREET, WARANGAL 506002	ACA	22/12/2003
					358	401475	Mr GULGULIA SUNIL KUMAR A 97 SHATRI NAGAR, BHILWARA 311001	ACA	22/12/2003

ASHOK HALDIA
(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

[illegible]

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
39	033219	MR. CHIVAKUMAR R 102, SNEH REGENCY, PLOT NO.79, SECTOR-29, VASHI, NAVI MUMBAI 400029	ACA 23/04/2003	42	033209	MR. MEHRA SUNILKUMAR HARBANSLAL C/O M L PURI & CO., 146 SHER-E-PUNJAB CHS, ANDHERI EAST, MUMBAI 400093	FCA 22/03/2004
40	033236	MS. VASANTHI JAYARAMAN FLAT NO 909, BRINDAVAN 2 B, POONAM NAGAR, ANDHERI(E), MUMBAI 400093	ACA 23/07/2002	43	033233	MR. AJAY MANOHAR DESHMUKH 106 BLUE HAVEN, RAHEJA VIHAR, CHANDIVLI, POWAI, MUMBAI 400072	ACA 15/06/2003
41	033237	MR. PARSHIVSHANKER TRIVEDI 402/17 PARISHRAM APTS., DR. JESSEFALLI ROW HOUSES, P O POLYTECHNIC, AHMEDABAD 380015	FCA 19/06/2003	44	033240	MR. KARVE ATUL GA. ANAN 15 KANTI BLDG., T.H. KATARIA MARG, MATUNGA ROAD - W., MUMBAI 400016	ACA 09/03/2004
42	033250	MR. CARVALHO FRANCISCO XAVIER 1017 SEECHNUT ROAD, OAKVILLE, ONTARIO L6J 7 P4, CANADA	ACA 18/04/2002	45	033576	MR. BHANDARY PRABHU RAM SHARDA NIWAS, KOSI COMPOUND, DILLI BAZAR, GPO BOX NO.3423, KATHMANDU, NEPAL	ACA 25/05/2002
43	033263	MR. DINESHCHANDRA UMIYASHANKER GOPIYANI 2/A VRANDAVAN, UMEDASH RAM ROAD, BORIVLI WEST MUMBAI 400092	FCA 05/08/2003	46	033618	MR. ANAND VASANT DESHPANDE PANDIT COMMERCIAL COMPLEX, MODI LANE-3, SITABULDI, NAGPUR 440012	FCA 08/04/2003
44	033032	MR. OM PRAKASH KARIWALA JCDM NO. 24, BLDG. NO 47, BR. 13 B VALEKAR STREET, KALBADEVI ROAD, MUMBAI 400002	ACA 24/07/2002	47	033746	MR. MANI S NARAYANAN THE ACC LTD., CEMENT MARKETING DIVISION, 9 BRABOURNE ROAD, KOLKATA 700001	ACA 30/08/2003
45	033284	MR. RAJARAMAN SWAMINATHAN IYER PUNJA & SONS LTD, 63 VITOGO PARADE, P O BOX 125, LAUTOKA O FUTISLANDS	FCA 12/02/2004	48	033954	MR. KAILASH CHANDRA MAHESHWARI 12 NIRANT APARTMENTS, 22 PRITAMNAGAR SOCIETY, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD 380036	FCA 23/01/2004
46	033028	MR. RISHNAN V 1, CENTURY APARTMENTS, PESCHIM SAGAR RD. 5, OPP. HIMACHAL MITRA MANDAL, CHEMBUR, MUMBAI 400089	ACA 02/05/2003	49	033989	MR. MEHTA DIPAKKUMAR MAINHARLAL B-18 SHALIMAR, S V ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI 400058	ACA 11/07/2003
47	033244	MR. PRADHANTAN NARIMAN PATEL 2111 1ST FLOOR, GODREJ BAUG, MADELANSEA RD, MUMBAI 400036	FCA 27/01/2004	50	034077	MR. TARA CHAND JAIN A-25 NANDANVAN NO 1, BEHIND ISRO, NEAR PRERNA TIRTH II, SATELITE ROAD, AHMEDABAD 380015	FCA 03/09/2003
48	033506	MR. KAPADIA KISHORE MADHAVDAS 26 DEWONSHORE DRIVE, CLIFTON NJ, USA 07013 USA	ACA 04/03/2004	51	034225	MR. JAYAWANT RAO SHIVAJI MAHIRE A 303 SUNRISE APARTMENT, FISHERIES UNIVERSITY ROAD, ARAM NAGAR II, VERSOVA, MUMBAI 400061	ACA 01/08/2003
49	033582	MR. GUPTA ASHOK KUMAR 1 A CINNAR, BRITANNIA GARDENS, AIRPORT ROAD, BANGALORE 560017	ACA 06/10/2003	52	034437	MR. SANJAY MAHADEV KAKATI 77A/11 BRINDABAN SOCIETY, MAJIWADE, THANE (WEST), THANE 400601	FCA 01/04/2003
50	033575	MR. NAIK ASHOK DAYALJI 104 AMI BUILDING, JUNCTION OF 6TH & 7TH ROAD, 1PS-6 GOLIABAR PATH, SANTACRUZ EAST, MUMBAI 400055	FCA 25/08/2003	53	034560	MR. SHENDE ABHIJIT VASUDEO 10 SWEET RAIN, IRVINE, CA92614, IRVINE O, USA	ACA 31/12/2003
51	033590	MR. HAMID ABDUL 14 VALI APTS. KATOL ROAD, CHHAONI, NAGPUR 440013	ACA 24/06/2002	54	034591	MR. MULGUND PRAMOD NARAYAN B-3 L & T HSG COLONY, GUJRAT CEMENT WORKS, KOVAYA, RAJULA 365560	ACA 15/03/2004
52	033578	MR. BIMAL PITAMBER KAPADIA MADHARRAO WADI, 2ND FLOOR, D A LANE, KALBADEVI, MUMBAI 400002	FCA 26/06/2003	55	034629	MR. BHAT SUDARSHAN RAJENDRA SAVALO A-2 VAISHAKH APARTMENTS, BEHIND REBELS HOSPITAL, OPP KTC BUS STAND, MADEL, MARGAO GOA 403601	ACA 04/08/2003
53	033025	MR. SHAH D B 687, WILSON TOWERS, GHOD DHOD ROAD, SURAT 390001	FCA 06/05/2003	56	034827	MR. SURESH DHANJIBHAI CHAUHAN 196D CAVEL CROSS LANE-7, VIGAS STREET MUMBAI 400002	ACA 28/11/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
57	035111	Mr. MAHENDRA KUMAR AGARWAL 1 SARDAR COMPOUND, NEAR NAROLI POLICE STATION, DIST THANE, BHIWANDI 421302	FCA 19/08/2003	74	036510	Mr. DUBHASHI AJIT VASANT CHIEF FINANCIAL OFFICER, ZENSAR TECHNOLOGIES LTD, MILE POST NO 4, NAGAR ROAD, PUNE 411014	ACA 18/03/2004
58	035355	Ms. DSHAPANE VALJAYANTI NITIN GENERAL MANAGER (FINANCE), ZENSAR TECHNOLOGIES LTD, PUNE NAGAR ROAD, PUNE 411014	FCA 18/03/2004	75	036640	Mr. SRINIVASAN SUBRAMANIAM IYER C/O EIMCO ELECON (INDIA) LTD, ANAND SOUJITRA ROAD, VALLABH VIDYANAGAR 0	ACA 05/06/2003
59	035529	Mr. KANAKIA KIRIT JETHALAL B/6 SHALMAR NAVYUG NAGAR, S V ROAD, DAHIGAR EAST, MUMBAI 400066	ACA 27/11/2003	76	036549	Mr. MAKHLJA SUNIL HARIRAM VARSHA CONS. SERVICES, 102 SAI PRASAD, 4TH ROAD, KHAR WEST, MUMBAI 400052	ACA 18/08/2003
60	035547	Mr. KETAN SURYAKANT TRIVEDI A/603 MADHUVIHAR, M G CROSS ROAD NO 4, KANDIVALI WEST, MUMBAI 400067	ACA 14/01/2004	77	036652	Mr. VIKRAM MULJIBHAI KATHIA 35/A12, SAHAKAR NAGAR-I, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA 02/07/2003
61	035300	Mr. DILIP KUMAR POPATLAL SHAH 906 YOGI TOWER, YOGINAGAR, BORIVALI WEST, MUMBAI 400092	FCA 26/09/2003	78	036765	Mr. ABHAYANAND RAGHU SHETTY SUNKIST, 1ST ROAD TFS 4, BANDRA, MUMBAI 400050	ACA 18/09/2003
62	035963	Mr. JAIN SUDHIR 134 SEA LANE 'B', 117 CUFFE PARADE, COLABA, MUMBAI 400005	ACA 08/08/2002	79	036894	Mr. NAWAB JUZER KURBANHUSAIN FINANCIAL CONTROLLER, TECHNICAL TRADING CD LLC, P O BOX 1693 PC 112, RUWLO, SULTANATE OF OMAN	FCA 28/01/2004
63	035970	Mr. OSERDI AMIT COCA COLA INDIA, ENKAY TOWERS, UOYOG VIHAR - V GURGAON 122105	ACA 04/04/2003	80	037250	Mr. NITEEN HARISHCHANDRA MEHENDALE 14 BHALCHANDRA, POOJA PARK, PAUD ROAD, KOTHRUD, PUNE 411029	FCA 20/05/2003
64	035938	Mr. ALMEIDA DERRICK IGNATIUS 22, D MONTE STREET, BANDRA, MUMBAI 400050	ACA 03/04/2003	81	037345	Mr. MADHONNAR NARENDR KANTILAL 136 SUDBURY HEIGHTS AVENUE, GREENFOR, U86 OLY, MIDDLESEX, U.K.	ACA 21/04/2003
65	035969	Mr. RAJIV JAYANT SHROFF P O BOX 21768, SHARJAH, SHARJAH 0, UAE	ACA 05/09/2003	82	037512	Ms. SHAHSUJATA SHEKHAR 33 ASHOKA APARTMENTS, RUNGTA LANE, OFF NEPANSEA ROAD, MUMBAI 400006	ACA 09/02/2004
66	035981	Mr. JAGDESH GOVINDBHAI RATHOD RANCHHOD NIWAS, AGRA ROAD, DIST THANE, KALYAN 421301	ACA 13/08/2003	83	037538	Mr. MUCHHALA, APURVA JASWANTLA 111 NATHAN DRIVE, MORGANVILLE, NJ 07751, U S A	ACA 09/01/2004
67	036029	Mr. TAMBAWALA ZUZER ABBASBHAI SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN), P O BOX 68861, RIYADH 11537, SAUDI ARABIA	ACA 03/03/2004	84	037570	Mr. SHREEKANT RAMCHANDRA KULKARNI 1214/3, VIKRAM, SADASHIV PETH, PUNE 411030	ACA 21/02/2002
68	036278	Mr. PRABHU GANESH NARASIMHA PITRU SMRUTI, LJ ROAD, MAHIM MUMBAI 400016	ACA 19/09/2003	85	037610	Mr. BHAYANI, VIJAYKUMAR BATUKLAI 12 RUPAL APTS S. 42 GARODIA NAGAR, GHATKOPAR (EAST), MUMBAI 400077	FCA 07/05/2003
69	036294	Mr. DEEPAK SHIVSHANKER PANDYA NILES CHS LTD., A-11 5TH FLOOR, PLOT-22 SECTOR 14, VASHI NAVI MUMBAI 400703	FCA 11/03/2003	86	037833	Mrs. SARASWATH RAMAKRISHNAN C/38 SHRINAGAR CHS., P.L. LOKHANDE MARG, CHEMBUR, MUMBAI 400089	ACA 03/04/2003
70	036342	Mr. MEHTA AJAY MANHARLAL 16 PREM MILAN, 87B NEPANSEA RD, MUMBAI 400006	ACA 12/03/2004	87	037968	Mr. PEERMOHAMED RIYAZ HAIDER EMIRATES AIRLINES, P O BOX 686, DUBAI, DUBAI 0, U A E	ACA 18/06/2003
71	036370	Mr. SATISH HARIBHAU MUSALE 3, RANE BUILDING, AOWAIT COLONY, CANARA CORNER, NASHIK 422005	ACA 05/06/2003	88	038296	Mr. SHAH PARAG ARVIND 14 ANIK COURT 3RD FLOOR, 211 SHIVAJI PARK ROAD NO.5, MUMBAI 400016	FCA 24/10/2003
72	036421	Mr. SHARMA RAJENDRA PRAHLAD THE ROYAL GUARD OF OMAN, P O BOX 789 - PC-113-OMAN, SULTANATE OF OMAN 0	FCA 07/07/2003				
73	036464	Mr. PEREIRA LIONEL FELIX D/63 NIRVANA CO-OP HSG SOCIETY, OFF PITAMBER LANE BHAGOJI KEER MARG, MAHIM, MUMBAI 400016	ACA 21/07/2003				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
89	038203	Mr. SUBRAMANYAN RAJAGOPAL BHARAT FLAT 10, SECTOR 14 PLOT 40, VASHI, NAVIMUMBAI 400705	ACA 19/08/2003	104	040294	Mr. VENKAT RAGHUNATH CHARI 8 YASHMANGAL APARTMENTS, NEAR PRITAMNAGAR AKHADA, PALDI, AHMEDABAD 380007	ACA 01/08/2003
90	038502	Mr. SUNIL JAWAHARLAL AHUJA B-10-6, 1ST FLOOR, 1/2, SECTOR 15, VASHI NAVIMUMBAI 400703	FCA 02/12/2003	105	040374	Mr. RAVI KANT RATHI KRISHNA 'D' WING ROOM NO 2, VASANT SAGAR COMPLEX, THAKUR VILLAGE, KANDIVALI - EAST MUMBAI 400101	ACA 02/12/2003
91	038681	Mr. KAMLESHKUMAR BALGOVINDAS LAKDAWALA 829 MANSFIELD CT, SCHLIMBURG IL 60194, USA	FCA 11/12/2003	106	040437	Mr. PAREKH NITINKUMAR DALSUKHRAJ ASHIMA HOUSE, ELLIS BRIDGE, AHMEDABAD 380006	ACA 22/8/2003
92	038740	Mr. RATHE NIKHIL SATYARANJAN 2474 SPIREA TERRACE, MISSISSAUGA, ONTARIO, CANADA L5N 7N4, MISSISSAUGA O, CANADA	ACA 23/09/2003	107	040462	Mr. KINI SUJEET MADHAV NIVAS, 68, SHIVAJI PARK, MUMBAI 400028	FCA 22/04/2003
93	033052	Mr. S. MINA PRAKASH PATWARDHAN 303 AKSHAY GARDEN, ANAND NAGAR, PUNE SINGHAD ROAD, PUNE 411051	ACA 27/10/2003	108	040581	Mr. MARU KHETSHI-UMERCHI 504 HARI APARTMENT, LT RD EXT, MULUND-EAST, MUMBAI 400081	ACA 23/12/2003
94	039145	Mr. RAMACHANDRAN A A 604 JIVABHAI TOWERS, LAD SOCIETY ROAD, VASTRAPUR, AHMEDABAD 380015	ACA 18/03/2004	109	040609	Ms. BINA SUCHET PADHYE 11 SONAFICA, PEDDAR ROAD MUMBAI 400029	FCA 13/05/2003
95	039052	Mr. VIPUL SHAMJI SHETHIA NITYANAND SOCIETY NO 1, R NO 27 1ST FLOOR, NEAR FLYOVER BRIDGE, ANDHERI (EAST), MUMBAI 400069	ACA 08/07/2003	110	040882	Mr. SUBRAMANIAN VENKATKRISHNAN BANK MUSCAT SAOG, RETAIL CREDIT, PO BOX 134, RUWI, 112, SULTANATE OF OMAN O	ACA 04/03/2003
96	039470	Mr. SHRI RAJENDRA T. SHAH RGO, APMC MARKET-1, PHASE-II, VASHI, NAVIMUMBAI 400703	ACA 18/04/2002	111	041149	Mr. SANGHVI JAYESH CHANDULAL P O BOX 73173, NDOLA, NDOLA O, ZAMBIA	ACA 12/06/2002
97	039502	Mr. PUJARA NARENDRA MANSUKHLAL 805 CHINMAY APARTMENTS, BEHIND SHULKA BHAVAN, ANAND MAHAL ROAD, ADAJAN, SURAT 393005	ACA 18/06/2002	112	041164	Mr. TAMILANI ANILKUMAR SHEWARAM 85 SINDHUWADI, GHATKOPAR, MUMBAI 400077	ACA 17/04/2003
98	039595	Mr. S. CHANDRASEKARAN C/O NTPC, SAMRUDHI VENTURE PARK 2ND FLOOR, MIDC CENTRAL ROAD MAROL, ANDHERI EAST, MUMBAI 400083	FCA 17/10/2003	113	041166	Ms. MALATHI R ROOM NO. 329, GGD COMPLEX M K MARG, MUMBAI O	ACA 04/12/2003
99	039684	Mr. SHETTY SANTOSH DEJU A-503 AISHWARYA APARTMENT, YASHWANT TAWDE ROAD, DAHISAR WEST, MUMBAI O	ACA 24/09/2003	114	041467	Mr. JAYANTILAL RAMJI CHHEDA 303 LILADHAR RATANSIN BLDG., 13 LAXMI NARAYAN LANE, MATUNGA MUMBAI 400019	ACA 25/07/2003
100	039829	Mr. THAKORE MILIN DILIP A/3, ISHWARDAS MANSION, NANA CHOWK, MUMBAI 400007	ACA 04/04/2003	115	041528	Mr. DIGAR CHAINROOP SURAJMAL ARDEYA CO. HOUSING SOCIETY LTD, D/27/28, MHB COLONY, J V P D SCHEME, ANDHERI (W), MUMBAI 400049	ACA 08/12/2003
101	039985	Mr. KAPOOR ASHOK OMKARRAJ SEABULL HOUSE, ANDHERI KURLA ROAD, ANDHERI (EAST) MUMBAI 400099	ACA 18/07/2002	116	041648	Ms. SHETTY NAYAN MANOHAR 6/26 VENUS APTS., WORLI SEA FACE, MUMBAI 400018	ACA 28/08/2003
102	040182	Mr. KRANJAN KUMAR SUBUDHI 301 SNEH REGENCY, PLOT NO 79, SECTOR-29, VASHI, NAVIMUMBAI 400703	FCA 20/11/2003	117	041706	Mr. CHOWHARY ABHIJIT ANIL DATTA 601, OM CHAITANYA, 26 POPCO, YARI ROAD, VESOVA, MUMBAI 400061	ACA 05/09/2003
103	040269	Ms. SHROFF NILUFER KHUSHROO B, HIGHGATE LANE, CHERRY HILL, NJ 08003 USA	ACA 29/10/2003	118	041726	Mr. HARIHARAN VIJAY KUMAR A/7 KHEMA, 2ND FLOOR TPS 6, 5TH ROAD, SANTACRUZ(WEST), MUMBAI 400054	ACA 17/02/2004
				119	041945	Ms. AIYER PREMA VENKATESHWARAN NO 2, VENKATESHWARA, 16 TH ROAD, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA 09/04/2003
				120	042043	Mr. SHIVAJI KALU CHAND P O PHURSUNGI (TARWADI) TAL HAVELI, DISTT PUNE, PUNE 412308	FCA 22/01/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
121	042044	Mr. JOSHI VIRENDRA MAHENDRA C/O BRIDGSONS & CO NIG PLC, 29 C, KOFO ARAYOMI STREET, VICTORIA ISLAND, LAGOS 0, NIGERIA	ACA 28/07/2003	137	043649	Mr. PARIKHI VINAYAK PRABHAKAR 9, DEEP DARSHAN SOC., SHIVAJI ROAD, KANDIVALI WEST, MUMBAI 400067	ACA 22/05/2003
122	042090	Mr. SAJO SEBASTIAN GOMES GEETANJALI BUILDING, FLAT NO 3 234 A S V ROAD, BANDRA WEST, MUMBAI 400050	FCA 04/02/2004	138	043668	Mr. DAIRKEE ABBAS ALI ABU DHABI INVESTMENT CO., P.O. BOX 46309, ABU DHABI 0, U A E	ACA 08/07/2002
123	042135	Mr. SHARMA SANJAY RAMGOPAL 14/35 MAYJIVAN SOCIETY, LAMINGTON ROAD, MUMBAI 400008	ACA 19/04/2002	139	043675	Mr. MALIK SUCHET CHIRANJITLAL 11 MULKARRA DRIVE, CHELSEA, VIC 3196, MELBOURNE 3196, AUSTRALIA	ACA 24/02/2004
124	042205	Ms. BHATT SANGEETA SUNDARLAL 41 A OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI 400069	ACA 23/09/2003	140	043699	Mr. SHIROORKAR VIJAY RAMCHANDRA 3/3 MSEB OFFICERS QUARTERS, 1ST ROAD, TPS VI, NEAR MILAN SUBWAY, SANTACRUZ (W), MUMBAI 400054	ACA 03/04/2003
125	042334	Ms. GHOPRA PUNITA FAKIRCHAND 25 - ASHOK APTS., GANDHI GRAM ROAD, JUHU, MUMBAI 400049	ACA 03/07/2003	141	043744	Mr. MURALIDHARAN M.S 1ST FLOOR ASHIKA CHAMBERS, 22 CHAMBERS ROAD, TEYNAMPET, CHENNAI 600018	ACA 29/01/2004
126	042453	Mr. HARINDRAN PRABHAKARAN SRISYLAM, BEHIND GOVT HIGH SCHOOL, KANNUR DIST, KALLIASSERY 670562, KERALA	FCA 05/01/2004	142	043927	Mr. MUSTAFA YUSUFALI ARSIWALA C/O T M MULLAJI & CO., 92 SARANG ST, MUMBAI 400003	ACA 20/01/2004
127	042483	Mr. VASWANI DEEPOO C F 302 SAMEER, 7 BUNGLOWS VAGWANI MARG, ANDHERI, MUMBAI 400053	FCA 08/10/2003	143	043983	Ms. GUPTA GEETA GAYAPRASAD 239, SHIVAJI NAGAR, N.M. JOSHI MARG, MUMBAI 400013	ACA 03/04/2003
128	042618	Mr. IYER SRIRAM KRISHNAN 2002 ODYSSEY II, HIRANANDANI GARDENS, POWAI, MUMBAI 400076	ACA 22/10/2003	144	043997	Mr. OBEROI ASIT FINANCIAL CONTROLLER, STANDARD CHARTERED BANK, 3 RD FLOOR 23-25 M G ROAD, MUMBAI 400001	ACA 29/12/2003
129	042706	Mr. DADACHANJI ROHINTON BURJOR SETH NUSSEERWANJI TATA BLDG NO., FLAT NO 41 FLOOR TATA BLOCKS COMPOUND, MUMBAI 400050	ACA 04/12/2003	145	044056	Mr. AMOL JANARDAN RAUT NIRMITI TIWALI WADI, OPP. S.T. DEPOT, VASAI, VASAI 401201	ACA 23/07/2003
130	042878	Ms. INAMDAR TABASSUM ABDULLA 401 / 402, SWEET HOME, VAISHALI NAGAR, S V ROAD, JOGESHWARI (W), MUMBAI 400102	ACA 30/06/2003	146	044063	Ms. MAHALAKSHMI RAJAN MUDLIAR A/405 REDWOODS, VASANT NAGAR, NEAR SWAPNA NAGARI, OFF L B S MARG MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA 08/08/2003
131	042884	Mr. PATEL SNEHAL MAHAVIR 2 / 17, JUHU VISHAL, NORTH SOUTH EXTN., ROAD NO 5, J.V.P.D.C., MUMBAI 400049	ACA 08/12/2003	147	044132	Mr. SANJAYKUMAR KIRANCHANDRA SHAH SANJAY SHAH & ASSOCIATES FLAT NO 412, 4TH FLOOR, ASH COURT BUILDING, PARMAR PARK, WANORIE, PUNE 411040	FCA 12/08/2003
132	042892	Mr. HITESHKUMAR KISHORBHAI JOSHI A/2, GREEN PARK, OLD NAGARDAS ROAD, ANDHERI (E), MUMBAI 400069	FCA 08/12/2003	148	044195	Ms. DATE VAISHALI SATISH D-20, LOKSANGAM VIHAR, NEAR SUVARNAYUG, AUNDH, PUNE 411 007	ACA 26/12/2003
133	042969	Mr. DIMPLE KIRITKUMAR MANAKIWALA A/14, DEV DARSHAN BUILDING, OPP MANEK BAUG HALL, AMBAWADI, AHMEDABAD 380015	ACA 25/04/2003	149	044220	Mr. FRANCIS XAVIER D'SILVA RESERVE BANK OF AUSTRALIA (AUDIT DEPARTMENT), 65, MARTIN PLACE, SYDNEY 2000, AUSTRALIA	ACA 31/03/2003
134	042997	Mr. SANCHETI SHAILENDRA SARAFON KI POLE, SARAFI BAZAAR, JODHPUR 342001	ACA 01/07/2003	150	044244	Mr. KAMAT NITIN NARSINHA B-24 PARVATI APARTMENT, PATILUSADI CHANDANWADI, PANCHPAKHADI, THANE (WEST), THANE 400602	ACA 04/04/2003
135	043013	Mr. VAIDYA VIPUL BHARATKUMAR SAPHIRE, 3RD FLOOR, AZAD ROAD EXTN, ANDHERI (E), MUMBAI 400069	ACA 10/07/2003				
136	043619	Ms. MUZAWAR SUNILA KASHINATH TAX ACCOUNTING, P.O. BOX - 3098, DUBAI, UAE 0 UAE	ACA 12/08/2003				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
151	044341	Mr. RAKESH GUPTA 8, RAJMAHAL SOC., 2ND FLOOR, M.V. ROAD, ANDHERI EAST, MUMBAI 400069	ACA 08/05/2003	166	046577	Mrs. KARUNA SARJU SIMARIA C/O SUHAS KAKODKAR, 10/A LADHA HOUSE, PAPER MILL LANE, V P ROAD, MUMBAI 400004	ACA 12/05/2003
152	044545	Mr. JAI PRAKASH SHARMA A-702 RAHUL CLASSIC, SAI BABA NAGAR, BORIVALI (W) MUMBAI 400092	FCA 19/05/2003	167	046669	Mr. VISHWANATHPRASAD NARAYANASWAMY 2/93 ARADHANA, OPP ANDHRA HIGH SCHOOL, WADALA, MUMBAI 400031	ACA 29/04/2003
153	044584	Mr. PAWAN KUMAR LALPURIA A - 835, INDRA VIHAR, KOTA 324005	FCA 05/03/2003	168	046759	Mr. SATHEESHA SHETTY 005 A-4 SACHIN APARTMENTS, KRISHNA NAGAR SECTOR-20, CHIKLI ROAD, CHINCHWAD, PUNE 411019	ACA 05/12/2003
154	044626	Mr. SUNIL CHUNILAL KHINVASARA 1002 45 KINGSBRIDGE GARDEN CIR ON L5R3K4, MISSISSAUGA 411001, CANADA	FCA 05/11/2003	169	046942	Mr. PATIL UMESH DATTATRAY B/10 MITRA-DHAM SOCIETY, J B MARG, PAREL, MUMBAI 400012	ACA 16/07/2003
155	044682	Mrs. MANISHA RATNAKAR ATHALYE 136, BOYLSTON STREET, SHREWSBURY, MA 01545, USA 0, USA	ACA 13/11/2003	170	047378	Mr. PARAG KIRITKUMAR SHAH BLOCK NO 8 PARVATIKUNJ, ROAD NO 3, DAULAT NAGAR, BORIVALI (EAST), MUMBAI 400066	ACA 06/01/2004
156	044701	Mr. JOSE K P.O BOX 1620, DUBAI, U.A.E 0 U.A.E	ACA 07/04/2003	171	047477	Mr. AGRAWAL RAJ KUMAR B-101 UMANG BUILDING, NEAR HOTEL GOKUL ANAND, RUKSON NAGAR W E HIGHWAY, DAHISAR (E) MUMBAI 400068	ACA 01/12/2003
157	044781	Mr. BAHETI ONKARMA RAMVILASJI B-303, MANGALSHREE APPT., JAMES FARM, TILAKNAGAR, INDORE 0	FCA 21/04/2003	172	047609	Ms. CHAKRABORTY ARPITA 301 ADMIRALTY MANOR, 13TH CROSS 6TH MAIN, INOIRANAGAR II STAGE, BANGALORE 560038	ACA 25/06/2003
158	045051	Mr. SANGAM BHARATI PREMIER, PVT BAG - RUIRU RUIRU 0, KENYA	ACA 27/11/2003	173	047644	Mr. CHUNARA FIROZ BARKATALI A-73 SECTOR 3, SRISHTI, ASHLESHA, MIRA ROAD (E) DIST. THANE, MIRA ROAD 401107	ACA 13/08/2003
159	045058	Mr. RAHULKUMAR INDULAL SHAH 204 ANANG AVENUE, B/H DOCTOR HOUSE, ELLISBRIDGE, AHMEDABAD 380006	ACA 05/11/2003	174	047920	Ms. LADHA SUNITA KUMARI 68 A-1 APARTMENTS, 270 WALKESHWAR ROAD, MUMBAI 400006	ACA 29/11/2003
160	045455	Mr. NAHAR RAKESH 601 5A DA SHARDHA COMPLEX, ASHA NAGAR, KANDIVALI EAST, MUMBAI 400101	ACA 31/07/2003	175	047990	Mr. VIJAYSHANKAR KRISHNAMURTHY MARGOLIN WINER & EVENS LLP, 400 GARDEN CITY PLAZA, GARDEN CITY, NEW YORK NY 11530 U S A	ACA 12/08/2003
161	045852	Mr. ASHOK MAHADEVAN ACA 401 "ANJALI", AMBIKA NAGAR, M G ROAD, DOMBIVALI (WEST) DIST. THANE DOMBIVALI 421202	11/06/2003	176	048234	Mr. JAIN AJEETKUMAR RAMESHCHANDRA 70 DHANLAXMI SOCIETY, OPP CMC LTD, ODHAV ROAD, AHMEDABAD 382415	ACA 17/08/2003
162	045931	Mr. ANIL GOPALDAS BHATTAR A-301 AMAR APTS., THAKUR COMPLEX, KANDIVALI (EAST), MUMBAI 400101	FCA 17/10/2003	177	048248	Mr. SHAH AMIT GUNVANTBHAI 24, TAGDRE NAGAR, SOCIETY, OLD PADRA ROAD, VADODARA 390015	ACA 07/11/2003
163	046167	Mr. RAJESH SHRIPAD PHANSE C/5 BHATIA BUILDING, LT DILIP GUPTA ROAD, MAHIM, MUMBAI 400016	ACA 17/07/2003	178	048464	Mr. G VENKATESH BABU FINANCE DIRECTOR, ABAN POWER CO LTD, NO 25 G N CHETTY ROAD, T NAGAR, CHENNAI 600017	ACA 18/11/2003
164	046209	Mr. D'SOUZA NORMAN STANLEY 401 BALAJI NIWAS, ABOVE SAI SAROVAR HOTEL, TALAO PALI CROSS ROAD, CHARAI, THANE 400601	ACA 10/10/2003	179	048491	Mr. MDRAWALA KARIM MOHAMMEDHUSEIN "ONI VILLA", AMLI FALIA, VOHARWAD, GODHRA 389001	ACA 04/06/2003
165	046430	Mr. DEEPAK SHANTILAL LUNAVAT 38/B ERANDWANA, CHANDRADEEP BUNGLOW, KAMALA MEHTA PARK, DATTA MANDIR, PUNE 411004	ACA 21/02/2004	180	048546	Mr. PANJWANI DINESH KISHAN 96/10 AMBICA SOCIETY, MAHADA, FOUR BUNGLOWS, ANDHERI (WEST) MUMBAI 400053	ACA 29/05/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
181	048618	Mr. JAYARAM G SHETTY FCA 32, 3RD FLOOR, 14/16, BHANDARY CROSS LANE, JANJKAR STREET, MANDVI, MUMBAI 400033	15/10/2003
182	048642	Mr. MALGHANI RAJESH A-1102 BHAGNARI CHS N S, MANIKER MARG, CHUNABHATTI, SION (E), MUMBAI 400022	ACA 01/07/2003
183	048826	Mr. LAXMINARAYAN KRISHNACHARY PURDHIT #20 LIC COLONY, 3RD CROSS BIMA JYOTI, BASAVESHAWAR NAGAR, BANGALORE 560049	ACA 31/12/2003
184	048890	Mr. DINESH SHANKARLAL HEDA ACA HOUSE NO 36, RANGHAVI ESTATE, BDGMAL ROAD, ISSORCIM VILLAGE, DABOLIM GOA 403801	16/10/2003
185	048962	Mr. ADVANT SUHAS RAVINDRA C-3 HILL TOP CHS., PANCHPAKHADI, THANE 2	ACA 11/12/2003
186	049112	Mr. VENKATNARAYAN JANKIRAM 1/20 GOLDEN VALLEY BLDG, SANTACRUZ EAST, KALINA, MUMBAI 400098	ACA 08/01/2004
187	049458	Mr. GARG RITESH YOGESHCHANDRA 712-713 TULSIANI CHAMBERS, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA 20/01/2004
188	049514	Mr. MANTRI ANURAG C/O MR Q P MANTRI, ABOVE BANK OF RAJASTHAN, RAMPURA, KOTA 0	ACA 19/05/2003
189	049608	Mr. NARAYAN RAMALINGAM HINDUSTAN LEVER LIMITED, 4WWW, 185/166 BACKBAY RECLAMATIO, CHURCHGATE, MUMBAI 400020	ACA 29/08/2003
190	049700	Mr. HARJANI CHANDRU MOHANDAS 122281 SPANISH TRACE DRIVE, MARYLAND HEIGHTS, MO 63043, MARYLAND HEIGHTS 63043 U S A	ACA 09/04/2003
191	049750	Mrs. VISHUTI PAVISHANKAR 1102-B GULMOHAR APT., CEASEF ROAD, AMBOLI, ANDHERI (E), MUMBAI 400058	ACA 28/08/2003
192	049874	Mr. THADANI RAJIV ANAND 501-A FATIMA VILLA, 29TH ROAD, BANDRA (W), MUMBAI 400050	ACA 08/01/2004
193	049965	Mr. ANAND S RSM & CO, 109-112 DALAMAL TOWERS, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA 11/04/2003
194	049969	Mrs. ROSHNI BARBOZA C/O MR A G HATKAR, 9 YASHASWI CHS., G B ROAD, CHARAI, THANE 400601	ACA 09/12/2003
195	050269	Mr. KULDIP KUMAR CHADHA 101-B CENTRAL PARK, 15/C DR AMBEDKAR ROAD, PUNE 411001	ACA 03/03/2004
196	053863	Mr. MANDJ KUMAR SONI GULFBANK, PO BOX 3200, SAFAT 18032, KUWAIT	ACA 12/08/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
197	053966	Mr. HARI MENON 'ISHA KRIPA', POONITHURA P O, COCHIN 682038	ACA 26/04/2003
198	055233	Mr. MAHENDRA KUMAR JAJOO C/O ABN AMRO SECURITY (I) PVT. LTD., 81, SAKHAR BHAVAN, NARIMAN POINT, MUMBAI 400004	ACA 30/04/2003
199	055647	Mr. SHANTANU GHOSH GE INDIA LTD., AIFACS BUILDING, 3RD FLOOR, 1 RAFI MARG, NEW DELHI 110001	ACA 07/10/2003
200	055973	Mr. SRINIVASAN N FLAT 20/21 B WING, SAI MILAP CHS., CIBA ROAD, GOREGAON (E), MUMBAI 400063	ACA 01/12/2003
201	058058	Mr. KUNDU SANDIP 3A 1702 WHISPERING PALM, LOKHANDWALA COMPLEX, AKURLI ROAD, KANDIVLI (EAST) MUMBAI 400101	ACA 07/11/2003
202	059419	Mr. RATHI PANKAJ KUMAR D/601 GAYATRI AVENUE, NEAR SANSKRITI, THAKUR COMPLEX, KANDIVLI (E) MUMBAI 400101	ACA 14/08/2003
203	059584	Mr. PATHAK PANKAJ C/O A A SALVI SHANTI NIKETAN WING 13 B 1, FLAT NO 401 3RD FLOOR L M ROAD, DAHISAR (W), MUMBAI 400068	ACA 02/05/2003
204	070104	Mr. RAGHU NANDAN GUPTA A-101 GAGANGIRI APPT., SECTOR -17, PLOT NO 47, VASHI NAVI MUMBAI 400705	FCA 29/12/2003
205	072214	Mr. BAFNA SANJEEV 91 SAKHAR BHAVAN, NARIMAN POINT, MUMBAI 400021	ACA 28/04/2003
206	073674	Mr. DINESH KUMAR MANTRI D-1 HZL COLONY, HINDUSTAN ZINC LIMITED, DEBARI, RAJASTHAN 311024	FCA 28/10/2003
207	074512	Mr. MANI P FF4 BLOCK 1 HALLMARK APTS., PARSON'S SESH NESTLE, NANJUNDAPURAM, COIMBATORE 641036	ACA 21/05/2003
208	074884	Mr. SANJEEV KHANDELWAL 3978 THATCHER DRIVE, AURORA ILLINOIS 60504 USA	ACA 14/07/2003
209	075729	Mr. VIKAS AGARWAL C/O MYSORE BREWERIES LTD., IDLAHALI CAMP ROAD, YESHWANTPUR, BANGALORE 0	ACA 19/06/2003
210	078623	Mr. KRISHAN KUMAR GARG 29 STATION ROAD, NEEMUCH, (MP) NEEMUCH 0	ACA 03/04/2003
211	078714	Mr. ARVIND AGARWAL CORPORATE FINANCE MANAGER, BG BROADBAND INDIA (PVT) LTD, 2ND & 3RD FLOOR IQARA CENTRE, ADAJAN HAZIRA ROAD ADAJAN, SURAT 395009	ACA 16/04/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
212	079143	Mr. ASHISH MATHUR BPL CENTRE, 127 MANMALA TANK ROAD, TAKALWADI, MAHIM (WEST), MUMBAI 400016	ACA 19/08/2003	229	102145	Mr. KANADE SAMEET SURENDRA CSA GROUP, 178 REXDALE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, TORONTO M9W 1R3, CANADA	ACA 05/06/2003
213	089494	Ms. SHALINI V MANNALA 5622/A, HALWAI BAZAR, AMBALA CANTT, AMBALA 0	ACA 01/04/2003	230	102178	Mrs. TEJAL BHAVIK BHAGAT 701 ASTER APARTMENTS, RAM MANDIR RD, VAZIRA, NAKA BORIVLI (WEST) MUMBAI 400092	ACA 16/02/2004
214	097682	Ms S SOWMYA 5 BAHAR UTTAM CO OP HSG SOCIETY, ST ANTONY'S ROAD, CHEMBUR, MUMBAI 400071	ACA 12/01/2004	231	102320	Mr. KHATU RAJENDRA S. DANAND 3/8/F KAMAT CHAWL, R.NO44, THAKURDWAR, MUMBAI 400002	ACA 16/04/2003
215	100037	Mr. BHALWAL RAVINDER ROSHANLAL 191 SHERBOURNE STREET, APT 505, ONTARIO, TORONTO M5A3X1 CANADA	ACA 09/12/2003	232	102338	Mr. JAKHORIA DHARMENDRA 304 SHREENATH DHAM, R.N.P PARK, BHAYANDAR (E), BHAYANDAR 401105	ACA 11/03/2004
216	100541	Mr. RAJE ASHWIN KUMAR GAJANAN 202 ANANT 'A' INSIDE BHAKTI COMPLEX, 120 LINK ROAD, KANDARPADA, DAHISAR (W) MUMBAI 400068	ACA 13/11/2003	233	102542	Mr. VAIDYA SALIL SUDHIR VAIDYA HOUSE, OPP. TELEPHONE EXCHANGE, NAUPADA, THANE 400602	ACA 18/07/2003
217	100566	Mrs. SHILPA PATHAK C/201 AGGARWAL APARTMENT, NR ANANDNAGAR CHAR RASTA, SATELLITE, AHMEDABAD 380015	FCA 27/02/2004	234	102618	Mr. NAVIN KUNDOMAL DEVJANI ACA FLAT NO 706 SILVER ARCH, SHASTRI NAGAR, ANDHERI (W), MUMBAI 400053	04/07/2003
218	100672	Mr. JUGAL KISHOR MANTRI A-13 MIRA, SECTOR III, SHRISHTI COMPLEX, MIRA ROAD 401107	ACA 12/05/2003	235	102793	Ms. NANAL TEJASHREE SUMANT FLAT NO 13 MALKAUNS CHS., GUJRAT MANDAL RD, VILE PARLE (E) MUMBAI 400057	ACA 20/10/2003
219	130721	Mr. HEMANT PREMJI SHAH 407 APOLLO COMPLEX, R K SINGH MARG, OFF PARS PANCHAYAT ROAD, ANDHERI (E) MUMBAI 400069	ACA 24/03/2004	236	102833	Mr. KUMAR HARSHAD SHETH 357/E, WARD SHAHUPURI, STATION ROAD, KOLHAPUR 416001	ACA 23/10/2003
220	100927	Mr. SRINIVASAN ANAND G 317 LINKS BUSINESS CENTER, LAXMI NAGAR, NAGPUR 440022	ACA 01/04/2003	237	102881	Ms. THATTE ARCHANA ARUN 250/B SATISH DHAM, FLAT NO 3, SHANIVAR PETH, PUNE 411030	ACA 22/07/2003
221	101196	Mrs. KOMAL MAHENDRA MAHAGAONKAR 9 MAHAJAN WADI, 44 ELPHISTAN ROAD, MUMBAI 400013	ACA 26/06/2003	238	103065	Mr. RAGHURAM R DEPUTY MANAGER - FINANCE TATA TEA LTD, MES ROAD, YESHWANTPUR, BANGALORE 0	ACA 20/11/2003
222	101434	Mr. MAHESH S KARKI HOUSE NO 628 MAHARAJA PADA, P O VARAP, KALYAN MURAD ROAD, KALYAN 421301	ACA 12/01/2004	239	103520	Mr. BHAG CHAND BASER 108-A MUNICIPAL SHOPPING CENTRE, SAHARA DARWAZA, RING ROAD, SURAT 0	ACA 23/05/2003
223	101437	Mr. VAIDYA NIRBHAY ABHAY D 101, SITA VIHAR, NR DAMANI ESTATE, NAUPADA, THANE 400602	ACA 09/05/2003	240	103628	Mr. SURESH KUMAR CHOUDHARY UNILEVER GULF FZE, LOB-B, JEBEL ALI, PO BOX - 17055 DUBAI 0 UNITED ARAB EMIRATES	ACA 25/11/2003
224	101449	Mr. DUBEY PRAMOD KUMAR C-305 KRISHNA VASANT SAGAR, THANKUR VILLAGE, KANDIVALI (W) MUMBAI 400101	ACA 21/05/2003	241	103661	Mr. PALAK K GANDHI E-53 SACHIN TOWER, B/H SHYAMAL RAN HOUSE III SATELLITE, AHMEDABAD 380015	ACA 19/05/2003
225	101559	Mr. MRUGEN HARINDRANATH TRIVEDI 604/5 SAGAR SANGEET, A.B. NAIR ROAD, JUHU, MUMBAI 400049	FCA 21/05/2003	242	104030	Mr. AMBAKHUTWALA NAEEM NK CRUF DIN 143/145 SARANG STREET, SHAFANA MANZIL, 4TH FLOOR, MUMBAI 400003	ACA 08/04/2003
226	101685	Mr. RAVI GUPTA 109 'A' WING, RIZAVI CHAMBER, HILL ROAD, BANDRA (W), MUMBAI 400050	ACA 12/01/2004	243	104268	Mr. UPADHYAY RAJESH DEVENDRABHAI C/O ARKAY PLASTICS, BOX 30410, CHICHIRI, BLANTYRE, MALAWI 0, CENTRAL AFRICA	ACA 02/01/2004
227	101785	Ms. MONIKA NIRBHAY VAIDYA D 101 SITA VIHAR, THANE (WEST) THANE 400602	ACA 09/05/2003	244	104340	Mr. ASHOK KUMAR NAHAR 86/J SECTOR XII, RPL GREENS, VILLAGE MOTIKHAVDI, JAMNAGAR 361140	ACA 12/08/2003
228	102078	Mr. PAWAR SANJAY DEVIDAS 39 MATLOCK ROAD, BIRMINGHAM B113JA, UNITED KINGDOM	ACA 14/01/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
250	106103	MR. DOKANIA GAURAV SHYAM SUNDER G3, MAMTA "A" WING, AMARHATHE MARG, PRABHADEVI, MUMBAI 400025	ACA 30/10/2003	260	106637	MR VIVEK JAYANT BHATIA 74A, VISHNU BAUG, 137 S V ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI 400058	ACA 01/08/2003
251	106412	MS. SMITA DAMARAJU FLAT NO 2/4 G 27, PANCHJYOT CO-OP SOCIETY, SECTOR-29, VASHI, NAVI MUMBAI 400705	ACA 30/09/2003	261	108931	MR SAMEER SHRIKANT TONATTI 3R WEST WING, FERN HILL GARDEN, HSR LAYOUT, BANGALORE 560034	ACA 03/03/2004
252	106477	MR. N VENKATESWAR RAO ASST MANAGER - FINANCE & ACCOUNTS HINDUSTAN POLYAMIDES & FIBRES LTD, C/O DOWSAY OIL INDUSTRIES LTD, LBS MARG BHANDUP, MUMBAI 400078	ACA 09/09/2003	262	106975	MR HEMANT PRAKASH JAIN C-1 FLAT NO 301, SECTOR -06, SHANTINAGAR, MIRA ROAD(E) MIRA ROAD 0	ACA 04/02/2004
253	106603	MR. ALOK GUPTA BLOCK A/210, LAKE TOWN, KOLKATA 0	ACA 12/05/2003	263	107045	MR. RODNEY S CASTELIND 2 MILAN CH S L, OFF VEERA DESAI ROAD, ANDHERI WEST, MUMBAI 400058	ACA 10/03/2003
254	106626	MR. CHETAN SURYAKANT KANSARA SEC - 7, B - 24, 401 SHANTINAGAR, MIRA ROAD (EAST), DIST. THANE MIRA ROAD 401107	ACA 06/12/2003	264	107175	MR KAMAL NAVINCHANDRA MAKWANA A/20 KAILASH NAGAR, SHANKAR LANE, KANDIVLI WEST, MUMBAI 400067	ACA 11/11/2003
255	106751	MR RAM SINGH SRIPAL SINGH KUSHWAHA SHANKAR COLONY, 1/5 KALA TALAO, DIST. THANE, KALYAN 421301	ACA 24/04/2003	265	107254	MR SHRIVASTAVA ANSHU 2D1/A VAISHALI TOWER, VAISHALI NAGAR 8 R ROAD, MULUND WEST, MUMBAI 400080	ACA 06/05/2003
256	106266	MR VINOD KUMAR PITTI E 301 MANDAKINI SHIV VALLABH CROSS ROAD, RAWALPADA, DAHISAR EAST, MUMBAI 400068	ACA 18/06/2003	266	107399	MR KUNJ DILEEPKUMAR VAIDYA KRUNAL 12 MILAN SOCIETY, BEHIND MVM MAHILA COLLEGE, KALAWAD ROAD, RAJKOT 360007	ACA 29/05/2003
257	106523	MR MAHESH KUMAR CHOUDHARY 301 MAGNUM A WING, VASANT MANUJAL WEST EXP HIGHWAY, BDRIVALI EAST, MUMBAI 400065	ACA 29/09/2003	267	107692	MR GULIL BHARATKUMAR DESAI 403 POPULAR APARTMENTS NO 1, TAGORE ROAD, SANTACRUZ WEST, MUMBAI 400054	ACA 30/10/2003
258	106700	MR SUSHIL NARAYANDAS GANDHI F WING ASTHAVINAYAK ENCLAVE, NR HOTEL SHREEMAYA, UMAJI COLONY, BANSILAL NAGAR, AURANGABAD 0	ACA 23/04/2003	268	107737	Mrs. DEEPA ALHAD GORE 11 NARMADA NIWAS, TOPIWALA COMPOUND, STATION ROAD, GOREGAON WEST, MUMBAI 400062	ACA 22/05/2003
259	106704	MR HARSHAD PRAKASH KULKARNI 701, KARMA KSHETRA, NR. NAUPADA POLICE STATION, PRASHNAT NAGAR, THANE 400302	ACA 27/06/2003	269	107816	MR RITESH RAMKRISHNA TIWARI L 402 RNA REGENCY PARK, M G ROAD, DAHANUKAR WADI, KANDIVALI WEST, MUMBAI 400067	ACA 10/09/2003
260	106715	MR SANDIP DILIPBHAI BHATT 7 ASHISH PARK, BHAIKAKA NAGAR, THALTEJ AHMEDABAD 380053	ACA 07/04/2003	270	107865	Ms PURVI SATISH SHAH M/S A J SHAH & CO FORT CHAMBERS 'C' BLOCK, TAMARIND LANE, FORT MUMBAI 400023	ACA 28/10/2003
261	106257	MR MRINAL MANU GHOSH 71 ACHARYA NAGAR, OPP AMAR CINEMA, DEONAR, MUMBAI 400088	ACA 22/03/2004	271	107919	Mrs. NEHA APURVA SANGHVI A 10 SUKH SHANTI, SAROJINI NAIDU ROAD, OPP. TARA PATIL HOSPITAL Q, TAMBENAGAR, MULUND W MUMBAI 400080	ACA 30/04/2003
262	106346	MR JAIPRAKASH YATIRAJ SONI C/O SONI Y.J., "GEETANJALI", SUBHASH CHOWK, AT POST AHMEDPUR, DIST. LATUR, LATUR 413515	ACA 30/06/2003	272	108036	MR SHAH KANANBHAI U/1 VIKRAM APARTMENTS, NR SHREYAS CROSSING, AMBAWADI AHMEDABAD 380015	ACA 22/10/2003
263	106415	MR SATISHWAR BALAKRISHNAN G1 A-23 HAPPY VALLEY HOMES, CHITALSAR, JAMNAPADA, THANE 400060	ACA 10/10/2003	273	108098	MR RUPESH GAUTAM CHAND MEHTA POST OFFICE BOX 58145, DUBAI 0	ACA 21/07/2003
264	106545	MS NANYA WERAGAN FLAT NO 10 RADHESHYAM CHS., SECTOR 14, VASHI, NAVI MUMBAI 400703	ACA 11/03/2003	274	108421	MR ROHAN RAMAN SETH 3/1125 NAVJIVAN SOCIETY, LAMINGTON ROAD, MUMBAI 400008	ACA 25/09/2003
265	108782	MR. RAJDEEP PREMKUMAR PAI INTERNAL AUDIT DEPARTMENT, P O 3838, ETISALAT H O, ABU DHABI 411013 UAE	ACA 26/12/2003				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore
276	109353	Ms PRACHI DILIP RANADE 3 BHASKAR, MAHANT ROAD, VILE PARLE EAST, MUMBAI 400052	ACA 28/08/2003	288	203178	Mr. MUGUNDAN T. A. C/O SHRI A K VENUGOPAL, 11 SATYA POORNASWAMY STREET, VEGAVATHI STREET, LITTLE KANCHIPURAM KANCHEEPURAM 631503	ACA 16/07/2003
277	109540	Mr DHAVAL SURYAKANT MADLANI 5B/1 ATAG ASHRAM, R A KIDWAI ROAD, KING'S CIRCLE, MUMBAI 400019	ACA 11/04/2003	289	203613	Mr. N M VAIDYANATHAN C/101 SHRADHA APARTMENT, GUNJAN GIDC, VAP! 396195	ACA 24/04/2003
278	109551	Mr SIDDHARTHA SHAMBHUNATH NAG 6TH FLOOR ORADI POIN I, OPP BANDRA STATION, BANDRA WEST, MUMBAI 400050	ACA 09/05/2003	290	203807	Mr. RAJESH KUMAR AGRAWAL C/O B 6/46, CENTURY RAYON COLONY P O SHAHAD, DIST THANE, SHAHAD 0	ACA 16/04/2003
279	109966	Ms RUDRI BHARAT JOSHI MEHERISTAN 2ND FLR. AGARBAZAR, S K BOLE ROAD, DADAR, MUMBAI 400028	ACA 18/12/2003	291	204190	Mr. SRINIVASAN K S HSBC ASSTT MGF (I) PVT LTD., 52/60 M G ROAD FORT, MUMBAI 400001	ACA 08/10/2003
280	110179	Mr SONU SHEDURAM GUPTA 6/8 DWARKA ASHISH IV FLOOR, JAMBULWADI KALBADEVI RD, MUMBAI 400002	ACA 24/12/2003	292	204360	Mr. S BHASKAR STERLITE OPTICAL TECHNOLOGIES LTD E 2 MIDC, WALUJ, AURANGABAD 431136	ACA 23/05/2003
281	110284	Mr MAHESH KUMAR AGAL 1ST MANSARI BUNGLOWS, SILVER GOLD COMPOUND OPP UBI, MANDPESHWAR ROAD, BORIVALI WEST, MUMBAI 400092	ACA 18/09/2003	293	205436	Mr. R SURESH A 37 MOHAN CO OP INDUSTRIAL ESTATE, MATHURA ROAD, NEW DELHI 110044	ACA 12/02/2004
282	110378	Mr AJAY CHHOTELAL PASI E 3/361 NILGIRI GARDEN CO OP HSG SOCY, AMRA MARG SECTOR 24, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI 400614	ACA 17/10/2003	294	205795	Mr. SUBASH KUMAR SAHOO 47/1153 MAHATAB ROAD, OLD TOWN, BHUBANESWAR 751002	ACA 27/03/2003
283	110548	Mr AJIT RAMESHKUMAR TOLANI C/O BHARAT S RAUT & CO KPMG HOUSE KAMALA MILLS COMPOUND, SENAPATI BAPAT MARG, MUMBAI 400013	ACA 03/12/2003	295	206367	Mr. HARIDATTA VARMA A P 141 A NANDANVAN CHS., SECTOR 17, NERUL EAST, NAVI MUMBAI 400706	ACA 10/09/2003
284	110652	Mr PRAVEER SATISH SHENOY 302, ATMA APARTMENTS, 10TH MAIN, 13TH CROSS, MALLESHWARAM, BANGALORE 560003	ACA 30/05/2003	296	208099	Mr. KAMESWAR RAO SUBUDHI P BUILDING NO. X-2/ FLAT NO. 042, GEETA NAGAR PHASE IV, MIRRA ROAD EAST, MUMBAI 401107	ACA 08/08/2003
285	200643	Ms. PADMA GIRIDHAR FLAT NO 603 BLDG NO 17, VINDHYAGIRI SIDDHACHAL PHASE 3, OFF POKHRAN ROAD NO2, THANE WEST, THANE 400601	ACA 19/05/2003	297	208116	Mr. VIDHATHRAE K B 4 SAI SADAN, SAI BABA COMPLEX, CIBA ROAD, GOREGAON WEST, MUMBAI 400063	ACA 23/06/2003
286	201693	Mr. RAMAKRISHNAN S 502 VINAYAK AANGAN, PLOT NO 1043 OPP VIP BLDG, 93A OLD PRABHADEVI ROAD, PRABHADEVI MUMBAI 400025	ACA 29/12/2003	298	209084	Mr. ANAND K 13 ASHOKA APARTMENTS, S V ROAD, SANTACRUZ (WEST), MUMBAI 400049	ACA 20/10/2003
287	202107	Mr. SANKARAN R BF 3 GURU RAGAVENDRA APTS., NO 18 1ST STREET 1ST MAIN ROAD, THILLAI GANGA NAGAR, CHENNAI 600061	ACA 09/04/2003	299	209416	Mr. SURAJ PRASAD ACCOUNTS OFFICER, HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD, C/O RELIANCE PETROLEUM LTD RRTF ADMN BLOCK, MOTIKHAVDI, DIGVIJAYGRAM PO, GUJARAT STATE, JAMNAGAR 361140	ACA 10/11/2003
				300	209906	Mr. ASHISH T VERGHESE P 8 SANGATH PHASE IV, MGR NAGAR I STREET VELACHERY CHENNAI 600042	ACA 18/02/2004

(Signature)
(DR. ASHOK HALDIA)
SECRETARY

Chennai-600 034, the 31st March 2005

(Chartered Accountants)

No. 3SCA(5)/4/2003-04—With reference to this Institute's Notification Nos. 3SCA(4)/4/2002-03 dated 30th April 2003 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of members with effect from 01/10/2002, the names of the following members.

S.No.	MRN	Member Name & Address	S.No.	MRN	Member Name & Address
1	050537	Mr. MOHATA RAMESH KUMAR ACA C/O TRUWOODS PRIVATE LIMITED 9-29-13 BALAJEE NAGAR WALTAIR UPLANDS CBM COMPOUND VISAKHAPATNAM 530003	2	201683	Mr. SUNIL K V FCA PRODUCT MANAGER GLOBAL PAYMENTS&CASH MGMT HSBC BANK MIDDLE EAST P O BOX NO. 66 DUBAI U A E



(ASHOK HALDIA)
SECRETARY